



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 21, 1989 (माघ 1, 1910)  
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 21, 1989 (MAGHA 1, 1910)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
[Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation]

## भाग I—खण्ड 4

### [PART I—SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित  
अधिसूचनाएं

(Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers Issued by the  
Ministry of Defence)

रक्षा मंत्रालय

(थल सेना मुख्यालय)

नई दिल्ली, 21 जनवरी 1989

सं० 2152, दिनांक 26-12-1988—राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में अवर सचिव श्री जे० पी० रस्तोगी को 26 दिसम्बर, 1988 से 30 सितम्बर, 1990 तक या अगले आदेश होने तक इसी मंत्रालय में वरिष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) के रूप में 3000-100-3500-125-4500 रुपए के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों पर नियुक्त करते हैं।

सं० 2153, दिनांक 8-12-1988—समय पूर्व अपने मूल संवर्ग में वापस जाने के परिणाम स्वरूप, कलकत्ता में तैनात अवर वित्त सहायक (निर्माणियां) श्री एस० एन० मिश्रा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, का सेवाएं 30 नवम्बर, 1988 (अप-राहत) से नई दिल्ली स्थित महानियंत्रक रक्षा लेखा को सौंपी जाती हैं।

जी० बी० बड्जडिगि, अवर सचिव

सं० 2154, दिनांक 28-12-1988—सक्षम प्राधिकारी द्वारा कु० जयश्री गलगोठिया, सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी की तदर्थ आधार पर सशस्त्र सेवा मुख्यालय सिविल सेवा में सिविलियन स्टाफ अधिकारी के रूप में 28-9-1988 से 4-10-1988 तक की अवधि के लिए नियुक्ति का अनुमोदन किया गया है।

उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर अल्पकालीन व्यवस्था है और इसे प्रशासनिक कार्यों से बिना सूचना के प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

प० अनन्तकृष्णन, उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

## मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

सं० 2155, दिनांक 23-12-1988— सक्षम प्राधि-  
कारी श्री भीम सिंह, सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी,  
(परखावधि) की सणमंत्र मेना मुख्यालय सिविल सेवा में  
1-2-1988 से सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी के रूप में

स्थायी आधार पर नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है और  
उन्हें श्री पी० वेंकटेश्वर राओ के ऊपर तथा उदय मोरे से नीचे  
स्थिति प्रदान की है।

टी० एम० श्याम, उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

निम्नलिखित व्यक्तियों की उनके नाम के सामने लिखी स्थापना में और तारीख में दो वर्ष की परखावधि पर अस्थायी वैज्ञानिक "बी" के पद पर :—

क्र० सं०	नाम	स्थापना	तारीख
1.	श्री बापीराजू मूरमपुडी	कम्बेट वाहन अनुसंधान तथा विकास स्थापना, अवाड़ी	31-12-87 (पूर्वलि)
2.	श्री एम० एम० रामन मूर्ति	नौसेना भौतिक तथा समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला, कोचीन	30-11-87 (पूर्वलि)
3.	श्री के० एम० जॉमेफ	नौसेना भौतिक तथा समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला, कोचीन	18-12-87
4.	श्रीमती वन्दना मित्तल	ठोसाधस्था भौतिक प्रयोगशाला दिल्ली	03-02-88 (पूर्वलि)
5.	श्री एम० शिवकुमार	इलेक्ट्रॉनिक्स तथा रडार विकास स्थापना, बंगलौर	24-12-87 (पूर्वलि)
6.	श्री के० प्रभाकर रेड्डी	आयुध अनुसंधान विकास स्थापना पुणे	26-02-88 (पूर्वलि)
7.	कु० ज्योति शंकर	रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, कम्प्यूटर केन्द्र, बंगलौर	28-01-88 (पूर्वलि)
8.	कु० के० रजनी	रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला, हैदराबाद	13-11-87 (पूर्वलि)
9.	श्री आर० सुन्दर	गैस टेबलिन अनुसंधान स्थापना, बंगलौर	21-01-88 (पूर्वलि)
10.	श्री हरि चौधरी चण्डी	रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला, हैदराबाद	10-11-87 (पूर्वलि)

## रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

## रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा

सं० 2156, दिनांक 21-12-1988—राष्ट्रपति, निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं :—

निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने लिखी स्थापना में और तारीख से दो वर्ष की परखावधि पर अस्थायी वैज्ञानिक "बी" के पद पर :—

क्रमांक	नाम	स्थापना	तारीख
1	2	3	4
1.	श्री अनाम चरण माह	आयुध प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे	03-10-87 (पूर्वलि)
2.	श्री आर० मोम्यनारायणन्	—वही—	03-10-87
3.	श्री एन० वी० बी० गंगाधर राव	—वही—	(पूर्वलि)
4.	कु० ए० भाग्यम्मा	—वही—	04-10-87 (पूर्वलि)
			3-10-87 (पूर्वलि)

(1)	(2)	(3)	(4)
5. श्री एम० रवि बाबू		आयुध प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे	03-10-87 (पूर्वाह्न)
6. श्री ए०के० श्रीवास्तव		—वही—	03-10-87 (पूर्वाह्न)
7. श्री एम०एल०एन० राव		—वही—	03-10-87 (पूर्वाह्न)
8. श्री एम० निरुमावल्लभ		ठोसावस्था भौतिक प्रयोगशाला, दिल्ली	11-03-88 (पूर्वाह्न)
9. कु० विजयेता बगई		रक्षा विज्ञान केन्द्र, दिल्ली	01-11-88 (पूर्वाह्न)
10. श्री रामचन्द्र बी० जकाती		गैस कर्बाइन अनुसंधान स्थापना बंगलौर	03-11-88 (पूर्वाह्न)
11. कु० आर० अरुंधती		ए०एम० डब्ल्यू० ए० सी०, बंगलौर	02-11-88 (पूर्वाह्न)
12. श्री पी० कोवंडरामन		कम्बैट वाहन अनुसंधान तथा विकास, स्थापना, अवाड़ी, मद्रास	27-04-88 (पूर्वाह्न)
13. श्री बी०बी० एन० जयलू		गैस कर्बाइन अनुसंधान स्थापना, बंगलौर	18-01-88 (पूर्वाह्न)
14. कु० शेनी जोसफ		आयुध प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे	03-10-87 (पूर्वाह्न)
15. श्रीमती अरुणा त्यागी		रक्षा शरीर प्रिया तथा सम्बद्ध विज्ञान संस्थान, दिल्ली कैट	21-07-88 (पूर्वाह्न)
16. कु० सोनिया रेलन		रक्षा वैज्ञानिक सूचना एवं प्रलेख केन्द्र, दिल्ली	27-05-86 (पूर्वाह्न)
17. श्री अन्नाहम मैथ्यू के०		कम्बैट वाहन अनुसंधान तथा विकास स्थापना, अवाड़ी मद्रास नरसिंह दास, सहायक निदेशक (कार्मिक)	26-11-87 (पूर्वाह्न)

सं० 2157, दिनांक 16-12-1988—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा

डा० एम० वेंकटरामन, वैज्ञानिक “सी” (तदर्थ) को 10-10-1988 (पूर्वाह्न) से नौसेना रसायन तथा धातु-मय प्रयोगशाला, बम्बई में अस्थायी वैज्ञानिक “सी” के रूप में।

जितेन्द्र दुबे, संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

सं० 2158, दिनांक 8-11-88—राष्ट्रपति निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्ति करते हैं :—

निर्यात सेना

स्थायी आयोज

19 दिसम्बर 1987 से 2/लैफ्टिनेन्ट

दिनेश सिंह यादव (आईसी-47001 एन) मैक इन्फैन्ट्री, देवेन्द्र शर्मा (आई सी-47003 वार्ड) ए सी, पदम सिंह

शेखावत (आईसी-47004 एफ) मैक इन्फैन्ट्री, चन्द्र विजय सिंह (आईसी-47005 के) ए सी, आर नयावट (आईसी-47006 एम) मैक इन्फैन्ट्री, अण्वनी कुमार यादव (आई सी-47007 पी) ए सी, मन्दीप सिंह विज (आईसी-47008 एक्स) आर्टी, राजेश कुमार उनियाल (आईसी-47009 ए) इंजीनियर्स, अनुराग कुमार (आईसी-47010 पी) ई एम ई, विनायक सैनी (आईसी-47011 एक्स) इंजीनियर्स, तेजवीर सिंह मुण्डी (आईसी-47012 ए) ए सी, दीपक मेहरा (आईसी-47013 एच) इन्फैन्ट्री, तपन कुमार दास (आईसी-47014 एल) ई एम ई, राजीव अरोड़ा (आई सी-47015 एन) इन्फैन्ट्री, थोमस थोमस टो (आईसी-47016 डब्ल्यू) सिगनल, दीपाकर चौधरी (आई सी-47017 वार्ड) इन्फैन्ट्री, राजेन्द्र सिंह (आईसी-47018 एफ) आर्टी, मन्दीप घाई (आईसी-47019 के) इन्फैन्ट्री, दिनेश सिंह राणा (आई सी-47020 वार्ड) इन्फैन्ट्री, राजाध्यक्ष योगेश बालकृष्ण (आई सी-47021 एफ) इन्फैन्ट्री, अरविन्द कुमार अवरोल (आई सी-47022 के) ए ओ सी, नवनीत सिंह सनो

(आई सी-47023 एम) आर्टी, राम गोपाल शुक्ला (आई सी-47024 पी) आर्टी, विकास गरोवर (आईसी-47026 ए) आर्टी, अजय कालिया (आईसी-47027 एच) आर्टी, राजमोहन (आईसी-47028 एल) सिगनल, भगत प्रकाश कमल (आईसी-47029 एन) इन्फेंट्री, विश्रम एम डेट (आईसी-47030 एच) इन्फेंट्री, अरूण प्रताप सिंह राजुरा (आईसी-47031 एल) इन्फेंट्री, प्रवीण शर्मा (आईसी-47032 एन) इन्फेंट्री, संजय ठाकुर (आई सी-47033 डबल्यू) इन्फेंट्री, विपेन्द्र सिंह रावत (आई सी-47034 वाई) इंजीनियर्स, प्रवीण पी० मिश्र (आई सी-47035 एफ) इन्फेंट्री दीपक गर्ग (आईसी-47035 के) इन्फेंट्री, ब्रह्म प्रकाश यादव (आईसी-47037 एम) ए ओ सी, सुरेन्द्र नाथ तिवारी (आईसी-47038 पी) इन्फेंट्री, सर्वण सिंह (आईसी-47039 एक्स) ए एम सी, शरव विक्रम सिंह (आईसी-47041 पी) मेक इन्फेंट्री, गोट्टू बेन्केटा हरी प्रसाद (आईसी-47042 एक्स) इन्फेंट्री, संग्राम शाहजी मोहन (आईसी-47044 एच) इन्फेंट्री, अशोक कुमार भुयाद (आईसी-47045 एल) आर्टी, शयलेन्द्र मलिक (आईसी-47046 एन) ई एम ई, जय सिंह यादव (आईसी-47047 डबल्यू) इन्फेंट्री, राजेश खर्ब (आईसी-47048 वाई) इन्फेंट्री, जितेन्द्र शर्मा (आईसी-47049 एफ) सिगनल, गुरबीर सिंह सर्ना (आई सी-47050 डबल्यू) इन्फेंट्री, कृष्ण राज (आईसी-47051 वाई) आर्टी, धर्मेश्वर सिंह यादव (आईसी-47052 एफ) इन्फेंट्री, मोहन सिंह (आईसी-47053 के) इन्फेंट्री, हरवीर सिंह (आईसी-47054 एम) आर्टी अशीश शर्मा (आईसी-47055 पी) आर्टी, मुकेश अग्रवाल (आईसी-47057 ए) आर्टी, सतबीर सिंह (आईसी-47058 एच) इन्फेंट्री, अजय भाटिया (आईसी-47059 -एल) ई एम ई, निकेश नन्दन (आईसी-47060 ए) आर्टी, विकास शर्मा (आईसी-47061 एच) आर्टी, आलोक जैकोब (आईसी-47062 एल) इन्फेंट्री, संजय शर्मा (आई सी-47063 एन) आर्टी, मनोज नटराजन (आईसी-47064 डबल्यू) इन्फेंट्री, अरविन्दर सिंह भुल्लर (आई सी-47065 वाई) ए एम सी, संजय शर्मा (आईसी-47066 एफ) सिगनल, पवन सिंह सामयाल (आईसी-47067 के) सिगनल, सुखविन्दर सिंह खेड़ा (आई सी-47069 पी) इंजीनियर्स, अभिजीत माधव बापस (आईसी-47070 के) इन्फेंट्री, कमल सिंह भाडवाल (आईसी-47071 एम) ए एस सी, रविन्द्र प्रताप सिंह (आईसी-47072 पी) इन्फेंट्री, संजीव त्यागी (आईसी-47073-एक्स) ए एस सी; कुलवन्त सिंह (आईसी-47074 ए) आर्टी, वान्तेरु सिवा कोटा रेड्डी (आईसी-47075 -एच) आर्टी, राकेश कपूर (आईसी-47071 एल) ए सी, वरेन्द्र सिंह (आईसी-47077 एन) इन्फेंट्री, मनीश चन्द्र (आई सी-47078 डबल्यू) इंजीनियर्स, संजय सेठी (आईसी-47079 वाई) ए ओ सी, विक्रम जीत सिंह (आईसी-47080 एन) इन्फेंट्री, हर रूप इन्द्र सिंह बगर

(आई सी-47081 डबल्यू) इन्फेंट्री, दीपेन्द्र सिंह सेनी (आईसी-47082 वाई) इन्फेंट्री, प्रेमवीर सिंह सांगवान (आईसी-47084 के) आर्टी, शरद काकू (आईसी-47085 एम) आर्टी, अवधूत देशपाण्डे (आईसी-47086-पी) सिगनल, राजेश कमल शर्मा (आईसी-47087 एक्स) आर्टी, पन्नाया जी सुब्बापुरमाथ (आई सी-47088 ए) आर्टी, सुरेन्द्र सिंह (आईसी-47089 एच) आर्टी, दीपक थापा (आईसी-47090 एक्स) इन्फेंट्री, ओम प्रकाश राणा (आईसी-47092 एच) इन्फेंट्री, ऊषनिशा जयटली (आई सी-47093 एल) इन्फेंट्री, संदीप सुधेरा (आई सी-47094 एन) इंजीनियर्स, अनुराग अग्रमानी (आई सी-47095 डबल्यू) सिगनल, संजय कुमार विद्याधी (आई सी-47096 वाई) इंजीनियर्स, जगहर सिंह (आई सी-47097 एफ) आर्टी, कविता अग्रस्तीने दमोजा (आई सी-47098 के) ई एम ई, राजेश किसानराव गायकवाड़ (आईसी-47099 एम) इन्फेंट्री, संजय कुमार कौशल (आईसी-47100 डबल्यू) ए सी, मनीश गोसाई (आई सी-47101 वाई) ए एस सी, सूचीपत्र शर्मा (आई सी-47102 एफ) इन्फेंट्री, सरप्रीत सिंह बनिपाल (आई सी-47103 के) ए एस सी, संजय कुमार करवाल (आई सी-47104 एम) ई एम ई, उमेश चन्द्र राय (आई सी-47106 एक्स) ई एम ई, रतनदीप दत्ता (आईसी-47107 ए) इन्फेंट्री, दीपक कोहली (आईसी-47108-एच) आर्टी, विनीत भाटिया (आईसी-47109 एल) सिगनल, विशाल मेहता (आईसी-47110 ए) आर्टी, नरेन्द्र सिंह यादव (आई सी-47113 एन) इन्फेंट्री, रणजीत सिंह नट्ट (आईसी-47114 डबल्यू) ए ए सी, प्रवीर बारिका (आई सी-47115-वाई) इन्फेंट्री, कासीराजन मकरापाडियान कुमारसेन (आईसी-47117 के) इन्फेंट्री, रवि शाह (आईसी-47118 एम) इन्फेंट्री, अनिल कुमार बी के (आईसी-47119 पी) ए सी, भूषण लाल (आईसी-47120 के) इन्फेंट्री, अनमोल मूद (आई सी-47121-एम) इन्फेंट्री, संजय मुखर्जी (आईसी-47122 पी) सिगनल, जितेन्द्र सिंह होलन (आईसी-47123-एक्स) आर्टी, अरविन्द पी मुलिमानी (आई सी-47125 एच) आर्टी, प्रवीण माथुर (आई सी-47126 एल) इंजीनियर्स, अजय तोमर (आई सी-47127 एन) ए एस सी, अरूण यादव (आई सी-47128 डबल्यू) इन्फेंट्री, अनुपम जैन (आई सी-47129-वाई), आर्टी, दीपक कुण्डरा (आई सी-47131 डबल्यू) आर्टी, अमित मूद (आई सी-47132-वाई) ई एम ई अविनाश सिंह बरार (आई सी-47133 एफ) इन्फेंट्री, विक्रम सिंह (आईसी-47134 के) ए एस सी, अजय बक्सी (आई सी-47138 ए) इन्फेंट्री, पुष्पेन्द्र पाल सिंह (आई सी-47139 एच) इन्फेंट्री, राज कुमार अग्रो (आईसी-47141 ए) ए ओ सी, रविन्द्र धनवड़ (आई सी-47142 एच) ई एम ई, सुमीत तलवार (आईसी-47144 एन) आर्टी, तमल कुमार मुखर्जी (आई सी-

47145 डबल्यू) इन्फैंट्री, मनदीप सिंह गिल (आई० सी०-47146 आई) आर्टी, शिरीष भाटिया (आई० सी०-47147 एफ) ई एम ई, अर्जुन कुमार दत्ता (आई० सी०-47148 के) ए एस सी, शुभा मित्रा (आई० सी०-47149 एम) ए एस सी, पंकज सिंह (आई० सी०-47150 एफ) इन्फैंट्री, विक्रम यादव (आई० सी०-47151 के) आर्टी, इरुबाल सिंह (आई० सी०-47152 एम) इन्फैंट्री, रणजीव सानयाल (आई० सी०-47153 पी) सिगनल, खण्डेकर संजीव बी (आई० सी०-47154-एक्स) इन्फैंट्री, उमेश चन्द्र भाट्ट (आई० सी०-47155-ए) ए ओ सी, देवेन्द्र पाल सिंह (आई० सी०-47156 एच) इन्फैंट्री, जी श्री रामा राव (आई० सी०-47157 एल) इन्फैंट्री, जया कुमार एस (आई० सी०-47158 एन) आर्टी, जोगेन्द्र कुमार (आई० सी०-47159-डबल्यू) इन्फैंट्री, प्रवेश कुमार शर्मा (आई० सी०-47160 एल) आर्टी, कुनाल कश्यप (आई० सी०-47161-एन) आर्टी, सुभाकर राय (आई० सी०-47162 डबल्यू) आर्टी, शाहजाद सलीम दुर्रानी (आई० सी०-47163 आई) आर्टी, अजय कादयान (आई० सी०-47164 एफ) इन्फैंट्री, संजय शर्मा (आई० सी०-47166-एम) इंजीनियर्स, विजय कुमार शर्मा (आई० सी०-47167-पी), सिगनल, निरूपचनादन (आई० सी०-47168-एक्स) आर्टी, जोयदीप चटर्जी (आई० सी०-47170 पी) इन्फैंट्री, अजय पाल सिंह रणधावा (आई० सी०-47171-एक्स) आर्टी, बलबीन सिंह धींगरा (आई० सी०-47172 ए) सिगनल, निकुंज गोयल (आई० सी०-47174 एल) मेक इन्फैंट्री, राजेश शर्मा (आई० सी०-47175 एन) ए ओ सी, एम आर रविन्द्र नायर (आई० सी०-47176 डबल्यू) इंजीनियर्स, आलोक बेरी (आई० सी०-47177-आई) आर्टी, सुरेश कुमार यादव (आई० सी०-47178 एफ) इन्फैंट्री, विजय पाल सिंह (आई० सी०-47179 के) ए ओ सी, धीरज सिंह रघुवन्गी (आई० सी०-47180 आई) इन्ट, संजय प्रसाद गुप्ता (आई० सी०-47181-एफ) इन्फैंट्री, अनिल कुमार गुलिया (आई० सी०-47182-के) इन्फैंट्री, फत्सालकर देवदत्त श्रीकान्त (आई० सी०-47184 पी) ए सी, मोहन सिंह (आई० सी०-47185-एक्स) इन्फैंट्री, आन्तनु राय (आई० सी०-47186 एल) ई एम ई, सुरेन्द्र पाल सिंह (आई० सी०-47188 एल) इन्फैंट्री, मरुत्युजंय एस यारनल (आई० सी०-47191 एल) आर्टी, राकेश कुमार सिंह (आई० सी०-47192-एन) इन्फैंट्री, दिनेश कुमार मल्होत्रा (आई० सी०-47193 डबल्यू) इन्फैंट्री, जोगेन्द्र सिंह तबर (आई० सी०-47194 आई) इन्फैंट्री, संजीव क्याल माथुर (आई० सी०-47195 एफ) ई एम ई, आर पी एम गिल (आई० सी०-47196 के) आर्टी, जितेन्द्र अविनाश साहस्रावधे (आई० सी०-47198 पी) आर्टी, आलोक जोशी (आई० सी०-47199 एक्स) इन्फैंट्री, दिनेश आर मुदरी (आई० सी०-47200 एफ) ए एस सी, रामा कान्त वर्मन (आई० सी०-47202 एम) आर्टी, पी एम बृन्दावन लाल (आई० सी०-47203 पी) इन्फैंट्री, बंकेटेश एम नायक (आई० सी०-47204 एक्स) ए एस सी, गजेन्द्र

सिंह सरिन (आई० सी०-47205 ए) इन्फैंट्री, निर्मल सिंह मान (आई० सी०-47206 एच) ए ओ सी, अनिल नेगी (आई० सी०-47207 एल) इंजीनियर्स, अजय जोशी (आई० सी०-47209 डबल्यू) इन्फैंट्री, सूनीत मलिक (आई० सी०-47210 एल) सिगनल, तेजेंद्र कुमार थारर (आई० सी०-47211 एन) ई एम ई, रणजीत सिंह मलिक (आई० सी०-47212 डबल्यू) आर्टी, अरोह कुमार (आई० सी०-47213 आई) इंजीनियर्स, आर श्रीनिवास (आई० सी०-47214 एफ) आर्टी, संजय कुमार जैन (आई० सी०-47215-के) ए ओ सी, हृषांग मिर्जा (आई० सी०-47216 एम) इन्फैंट्री, प्रमोद कुमार रावत (आई० सी०-47217 पी) इन्फैंट्री, नरेन्द्र सिंह पवार (आई० सी०-47219 ए) आर्टी, अमित (आई० सी०-47220 पी) ई एम ई, जी मथाह-लागन (आई० सी०-47221 एक्स) आर्टी, अम्जन कुमार मुखोपाध्याय (आई० सी०-47222 ए) सिगनल, परमेश शर्मा (आई० सी०-47224 एल) इन्फैंट्री, राहुल सिंह (आई० सी०-47226 डबल्यू) मेक इन्फैंट्री, प्रमोद कोशिक (आई० सी०-47227 आई) इन्फैंट्री, प्रवीणकुमार जी सथवारा (आई० सी०-47228 एफ) इंजीनियर्स, दलविन्दर सिंह (आई० सी०-47229 के) इन्फैंट्री, भूपन्द्र सिंह द्विवेदी (आई० सी०-47230 आई) मनजीत सिंह (आई० सी०-47231 एफ) सिगनल, देवेन्द्र पाल (आई० सी०-47232 के) ई एम ई, सोमेश्वर सिंह सिन्धुवर (आई० सी०-47233 एम) इन्फैंट्री के रमेश कुमार (आई० सी०-47235 एक्स) ई एम ई, हरप्रीत सिंह (आई० सी०-47236 ए) आर्टी, विरेन्द्र कुमार शर्मा (आई० सी०-47237 एच) ए एस सी, शयलेन्द्र पी भालेकर (आई० सी०-47238 एल) आर्टी, विजयकुमार प्रशुराम आदसूने (आई० सी०-47240 एच) इन्फैंट्री, लाल विवेक राज सिंह (आई० सी०-47241 एल) इन्फैंट्री, जोगेन्द्र सिंह लाकरा (आई० सी०-47242 एन) ए सी, बेबी सी एम (आई० सी०-47243 डबल्यू) ए सी, अजय गौतम (आई० सी०-47245 एफ) ए ओ सी, कबीर बीर सिंह (आई० सी०-47246 के) आर्टी, पियूष पाण्डेय (आई० सी०-47247 एन) इन्फैंट्री, संदेश शर्मा (आई० सी०-47248 पी) सिगनल, मनु चौपड़ा (आई० सी०-47249 एक्स) ए ओ सी पी केपवादेसन (आई० सी०-47250 एम) इन्फैंट्री, गणोकान्त यशवन्त जाधव (आई० सी०-47251 पी) इन्फैंट्री, रणदीप पाल सिंह वराहच (आई० सी०-47252 एक्स) इन्फैंट्री, गजेन्द्र जोशी (आई० सी०-47253 ए) इन्फैंट्री, कुलदीप सिंह बिधान (आई० सी०-47254 एच) आर्टी, श्रीधर बो कुतारंगी (आई० सी०-47256 एन) ई एम ई, कबीर जीत सिंह भायल (आई० सी०-47257 डबल्यू) आर्टी, अविनाश रावत (आई० सी०-47258 आई) ए ओ सी, अनुराग अस्थाना (आई० सी०-47260 डबल्यू) सिगनल, प्रसान्त कुमार राय (आई० सी०-47262 एफ) आर्टी, राजीव ठाकुर (आई० सी०-47263

के) इन्फैंट्री, करणदीप सिंह (आई०सी०-47264 एम) इन्फैंट्री, चौधरी गणपत मारुती (आई० सी०-47265 पी) इंजीनियर्स, एम जी विजया कुमार (आई०सी०-47266 एक्स) इंजीनियर्स, ब्रज राज तिवारी (आई०सी०-47268-एच) ए एम सी, गुरजीवन सिंह भट्टी (आई०सी०-47269 एल) इन्फैंट्री, शिवनन्दन शर्मा (आई०सी०-47270 ए) आर्टी, हरजेन्दर सिंह (आई०सी०-47271-एच) इन्फैंट्री, राजबीर सिंह ब्रिक (आई०सी०-47272 एल) आर्टी, अणोक कुमार (आई०सी०-47273 एन) इन्फैंट्री, विवेक काल (आई०सी०-47276 एफ) मेक इन्फैंट्री, संजीवन सिंह गुलेरिया (आई० सी०-47277 के) इन्फैंट्री, सूर्य पाल सिंह रावत (आई० सी०-47278 एम०) इन्फैंट्री, हेमन्त कुमार (आई० सी०-47279 पी०) ई० एम० ई०, हरमंजोत सिंह चोपड़ा (आई० सी०-47280 के०) इन्फैंट्री, जसवन्त सिंह (आई० सी०-47281 एम०) सिगनल, संदीप नागरथ (आई० सी०-47282 पी०) ए० सी०, जसमीत सिंह महेन्द्र (आई० सी०-47283 एक्स०) सिगनल, जमबीर सिंह बोपाराय (आई० सी०-47284 ए०) आर्टी, कौशिक मिश्रकार (आई० सी०-47285 एच०) इन्फैंट्री, सारभ काला (आई० सी०-47288 डब्ल्यू०) इंजीनियर्स, गोविन्द सिंह वर्मा (आई० सी०-47289 बाई०) ए०एस० सी०, दलजेन्दर सिंह नाय्यर (आई० सी०-47290 एच०) इन्फैंट्री, चौधरी राजेन्द्र कुमार सजवाल (आई० सी०-47291 डब्ल्यू०) इन्फैंट्री, राजीव सेठी (आई० सी०-47292 बाई०) आर्टी, बलजीत सिंह बाजवा (आई०सी०-47293 एफ०) आर्टी, राजीव सिंह (आई० सी०-47294 के०) इन्फैंट्री, प्रेम सिंह खड्वाल (आई० सी०-47295 एम०) ए० एस० सी०, दिनेश कुमार शर्मा, (आई० सी०-47296 पी०) मेक इन्फैंट्री, आश्वित्य भागवत (आई० सी०-47297 एक्स०) सिगनल, रविन्द्र सिंह (आई० सी०-47298 ए०) इन्फैंट्री, सुशोभित कामरा (आई० सी०-47300 एम०) ई०एम० ई०, नगेन्द्र सिंह ठाकुर (आई० सी०-47302 एक्स०) इन्फैंट्री, तरेण सिंह चौहान (आई०सी०-47303 ए०) इन्फैंट्री, राम धन सिंह (आई० सी०-47304 एच०) ए० एस० सी०, संजय जेठा (आई० सी०-47305 एल०) ए० ओ० सी०, साबुज कुमार पाण्डा (आई०सी०-47306 एन०) ए० सी०, सुन्दरगोपाल रविचन्द्र (आई०सी०-47307 डब्ल्यू०) ए० सी०, रणबीर सिप यादव (आई० सी०-47308 बाई०) ए० एस० सी०, जगदीश सिंह (आई० सी०-47309 एफ०) ए० ओ० सी०, मनोग जैन (आई० सी०-47310 डब्ल्यू०) ई० एम० ई०, बाशीर अहमद (आई० सी०-47311 बाई०) इन्फैंट्री, वरिन्दर सिंह (आई० सी०-47312 एफ०) ई० एम० ई०, पी० रघु रमण (आई० सी०-47313 के०) मेक इन्फैंट्री, कंवलजीत सिंह राहठी (आई० सी०-47315 पी०) आर्टी, दीपक रंजन सिन्हा (आई० सी०-47316 एक्स०) इंजीनियर्स, रविन्द्र कुमार पाठक (आई० सी०-47317 ए०) सिगनल, प्रीतपाल सिंह (आई० सी०-47321 एच०) इन्फैंट्री, प्रमेन्द्रजीत सिंह (आई० सी०-47322 एल०) इन्फैंट्री, धिनीव भाइ (आई० सी०-47324 डब्ल्यू०) इन्फैंट्री, सुनिल परमार (आई० सी०-47325 बाई०) इन्फैंट्री, दीपक

सिंह (आई० सी०-47326 एफ०) आर्टी, कुगां तशारिंग शेरेपा (आई० सी०-47327 के०) आर्टी, राजकुमार जेसावाल (आई० सी०-47328 एम०) इन्फैंट्री, आशुतोष अहलुवालिया (आई० सी०-47329 पी०) आर्टी, उज्ज्वल प्रकाश (आई० सी०-47330 के०) सिगनल, देवेन्द्र कुमार यादव (आई०सी०-47332 पी०) इंजीनियर्स, संदीप चौधरी (आई० सी०-47333 एक्स०) सिगनल, हरीश कटोच (आई० सी०-47334 ए०) ए० सी०, अलंकार भारद्वाज (आई० सी०-47335 एच०) ए० एस० सी०, टी० थोमस (आई० सी०-47336 एल०) ए० एस० सी०, उधानिया संजय कुमार गोपालदास (आई० सी०-47337 एन०) आर्टी, गीतम नन्दी (आई० सी०-47338 डब्ल्यू०) इन्फैंट्री, असीम कुकरेजा (आई०सी०-47339 बाई०) ए० सी०, विक्रम हेबले (आई० सी०-47340 एन०) ए० एस० सी०, बरिजेश कुमार धनखड़ (आई० सी०-47345 एम०) इन्फैंट्री, गुरप्रीत मोहन सिंह बिन्दरा (आई०सी०-47346 पी०) आर्टी, विक्रम उप्पल (आई० सी०-47347 एक्स०) आर्टी अनुराग गुप्ता (आई० सी०-47348 ए०) इन्फैंट्री, राजेश त्यागी (आई० सी०-47351 ए०) इन्फैंट्री, दबासीस मुखोपाध्याय (आई० सी०-47353 एल०) इंजीनियर्स, गुरबक्श सिंह सन्धू (आई० सी०-47354 एन०) इन्फैंट्री, जगदीश चन्द्र पाटी (आई० सी०-47355 डब्ल्यू०) इंजीनियर्स, हरमेन्द्र प्रीत सिंह (आई० सी०-47356 बाई०) सिगनल, नवीन राय मागो (आई० सी०-47357 एफ० ई० एम०) ई०; राहुल राय (आई० सी०-47358 के०) आर्टी, सुनिल सेठ (आई० सी०-47361 के०) ए० सी०, इन्द्र मोहन सिंह (आई० सी०-47362 एम०) इन्फैंट्री, मनीश कपूर (आई०सी०-47364 एक्स०) इंजीनियर्स, संजय श्रीवास्तव (आई० सी०-47365 ए०) आर्टी, सामीर सिंह (आई० सी०-47367 एल०) आर्टी, श्री भगवान शर्मा (आई० सी०-47368 एन०) सिगनल, कंवलजीत सिंह तलवार (आई० सी०-47370 एल०) इन्फैंट्री, राज अरुण शर्मा (आई०सी०-47372 डब्ल्यू०) आर्टी, पानिकर थोमस पी० जी० (आई० सी०-47373 बाई०) ए० सी०, प्रह्लाद किसन जेटले (आई० सी०-47374 एफ०) इन्फैंट्री, शंकर सिंह (आई० सी०-47375 के०) इन्फैंट्री, जोस कुरियन (आई०सी०-47376 एम०) आर्टी, राहुल चन्द्र (आई० सी०-47377 पी०) आर्टी, संजय भूपण (आई० सी०-47378 एक्स०) इन्फैंट्री, उमेश कुमार पन्त (आई० सी०-47379 ए०) ई० एम० ई०, जगनार सिंह (आई० सी०-47383 एच०) आर्टी, अरुण मल्होत्रा (आई० सी०-47384 एल०) ए० एस० सी०, राजेन्द्र सिंह सियोरन (आई० सी०-47385 एन०) ए० एस० सी०, सन्तोष के० एम० (आई० सी०-47386 डब्ल्यू०) ए० ओ० सी०, सुरेन्द्र कुमार शर्मा (आई० सी०-47387 बाई०) इन्फैंट्री, अमिताभ मुखर्जी (आई० सी०-47389 के०) आर्टी, अरविन्द तोमर (आई० सी०-47390 बाई०) इन्फैंट्री, संजय लागेह (आई० सी०-47393 एम०) ए० एस० सी०, रोहित मिश्राल (आई० सी०-47395 एक्स०) इन्फैंट्री, दलीप कुमार आचार्य (आई० सी०-47396 ए०) इन्फैंट्री, विनय कुमार गुप्ता (आई० सी०-47397 एच०) इन्फैंट्री, कुलदीप यादव (आई० सी०-47400 एम०) ई० एम० ई०, एम० किशोर बलियप्पा (आई० सी०-47405 डब्ल्यू०) इन्फैंट्री, बीरबल सिंह (आई०

सी०-47407 एफ०) इन्फैंट्री, विजय धवन (आई० सी०-47408 के०) ए० ओ० सी०, संजय अवेजा (आई० सी०-47410 एफ०) इन्फैंट्री, जगजीत सिंह सन्धू (आई० सी०-47411 के०) इन्फैंट्री, प्रभाकर सिंह गोतम (आई० सी०-47412 एम०) आर्टी, असुल भण्डारी (आई० सी०-47413 पी०) ए० एस० सी०, कैलाश प्रकाश मलिक (आई० सी०-47414 एक्स०) इंजीनियर्स, योगेश चन्द्र लोहमी (आई० सी०-47415 ए०) इन्फैंट्री, उत्तम कुमार साप (आई० सी०-47417 एल०) आर्टी, जेबेल अन्टोनी (आई० सी०-47418 एन०) ए० ओ० सी०, विकास रंजन (आई० सी०-47419 डब्ल्यू०) आर्टी, शिवराज सिंह राठोड़ (आई० सी०-47420 एल०) इन्फैंट्री, खेम प्रसाद (आई० सी०-47421 एन०) आर्टी, शावदे नन्दा कुमार जना देन (आई० सी०-47423 वाई०) इन्फैंट्री, जसवन्त सिंह चौहान (आई० सी०-47424 एफ०) इन्फैंट्री, दिनेश सोनी (आई० सी०-47425 के०) ए० ओ० सी०, अनिल कुमार पठानिया (आई० सी०-47426 एम०) इन्फैंट्री, सुशील एस० कुलकर्णी (आई० सी०-47429 ए०) ए० ओ० सी०, हेमन्त सरोच (आई० सी०-47431 एक्स०) इन्फैंट्री, भगवान सिंह शेखावत (आई० सी०-47433 एच०) आर्टी, अरुण नयन माथुर (आई० सी०-47434 एल०) आर्टी, राजेश जगताप (आई० सी०-47435 एन०) सिगनल, गौतम मजुमदार (आई० सी०-47436 डब्ल्यू०) ए० सी०, कृष्ण कुमार सिंह (आई० सी०-47438 ए०) इन्फैंट्री, दीपक चतुर्वेदी (आई० सी०-47443 एम०) ए० एस० सी०, धर्म पाल (आई० सी०-47444 पी०) इन्फैंट्री, संजय धिलड्याल (आई० सी०-47446 ए०) ए० सी०, चान्दी प्रसाद शर्मा (आई० सी०-47450 एच०) सिगनल, संजीव सिंह तोमर (आई० सी०-47453 डब्ल्यू०) आर्टी, हरेन्द्र सिंह (आई० सी०-47454 वाई०) इन्फैंट्री, एस० पाल बनवायट (आई० सी०-47455 एफ०) सिगनल, ओम प्रकाश चौबय (आई० सी०-47456 के०) ए० एस० सी०, विश राय (आई० सी०-47457 एम०) ए० ओ० सी०, मनरीत सिंह बरार (आई० सी०-47458 पी०) आर्टी, प्रवीन सिंह (आई० सी०-47460 एम०) इन्फैंट्री, अरविन्द एस० गिल (आई० सी०-47462 एक्स०) इन्फैंट्री, राजीत सिंह बब्बल (आई० सी०-47463 ए०) आर्टी, विमल कपूर (आई० सी०-47464 एच०) मेक इन्फैंट्री, संजीव सिंह (आई० सी०-47465 एल०) इन्फैंट्री, आर० अरुण (आई० सी०-47468 वाई०) आर्टी, दिनकर हितेशी (आई० सी०-47469 एफ०) ई० एम० ई०, विवेक झांजी (आई० सी०-47471 वाई०) ए० एस० सी०, अनन्त निरंजन (आई० सी०-47472 एफ०) ई० एम० ई०, सुरेन्द्र सिंह (आई० सी०-47473 के०) इन्फैंट्री, एस० विजयानन्द बालाजी (आई० सी०-47475 पी०) आर्टी, रजनीश माथुर (आई० सी०-47476 एक्स०) इन्फैंट्री, एम० जुलियस जार्ज (आई० सी०-47477 ए०) इंजीनियर्स, अविनाश मुल्लिक (आई० सी०-47479 एल०) इन्फैंट्री।

64 के अन्तर्गत 5 मार्च 1988 से 2 लेफ्टिनेंट के पद पर (जो परब्रार्थित हैं) परब्रार्थित समय समाप्त होने पर उसी तिथि से पुष्ट किया जाता है :-

जगमोहन सिंह (एम० एम०-33245 डब्ल्यू०) आर्टिलरी, अभिमन्यु सिन्धू (एम० एम०-33247 एफ०) मेक इन्फैंट्री, देविन्द्र कुमार (एस० एस०-33249 एम०) इन्फैंट्री, रतन कुमार अड़पा के० आर० (एस० एस०-33251 के०) इन्फैंट्री, सुख चरण सिंह रामे (एम० एम०-33254 एक्स०) इन्फैंट्री, राम महार सिंह (एस० एस०-33255 ए०) ए० ओ० सी०, नरेन्द्र सिंह पाल (एम० एम०-33256 एच०) इन्फैंट्री, अनूप सिंह जाखर (एस० एम०-33257 एल०) आर्टिलरी, शशी कान्त तिवारी (एस० एम०-33258 एन०) इन्फैंट्री, के० प्रभाकर हेंडर (एस० एस०-33261 एन०) सिगनल, रविन्द्र कुमार सिंह (एस० एस०-33262 डब्ल्यू०) इन्फैंट्री, के० बालाजी कासी राजा (एस० एस०-33263 वाई०) इन्फैंट्री, सुशील यादव (एस० एस०-33266 एम०) आर्टिलरी, आर० सी० श्रीकान्त (एस० एस०-33268 एक्स०) आर्टिलरी, प्रबुध शर्मा (एस० एस०-33270 पी०) आर्टिलरी, मौलिस चन्द्र (एस० एस०-33271 एक्स०) इंजीनियर्स, देवदाम पदमागिरी स्वर्ण (एस० एस०-33272 ए०) आर्टिलरी, संजीव दत्त (एस० एस०-33273 एच०) ए० एस० सी०, सुरेश कुमार (एस० एस०-33274 एल०) ई० एम० ई०, तेजिन्द्र कुमार एम० पी० (एस० एस०-33275 एन०) सिगनल, राजू सिंह (एस० एस०-33276 डब्ल्यू०) इंजीनियर्स, जतिन्द्र सिंह धवत (एस० एस०-33277 एक्स०) ई० एम० ई०, विक्रम रामे भटनागर (एस० एस०-33278 एफ०) सिगनल, जितेन्द्र मोहन पठानिया, (एस० एस०-33279 के०) आर्टिलरी, विभाई मानसिंह (एस० एस०-33280 वाई०) आर्टिलरी, वरिन्द्र सिंह शरावत (एस० एस०-33284 पी०) इन्फैंट्री, रोविन जार्ज अब्राहम (एस० एस०-33286 ए०) इन्फैंट्री, हितेश चन्देल (एस० एस०-33288 एल०) इन्फैंट्री, बलराज सरदना (एस० एस०-33289 एन०) आर्टिलरी, मुनीश शर्मा (एम० एस०-33290 एच०) आर्टिलरी, वरगिस जोर्ज (एस० एस०-33291 एल०) आर्टिलरी, हेमदे गौतम राधाकृष्ण (एस० एस०-33293 डब्ल्यू०) ए० ओ० सी०, अविनाश मधुकर श्रिवालकर (एस० एस०-33294 वाई०) इंजीनियर्स, विवेक मिश्रा (एस० एस०-33295 एफ०) आर्टिलरी, हन्ना कुमार लाल (एस० एस०-33296 के०) ए० ओ० सी०, रतनकर राजेश यशवन्त (एस० एम०-33300 एफ०) आर्टिलरी, दीपचन्द आगर (एस० एस०-33302 एम०) ए० ओ० सी०, के० पी० प्रभाकर (एस० एस०-33303 पी०) ई० एम० ई०, जयदीप मुर्जी (एस० एस०-33305 ए०) आर्टिलरी, वी० श्रीराम (एम० एम०-33306 एच०) इन्फैंट्री, कुलदीप सिंह संधू (एस० एम०-33307 एल०) आर्टिलरी, प्रवीन कुमार शर्मा (एस० एम०-33309 डब्ल्यू०) इन्फैंट्री, हरदेव सिंह (एस० एस०-33310 एल०) आर्टिलरी, हरलाल सिंह बरिन्टा (एस० एस०-33312 डब्ल्यू०) ए० एस० सी०, जे० एस० भार-द्राज (एस० एस०-33313 वाई०) ए० ओ० सी०, राजेश कुमार शर्मा (एस० एस०-33314 एफ०) ई० एम० ई०, गुरविन्द

सं० 2159, दिनांक 20 दिसम्बर, 1988—राष्ट्रपति निम्न-लिखित को पांच वर्ष के लिए विशेष सैनिक अनुदेश 11 का

सिंह बाठ (एस० एस०-33315 के०) आर्मेड कोर, संजीव कुमार शर्मा (एस० एस०-33317 पी०) मैक इन्फैन्ट्री, गौरव कन्सलर (एस० एस०-33320 पी०) ए० ओ० सी०, मनीष खन्ना (एस० एस०-33322 ए०) आर्टिलरी, ज्ञान प्रकाश यादव (एस० एस०-33323 एच०) इन्फैन्ट्री, चान्द पाठक (एस० एस०-33324 एल०) आर्टिलरी, सोमदत्त गुरजर (एस० एस०-33325 एन०) इंजीनियर्स, दुबे राकेश कुमार राम चन्द्र (एस० एस०-33326 डब्ल्यू०) इंजीनियर्स, पसुपति प्रताप सिंह (एस० एस०-33327 बाई०) आर्टिलरी, ए० टी० वेवारकर (एस० एस०-33328 एफ०) ए० ओ० सी०, राममणी पाण्डे (एस० एस०-33329 के०) आर्मेड कोर, सुनील शर्मा (एस० एस०-33330 बाई०) आर्टिलरी, रवि मिश्रा (एस० एस०-33331 एफ०) इन्फैन्ट्री, पोद्दारपति नागाराज (एस० एस०-33332 के०) ए० ओ० सी०, परवेज सैयद मोहम्मद (एस० एस०-33333 एम०) आर्टिलरी, जयमोहन सिंह (एस० एस०-33334 पी०) इन्फैन्ट्री, बालकृष्ण पोद्दारियाल (एस० एस०-33335 एफ०) ई० एम० ई० बी० एस० राजमोहन (एस० एस०-33336 ए०) आर्टिलरी, राजीव जयसवाल (एस० एस०-33337 एच०) सिगनल, सरवजीत सिंह (एस० एस०-33338 के०) इन्फैन्ट्री, ओम प्रकाश ग्रहलावत (एस० एस०-33339 एन०) ए० ओ० सी०, नरेश कुमार गम्भीर (एस० एस०-33340 एच०) इन्फैन्ट्री, पियूषचन्द्र (एस० एस०-33341 एल०) आर्टिलरी, मुमिन शर्मा बार्डलोई (एस० एस०-33344 बाई०) आर्टिलरी, के० वैक्कटेश्वर वर्मा (एस० एस०-33350 एम०) ई० एम० ई०, परमवीर सिंह (एस० एस०-33352 एफ०) आर्टिलरी, विक्रान्त सिंह (एस० एस०-33353 ए०) मैक इन्फैन्ट्री, एन० जी० मेहता (एस० एस०-33354 एच०) इन्फैन्ट्री, संजय माथुर (एस० एस०-33355 एल०) ई० एम० ई०, संजीव कुमार सिंह (एस० एस०-33358 बाई०) आर्मेड कोर, विवेक प्रकाश सिंह (एस० एस०-33359 एफ०) आर्टिलरी, एन० मरेंद्र कुमार (एस० एस०-33360 डब्ल्यू०) आर्टिलरी, मारियो अगनेलो (एस० एस०-33362 एफ०) आर्टिलरी, मिश्रा चन्द्र प्रकाश सूरज नारायण (एस० एस०-33363 के०) सिगनल, शर्मा राकेश कुमार ब्रह्मदेव (एस० एस०-33364 एम०) आर्टिलरी, प्रवीन धवन (एस० एस०-33366 एफ०) ए० एस० सी०, जगदीश सिंह रंगी (एस० एस०-33370 ए०) आर्टिलरी, अजय कुमार सिंह (एस० एस०-33371 एच०) इन्फैन्ट्री, कसतम साधु गिनवाला (एस० एस०-33372 एल०) आर्टिलरी, अजीत धाका (एस० एस०-33373 एल०) आर्टिलरी, सर्वदीप सिंह, ग्रेवाल (एस० एस०-33375 बाई०) ए० एस० सी०, शजी कुमार सत्यपालन (एस० एस०-33378 एम०) आर्टिलरी, अनिल सहगल (एस० एस०-33379 पी०) ए० ओ० सी०, खुशरू मेहर जी मिस्त्री (एस० एस०-33384 ए०) आर्टिलरी, सुधीर कुमार मलिक (एस० एस०-33386 एल०) आर्टिलरी, गुरजीत सिंह मुलतानी (एस० एस०-33387 एन०) इन्फैन्ट्री, नवीन शर्मा (एस० एस०-33388 डब्ल्यू०) आर्टिलरी, ग्याम बिहारी सिंह (एस० एस०-33389 बाई०) इन्फैन्ट्री, आनन्द कुमार (एस० एस०-33390 एन०) ए० ओ० सी०, गीतम सुब्बाईया (एस० एस०-33392 बाई०) इन्फैन्ट्री, सेवामयिन एम० एम० (एस० एस०-33393

एफ०) इंजीनियर्स, संजय कुमार ठाकुर (एस० एस०-33394 के०) ए० ओ० सी०, शम्भू भट्टाई (एस० एस०-33396 पी०) इंजीनियर्स, हेमन्त सिंह राजावत (एस० एस०-33397 एफ०) इन्फैन्ट्री, मितित्र सिंह सन्धू (एस० एस०-33399 एच०) ए० ओ० सी०, मुरली बी० जी० (एस० एस०-33401 पी०) इंजीनियर्स, संदीप नेगी (एस० एस०-33403 ए०) आर्टिलरी, अवतार सिंह पवार (एस० एस०-33404 एच०) ई० एम० ई०, इवमेजर करुणाकर्ण (एस० एस०-33405 एल०) ए० ओ० सी०, प्रजास कुमार दास (एस० एस०-33406 एन०) आर्टिलरी, संजीव वर्मा (एस० एस०-33407 डब्ल्यू०) आर्टिलरी, एस० रवि शंकर (एस० एस०-33411 बाई०) सिगनल, कंवर जीत गुलेरिया (एस० एस०-33412 एफ०) आर्टिलरी, धीपक मुरारी (एस० एस०-33413 के०) आर्टिलरी पंकज सक्सेना (एस० एस०-33417 ए०) इन्फैन्ट्री, विक्रम जीत सिंह तलवार (एस० एस०-33418 एच०) ए० ओ० सी०, राजेन्द्र भंज (एस० एस०-33419 एल०) आर्मेड कोर तथा शिखर जोहारी (एस० एस०-33426 एफ०) आर्टिलरी ।

बाई० सी० गुप्ता,  
ले० कनल  
ए० एम० सी०

#### कैंटीन स्टोर विभाग

सं० 2160, दिनांक 7 दिसम्बर, 1988—राष्ट्रपति, समूह “क” के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300 रुपये के बेतनमान में प्रबंधक ग्रेड-1/अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में स्थायी रूप से नियुक्त करते हैं :—

पी० एन०-0076, श्री एम० एल० सरकार—11 नवम्बर, 1985 ।

पी० एन०-0075, श्री के० पी० सिंह—10 नवम्बर, 1985 ।

पी० एन०-0111, श्री पी० सी० आर्य—05 जनवरी, 1984 ।

पी० एन०-0466, श्री आनन्द बोहरा—01 जून, 1985 ।

पी० एम०-0411, श्री एम० सी० कोटिया—01 जून, 1985 ।

पी० एन०-0243, श्री के० एस० बेदी—01 जून, 1985 ।

पी० एन०-0473, श्री एस० यू० उल्लाल—01 जून, 1985 ।

अनिल कुमार, अवर सचिव

सं० 2161, दिनांक 7 दिसम्बर, 1988—निम्नलिखित भूतपूर्व जूनियर कमिशनड अफसरों को पुनः नौकरी पर बहाल



किया जाता है। रैंक और बहाली की तिथि नाम के सामने अंकित है :—

## नियमित सेवा

रक्षा तथा सुरक्षा कार

सूबेदार के रैंक में

सूबेदार देवजुन थापा (जे० सी०-109221 एफ०) पहले सी० एम० पी०, 04 मई, 1987।

सूबेदार विशम्बर सिंह (जे० सी०-66197 एफ०) पहले जैक राईफलज, 16 मई, 1987।

सूबेदार रतन चन्द (जे० सी०-109176 एफ०) पहले जैक राईफलज, 03 सितम्बर, 1987।

सूबेदार उत्तम सिंह (जे० सी०-78032 पी०) पहले, ए० एम० सी० (एम० टी०), 05 सितम्बर, 1987।

सूबेदार रेशम सिंह (जे० सी०-101112 एफ०) पहले पैरा रेजिमेंट, 04 जनवरी, 1988।

नायब सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार जुगलाल सिंह यादवा (जे० सी०-108222 बाई०) पहले आर्टिलरी, 05 जनवरी, 1988।

टी० बी० नायर, डैम्क अधिकारी

सं० 2162, दिनांक 20 दिसम्बर, 1988—परग्व अवधि पूरी होने पर, राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर की नियुक्ति को पक्का करते हैं :—

## प्रादेशिक सेवा

प्रादेशिक कमीशन

2/लेफ्टिनेंट

एम० अरूचामी (टी० ए०-41919) इन्फैन्ट्री, 13 अगस्त 1984।

मनजीत सिंह दटारिया (टी० ए०-41839) इन्फैन्ट्री, 24 अक्टूबर, 1983।

मागरदास गुप्त (टी० ए०-41905) इन्फैन्ट्री, 05 अप्रैल 1984।

2/लेफ्टि० खजान सिंह बालोदा, (टी० ए०-41798) इंजीनियर्स, 16 सितम्बर, 1983।

2/लेफ्टि० मुभाष चन्द्र वर्मा (टी० ए०-41807), इंजीनियर्स, 19 सितम्बर, 1983।

2/लेफ्टि० ब्रह्मा दत्त यादव, (टी० ए०-41790), इंजीनियर्स, 16 सितम्बर, 1983।

2/लेफ्टि० नन्द कुमार दामोदर देशोकुले, (टी० ए०-41809) ए० एम० सी०, 19 सितम्बर, 1983।

सुतिन्द्र भूषण (टी० ए०-41826) इन्फैन्ट्री, 09 सितम्बर 1983।

रमेश चन्द्रा महाराणा (टी० ए०-41836) इन्फैन्ट्री, 15 सितम्बर, 1983।

एच० डी० सिन्हा, अवर सचिव

सं० 2163, दिनांक 29 नवम्बर, 1988—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

## नियमित सेवा

स्थायी कमीशन

मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल के मूल रैंक में (समयमान द्वारा)

ई० जे० जार्ज (आई० सी०-23646 एक्स०) इंजीनियर्स, 15 जून 1988।

ले० कर्नल, एस० बी० अतरी, सहायक सेना सचिव

## रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग

(रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन)

सं० 2164, दिनांक 27 दिसम्बर, 1988—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में स्थायी रूप से उपनियुक्त अधिकारी

ग्रुप कैप्टन से एयर कमीडीर की कार्यकारी पद पर आर० कृष्णामूर्ति (5538) ए० ई० (एम०), 30 मार्च 1987।

एम० सालाहुद्दीन (5827) ए० ई० (एम०), 6 अप्रैल 1987।

टी० सी० दाहरा (5943) ए० ई० (एम०), 09 जून, 1987।

आर० सम्पथ (5402) ए० ई० (एम०), 25 मई, 1988।

बी० बी० अदलखा (5731) एल० डी० एस०, 26 मई 1988।

बी० बी० अम्पाबू (5424) ए० ई० (एम०), 01 जुलाई 1988।

एम० एल० अरोड़ा सहायक निदेशक कार्मिक

सं० 2165, दिनांक 16 दिसम्बर, 1988—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

## रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा

अनुसंधान तथा विकास मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली के डा० इन्द्रजीत मखीजा वैज्ञानिक 'ई' को दिनांक 07 दिसम्बर 1988 (पूर्वाह्न) से इसी मुख्यालय में स्थानापन्न वैज्ञानिक एफ के पद पर।

जितेन्द्र हुने, संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

सं० 2166, दिनांक 30 सितम्बर, 1988-- राष्ट्रपति  
निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

**नियमित सेना**

**स्थायी कमीशन**

मेजर मे लेफ्टिनेंट बर्नल के मूल रैंक में (समयमान द्वारा) --  
राम रंघीर सिंह (आई० सी०-17963 एच०) इंजीनियर  
28 जून, 1986।

ले० बर्नल, एस० बी० अतरी,  
सहायक सेना सचिव

सं० 2167 ता० 16-12-88-- राष्ट्रपति निम्नलिखित  
नर्सिंग अफसरों की पदोन्नति करते हैं :--

**नियमित सेना**

**मिलिट्री नर्सिंग सेवा (स्थायी)**

**कप्तान के रूप में**

कु० टी० एन० रियान्जा (एन० आर०-16523), 4-4-85

कु० ऊषा देवी (एन० आर०-16529), 4-4-85।

कु० मलार्थी राव (एन० आर०-16817), 4-4-85।

कु० कमलेश सिंग (एन० आर०-16818), 4-4-85।

कु० थरेसिया सेलाइन (एन० आर०-16820), 4-4-85

कु० एनिम्मा जोसफ (एन० आर०-16821), 4-4-85।

श्रीमति ई० के० मल्लिका (एन० आर०-16824), 4-4-85।

कु० श्यामली सेन (एन० आर०-16827), 4-4-85।

श्रीमति विक्टोरिया सी० (एन० ए० आर०-16828),  
4-4-85।

श्रीमती लीला टी० जी० (एन० आर०-16830), 4-4-85।

कु० टी० पी० एल्बर्ट (एन० आर०-16831), 4-4-85।

कु० रीज़ली मैथ्यू (एन० आर०-16833), 4-4-85।

कुमारी परमिन्दर कौर (एन० आर०-17081), 4-7-85।

कुमारी एम्मा लक्ष्मी (एन० आर०-17082), 4-7-85।

श्रीमती कुसुम लता (एन० आर०-17084), 4-7-85।

कुमारी सुलेखा पी० एन० (एन० आर०-17087),  
4-7-85।

कुमारी कमकावल्ली (एन० आर०-17088), 4-7-85।

श्रीमती मैरीअम्मा जीजे (एन० आर०-17089),  
4-7-85।

कुमारी मैरी एस० कोनाथ (एन० आर०-17090),  
4-7-85।

श्रीमती जीगी जोजफ (एन० आर०-17072), 4-7-85।

श्रीमती एन० नलनी कुमारी (एन० आर०-17073)  
4-7-85।

श्रीमती सुभाशनी राघवन (एन० आर०-17074),  
4-7-85।

श्रीमती एस एलिजाबेथ कालाडजेवली (एन० आर०-17078),  
4-7-85।

कुमारी सरसवथी अम्मा बी० के० (एन० आर०-17079),  
4-7-85।

कुमारी लीथा ए० (एन० आर०-17080), 4-7-85।

श्रीमती लक्ष्मी जी (एन० आर०-16756), 4-4-85।

कु० उमा (एन० आर०-16757), 4-4-85।

श्रीमती सौभाग्यम्मा (एन० आर०-16758), 4-4-85।

कु० एम० एम० सरम्मा (एन० आर०-16759),  
4-4-85।

कु० पी० रमा देवी (एन० आर०-16761), 4-4-85।

कु० पी० आर० रमानी (एन० आर०-16762),  
4-4-85।

कु० जीली चाको (एन० आर०-16768), 4-4-85।

कु० के० आर० देवकी (एन० आर०-16770), 4-4-85।

कु० फातिमा विल्सन (एन० आर०-16771), 4-4-85।

कु० हरसिन्दर कौर (एन० आर०-16773), 4-4-85।

कु० बलवन्त कौर (एन० आर०-16775), 4-4-85।

श्रीमती वी० एस० बेबी (एन० आर०-16711)--  
04-04-85।

कु० शान्ता सुतार (एन० आर०-16714)--  
04-04-1985।

कु० रेमा देवी बी० एम० (एन० आर०-16715)--  
04-04-1985।

कु० किबिलयम्मा सी० ए० (एन० आर०-16721)--  
04-04-1985।

कु० पी० रेखा (एन० आर०-16723)--04-04-85।

कु० एस० जे० चिरायथ (एन० आर०-16726)--  
04-04-1985।

श्रीमती शार्थी कुमारी ए० जी० (एन० आर०-16727)--  
04-04-1985।

कु० वलसम्मा जेम्स (एन० आर०-16728)--  
04-04-1985।

श्रीमती मल्लिका देवी के० (एन० आर०-16729)--  
04-04-1985।

श्रीमती पुष्पा ललिताम्मा (एन० आर०-16730)---

04-04-1985।

श्रीमती जाधव निरुपमा (एन० आर०-16731)---

04-04-1985।

कु० नरोत्तिमा ए० ठाकुर (एन० आर०-16575)---

04-04-1985।

श्रीमती सरिता कुमारी (एन० आर०-16581)---

04-04-1985।

कु० फिडीलिस नरजरी (एन० आर०-16582)---

04-04-1985।

श्रीमती विमला एम० (एन० आर०-16584)---

04-04-1985।

कु० बीना पंत (एन० आर०-16596)-04-04-85।

कु० मीनाक्षी अरुना महन्त (एन० आर०-16003)---

04-04-1985।

कु० महेश कुमारी (एन० आर०-16789)---04-04-85।

कु० आर० रामनाथ जोशी (एन० आर०-16641)---

04-04-1985।

कु० बी० के० शेन्क्म्मा (एन० आर०-16676)---

04-04-1985।

कु० बी० शारदा (एन० आर०-16644)-04-04-85।

कु० इन्दिरा देवी एम० एन० (एन० आर०-16646)---

04-04-1985।

कुमारी ड० टी० अनम्मा (एन० आर०-16851)---

07-8-1985।

श्रीमती राजपाल जीत कौर (एन० आर०-16852)---

07-8-1985।

श्रीमती मैरीअम्मा ओजफ (एन० आर०-16853)---

07-8-1985।

कु० एफ० खोन्गिर (एन० आर०-16776)---

04-04-1985।

श्रीमती सी० पी० थरेमिया (एन० आर०-16797)---

04-04-1985।

कु० आर० विजयाम्बिगाय (एन० आर०-16806)---

04-04-1985।

श्रीमती राधामनि (एन० आर०-16732)---

04-04-1985।

श्रीमती रत्नेश कुमारी शर्मा (एन० आर०-16733)---

04-04-1985।

कु० अनम्मा जोर्ज (एन० आर०-16736)---

04-04-1985।

कु० एन० मुनीला (एन० आर०-16739)---

04-04-1985।

श्रीमती ए० बी० कजना (एन० आर०-16740)---

04-04-1985।

कु० सीमा कुमारी मिश्र (एन० आर०-16741)---

04-04-1985।

श्रीमती सुमन एम० (एन० आर०-16744)---

04-04-1985।

श्रीमती सी० कोठामनि (एन० आर०-16747)---

04-04-1985।

कु० ए० ऊषा रानी (एन० आर०-16750)---

04-04-1985।

कु० बी० कमाक्षी आर० बी० अँथर (एन० आर०-16751)

04-04-1985।

श्रीमती लीलाम्मा जोर्ज (एन० आर०-16752)---

04-04-1985।

श्रीमती के० जी० अनम्मा (एन० आर०-16753)---

04-04-1985।

राष्ट्रपति महर्षि निम्नलिखित नामों अफसरों की पदोन्नति करते हैं:---

कु० माथी कुमारी (एन० आर०-16688)---

04-04-1985।

कु० सी० एम० पावती (एन० आर०-16691)---

04-04-1985।

कु० जेम्स सी० बी० (एन० आर०-16692)---

04-04-1985।

कु० लारेन्स ले काँस्ट (एन० आर०-16695)---

04-04-1985।

श्रीमती के० एम० लीलाम्मा (एन० आर०-16696)---

04-04-1985।

कु० वाल्मा चोरियन (एन० आर०-16697)---

04-04-1985।

कु० टी० आर० सरदाना (एन० आर०-16699)---

04-04-1985।

कु० जमबीर कौर (एन० आर०-16700)---

04-04-1985।

श्रीमती सुलेखा देवी एम० (एन० आर०-16701)---

04-04-1985।

कु० बी० कमथेस (एन० आर०-16706)-04-04-85।

श्रीमती पी० के० सोसम्मा (एन० आर०-16707)---  
04-04-1985।

कु० ए० एस० राफेल (एन० आर०-16710)---  
04-04-1985।

कु० इन्द्रजीत कौर (एन० आर०-16665)---  
04-04-1985।

कु० शान्ता कुमारी अनम्मा जे० (एन० आर०-16667)---  
04-04-1985।

श्रीमती सी० अनम्मा (एन० आर०-16668)---  
04-04-1985।

श्रीमती रेमा देवी एस० (एन० आर०-16669)---  
04-04-1985।

श्रीमती गोपा दत्ता (एन० आर०-16671)---  
04-04-1985।

श्रीमती आर० एन० एलाइस (एन० आर०-16674)---  
04-04-1985।

श्रीमती सलोमी जार्ज (एन० आर०-16678)---  
04-04-1985।

कु० जलाल अमानी (एन० आर०-16679)---  
04-04-1985।

कु० टी० जी० चन्द्रिका (एन० आर०-16681)---  
04-04-1985।

कु० बेबी गीता टी० (एन० आर०-16682)---04-04-  
1985।

कु० कसावती मीराबाई एम० आर० (एन० आर०-16684)---  
04-04-1985।

कु० हर्षलता (एन० आर०-16686)---04-04-1985।  
श्रीमती लिजी फिलिप (एन० आर०-16648)---  
04-04-1985।

श्रीमती सी० जेथरेसरमा (एन० आर०-16650)---  
04-04-1985।

श्रीमती सुषमा कोल (एन० आर०-16653)---  
04-04-1985।

कु० टी० मैथ्यु (एन० आर०-16654)--- 04-  
04-1985।

श्रीमती रेमा दवी अम्मा (एन० आर०-16655)---  
04-04-1985।

श्रीमती विक्टोरिया डीसूजा (एन० आर०-16657)---  
04-04-1985।

कु० ओम्ना एम० आर० (एन० आर०-16658)---  
04-04-1985।

कु० भीली एम० के० (एन० आर०-16659)---  
04-04-1985।

कु० थेक्कम के० (एन० आर०-16660)---  
04-04-1985।

श्रीमती एल० इब्राहिम (एन० आर०-16662)  
04-04-1985।

कु० अनीता कालरा (एन० आर०-16663)---  
04-04-1985।

कु० पी० जी० सुजा (एन० आर०-16664)---  
04-04-1985।

(कप्तान के रूप में)

श्रीमती गीता ओबराय (एन० आर०-16835)---  
04-04-1985।

कु० अनीता बेला (एन० आर०-16836)--- --  
04-04-1985।

कु० प्रभामनी एम० सी० (एन० आर०-16837)---  
04-04-1985।

कु० ऐनी० वर्गिस (एन० आर०-16838)---04-04-  
1985।

कु० एलिजा बेथ जान (एन० आर०-16840)---  
04-04-1985।

कु० रोहनी नानान (एन० आर०-16841)---  
04-04-1985।

श्रीमती सुमीती विनोदिनी (एन० आर०-16842)---  
04-04-1985।

श्रीमती आनन्द बेली पी० (एन० आर०-16844)---  
04-04-1985।

कु० थेक्कम्मा मैथ्यु (एन० आर०-16848)---  
04-04-1985।

श्रीमती स्वर्णलता के० (एन० आर०-16560)---  
04-04-1985।

श्रीमती उर्मिला देवी (एन० आर०-16564)---  
04-04-1985।

कु० ट्रेम भाटिया (एन० आर०-16567)---  
04-04-1985।

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

(अस्थायी)

अर्ध स्थायी कप्तान के रूप में

कुमारी निर्मल कौर (एन० आर०-16787)---  
04-04-1985।

बी० के० वर्मा, मेजर जनरल,  
अतिरिक्त महानिदेशक

स्थाई कमीशन

कप्तान से मेजर के पद पर

आर० सच्चदेवा (एम० आर०-04563एक)---सैनिक  
डॉक्टरी कौर, 07 दिसम्बर, 1987।

आर० वरदराजूलू (एम० आर०-04561एम०), सैनिक  
डॉक्टरी कौर---07 दिसम्बर, 1987।

आर० अचार्या (एम० आर०-04567एन०), सैनिक डाक्टरी कोर—07 दिसम्बर, 1987 ।

आर० सुरेन्द्रा (एम० आर०-04673एम०), सैनिक डाक्टरी कोर—1 जनवरी, 1988 ।

आर० एन० शुक्ला (एम० आर०-04577एक्स), सैनिक डाक्टरी कोर—07 दिसम्बर, 1987 ।

पू० दास (एम० आर०-05669डब्ल्यू०), ए० एम० सी० 25 दिसम्बर, 1987 ।

बी० के० सिंगल (एम० आर०-05971एक्स०), ए० एम० सी०—6 अगस्त, 1988 ।

आर० एस० बाबा (एम० आर०-05065एक्स०), ए० एम० सी०—12 सितम्बर, 1987 ।

एस० पी० रे० (एम० आर०-05353-के०), ए० एम० सी० 15 अप्रैल, 1986 ।

(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 2 जुलाई 1988 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० दिनांक का सम्बन्ध जहाँ तक उपरोक्त अधिकारी से है खूदा किया जाता है ।

ए० जे० नन्दापुरकार (एम० आर०-04995-एम०), ए० एम० सी०—23 अगस्त, 1988 ।

एस० चतुर्वेदी (एम० आर०-04813-एम०), ए० एम० सी०—29 अगस्त, 1988 ।

डी० विष्ट (एम० आर०-05277-एच०), सैनिक डाक्टरी कोर—06 सितम्बर, 1988 ।

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट से स्क्वार्डन लीडर के पद पर

ए० के० आनन्द (एम० आर०-05085 एल०) (17685) सैनिक डाक्टरी कोर—12 सितम्बर, 1988 ।

कप्तान से मेजर के पद पर

डी० के० श्रीवास्तव (एम० आर०-05477-वाई०), ए० एम० सी०—27 अगस्त, 1988 ।

के० जे० एस० भुलर (एम० आर०-05619-एल०), सैनिक डाक्टरी कोर—30 जून 1988 ।

बी० एस० डियोवा (एम० आर०-05655-डब्ल्यू०), सैनिक डाक्टरी कोर—26 अगस्त, 1988 ।

आई० जे० सिंह (एम० आर०-04985एच०)—सैनिक डाक्टरी कोर—12 जुलाई, 1988 ।

जी० चन्द (एम० आर०-05473-एच०) ए० एम० सी० 16 सितम्बर, 1988 ।

नियमित सेवा

स्थायी कमीशन

कप्तान से मेजर के पद पर

ए० के० कुकरेजा (एम० आर०-05605 एल०), सैनिक डाक्टरी कोर—30 जनवरी, 1988 ।

विजय किशोर तिवारी,

मेजर जनरल

उप महानिदेशक शस्त्र सेना

चिकित्सा सेवा

सं० 2169 दिनांक 5 दिसम्बर, 1988—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

मेजर से लेफ्टिनेन्ट कर्नल (टाइम स्केल) बनाया जाता है ।

आर० के० मलहोत्रा (टी० ए०-41091), इन्फैन्ट्री—22 सितम्बर, 1987 ।

के० के० घोष (टी० ए०-41128) इन्फैन्ट्री—22 सितम्बर, 1987 ।

एस० एस० गुलेरिजा (टी० ए०-41132) इन्फैन्ट्री—22 सितम्बर, 1987 ।

एस० एम० शर्मा (टी० ए०-41133) इन्फैन्ट्री—22 सितम्बर, 1987 ।

जी० पी० शर्मा, (टी० ए०-41318), इन्फैन्ट्री—22 सितम्बर, 1987 ।

के० पी० एस० माहली (टी० ए०-41149), इन्फैन्ट्री—22 सितम्बर, 1987 ।

बी० के० बर्मा (टी० ए०-41159), इन्फैन्ट्री—22 सितम्बर 1987 ।

जी० एस० रानावत (टी० ए०-41161), इन्फैन्ट्री—22 सितम्बर, 1987 ।

सी० देवादास (टी० ए०-41165), इन्फैन्ट्री—22 सितम्बर 1987 ।

एस० एस० बाजवा (टी० ए०-41351) इन्फैन्ट्री—22 सितम्बर, 1987 ।

रघवीरसिंह (टी० ए०-40989), इन्फैन्ट्री—22 सितम्बर, 1987 ।

बी० एस० एस० दत्ता (टी० ए०-41075), इन्फैन्ट्री—22 सितम्बर, 1987 ।

आर० के० तिवारी (टी० ए०-40849), इन्फैन्ट्री—22 सितम्बर, 1987 ।

जी० के० गीसाई (टी० ए०-41169), इन्फैन्ट्री—28 जुलाई, 1987 ।

सं० 2168 दिनांक 24 नवम्बर, 1988—राष्ट्रपति, सङ्घर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

आई० बी० पांडे (टी० ए०-41203), इन्फैन्ट्री—28  
जुलाई, 1987।

एस० एन० एस० गोड़ (टी० ए०-41191), इन्फैन्ट्री—  
28 जुलाई, 1987।

एम० एल० चौपड़ा (टी० ए०-41180), इन्फैन्ट्री—  
28 जुलाई, 1987।

पी० सी० शर्मा (टी० ए०-41179), इन्फैन्ट्री—28  
जुलाई, 1987।

आई० पी० एस० छिन्मा (टी० ए०-41186), इन्फैन्ट्री—  
28 जुलाई, 1987।

स० बी० अत्री ले० कर्नल,  
सेना सचिव

इन्फैन्ट्री

गारुड ब्रिगेड

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार गिरधर सिंह रावत (जे० सी०-72947एल०)—  
01 अगस्त, 1988।

सूबेदार बलवन्त सिंह (जे० सी०-77667एफ०)—01  
अगस्त, 1988।

सूबेदार रमेश चन्द्र पाण्डे (जे० सी०-76817ए०)—  
01 अगस्त, 1988।

सूबेदार मेजर (क्लर्क) के रैंक में

सूबेदार (क्लर्क) मनेश सिंह (जे० सी०-93696ए०)—  
01 अगस्त, 1988।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार अजीत सिंह (जे० सी०-136639सी०)—  
08 अगस्त, 1987।

नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र (जे० सी०-126364आई०)—  
01 मई, 1988।

नायब सूबेदार धमन्डी लाल (जे० सी०-137517के०)—  
16 जुलाई, 1988।

नायब सूबेदार जगधाम सिंह सिकरवार (जे० सी०-130766  
एन०)—22 जुलाई, 1988।

नायब सूबेदार जगदीश प्रसाद (जे० सी०-132914एम०)—  
01 अगस्त, 1988।

नायब सूबेदार कुरंत अब्राहम (जे० सी०-132925एक्स)  
01 अगस्त, 1988।

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क) मुलतान राम (जे० सी०-127549  
एम०)—01 अगस्त, 1988।

नायब सूबेदार (क्लर्क) मन्वन सिंह (जे० सी०-127550  
एफ०)—14 अगस्त, 1988।

नायब सूबेदार (क्लर्क) भीमेश्वर प्रसाद यादव (जे० सी०-  
127552एम०)—01 सितम्बर, 1988।

पैराशूट रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार जुगल किशोर (जे० सी०-85973 एल०)—1  
जुलाई, 1988।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार कालू राम (जे० सी०-136935 ए०)—  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार राम (जे० सी०-136713 एल०)—1  
जुलाई, 1988।

नायब सूबेदार तातबा पवार (जे० सी०-140032 ए)  
—1 अगस्त, 1988।

पंजाब रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार शंभु सिंह (जे० सी०-87679 के)—1 अप्रैल,  
1988।

सूबेदार प्रीथी चन्द (जे० सी०-82309 ए)—1 मई  
1988।

सूबेदार प्याग सिंह (जे० सी०-89046 पी)—1 जून,  
1988।

सूबेदार जमना दाम (जे० सी०-84496 एच)—  
1 जुलाई, 1988।

सूबेदार निष्छतर सिंह (जे० सी०-84501 एच)—  
1 जुलाई, 1988।

सूबेदार भंजन सिंह (जे० सी०-104684 एन)—  
1 अगस्त, 1988।

सूबेदार अमर नाथ (जे० सी०-94230 के)—1  
अगस्त, 1988।

सूबेदार केसर सिंह (जे० सी०-77968 एल)—  
1 अगस्त, 1988।

सूबेदार कृष्ण सिंह (जे० सी०-84503 एन)—  
1 अगस्त, 1988।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार अवतार सिंह (जे० सी०-124578 डब्ल्यू)  
1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार स्वर्ण सिंह (जे० सी०-124567 के)---  
1 सितम्बर, 1987 ।

नायब सूबेदार दर्शन सिंह (जे० सी०-120097 एम)  
---10 नवम्बर, 1987 ।

नायब सूबेदार कमली सिंह (जे० सी०-145003 पी)  
---1 जनवरी, 1988 ।

नायब सूबेदार दिल बाग सिंह (जे० सी०-126412 एन)  
---11 जनवरी, 1988 ।

नायब सूबेदार अलवस्त सिंह (जे० सी०-151619 बाई)  
---1 फरवरी, 1988 ।

नायब सूबेदार योग राज (जे० सी०-127533 एफ)  
---1 अप्रैल, 1988 ।

नायब सूबेदार प्रीतम दास (जे० सी०-117597 एक्स)  
---1 अप्रैल, 1988 ।

नायब सूबेदार धरम सिंह (जे० सी०-136948 एक्स)  
---1 अप्रैल, 1988 ।

नायब सूबेदार दर्शन सिंह (जे० सी०-112973 एक्स)  
---1 मई, 1988 ।

नायब सूबेदार मुन्शी राम (जे० सी०-124564 डब्ल्यू)  
---1 मई, 1988 ।

नायब सूबेदार ग्र्याम सिंह (जे० सी०-155621 एन)  
---1 मई, 1988 ।

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) वृन्ती चन्द (जे० सी०-  
117621 के)---1 जून, 1988 ।

नायब सूबेदार (लिपिक) स्वर्ण सिंह भुलार (जे० सी०-  
117622 एम)---1 जून, 1988 ।

नायब सूबेदार (लिपिक) मुखेश सिंह तूर (जे० सी०-  
117623 पी)---1 अगस्त, 1988 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार पराकान्त कृष्ण चन्द्रसेखरान पिल्ले  
(जे० सी०-128518 बाई)---1 अगस्त, 1988 ।

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क) रामासुब्रह्माणि अयर गणेशन  
(जे० सी०-134305 एफ)---1 सितम्बर, 1988 ।

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मद्रास रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार राज सिंह (जे० सी०-87372 बाई)---1  
सितम्बर, 1988 ।

सूबेदार जी कृष्णन कुट्टी नायर (जे० सी०-87392  
एम)---1 सितम्बर, 1988 ।

सूबेदार मीनकु बाबू (जे० सी०-84523 एफ)---  
1 सितम्बर, 1988 ।

सूबेदार अन्नागिरीसामी वेरुमाल जन्नाकिरामम (जे०  
सी०-86255 एफ)---1 सितम्बर, 1988 ।

सूबेदार पोद्दल प्रभाकरन (जे० सी०-87830 के)---  
1 सितम्बर, 1988 ।

सूबेदार पी० वी० पुरुषोत्तमन (जे० सी०-84073 पी)  
---1 सितम्बर 1988 ।

सूबेदार अन्नामायी तट्टयाप्पन माधवन (जे० सी०-  
97104 एच)---1 अक्तूबर 1988 ।

सूबेदार मेजर (क्लर्क) के रैंक में

सूबेदार (क्लर्क) एम० श्रीधरन नायर (जे० सी०-  
92870 पी)---1 सितम्बर 1988 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार के बालाचन्द्रन (जे० सी०-117180  
बाई)---1 अप्रैल 1987 ।

नायब सूबेदार गोपी अम्बिकन (जे० सी०-117186 ए)  
---1 अप्रैल 1987 ।

नायब सूबेदार कन्या रेडी रंगानाथन (जे० सी०-  
128524 एम)---1 अप्रैल 1987 ।

नायब सूबेदार रतनाकरन एरिकान (जे० सी०-128254  
एच)---1 मई 1987 ।

नायब सूबेदार कल्यासामी (जे० सी०-126452 एक्स)  
---2 नवम्बर 1987 ।

नायर सूबेदार राजन मोटय (जे० सी०-132908 एफ)  
---1 जनवरी 1988 ।

नायब सूबेदार मुस्ताफा (जे० सी०-132908 बाई)  
---1 मार्च 1988

नायब सूबेदार अन्थोनी स्वामी (जे० सी०-132910  
डब्ल्यू)---1 अप्रैल 1988 ।

नायब सूबेदार सामुवत जीर्ज (जे० सी०-129417 एक्स)  
---1 जुलाई 1988 ।

नायब सूबेदार एम० एम० मुत्तुकृष्णन (जे० सी०-  
129418 ए)---1 जुलाई 1988 ।

नायब सूबेदार के० पोन्नाप्पन (जे० सी०-134281 एच)  
---1 सितम्बर 1988

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क) केशवा पिल्ले शेखरन नायर  
(जे० सी०-132513 एक्स)---1 सितम्बर 1988 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) नारायण पिल्ले माधवन पिल्ले  
(जे० सी०-134303 डब्ल्यू)---1 सितम्बर 1988 ।

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

ग्रेनेडियर्स

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मर्सीप्पन (जे० सी०-69955 बाई)---1  
अगस्त, 1988 ।

सूबेदार बजीद खान (जे० सी०-66650 एन)—  
1 अगस्त, 1988 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार मन्ना लाल (जे० सी०-128030 ए)—  
01 जुलाई, 1988 ।

नायब सूबेदार बक्षित सिंह मेहता (जे० सी०-144558 ए)—1 जुलाई, 1988 ।

नायब सूबेदार राम करन (जे० सी०-129440 एल)—  
17 जुलाई, 1988 ।

नायब सूबेदार धर्म सिंह (जे० सी०-100823 पी)—  
1 अगस्त, 1988 ।

नायब सूबेदार श्रीम प्रकाश (जे० सी०-127501 बाई)—  
1 अगस्त, 1988 ।

नायब सूबेदार खुमान सिंह (जे० सी०-127505 पी)—  
1 अगस्त, 1988 ।

नायब सूबेदार तारा सिंह (जे० सी०-126459 बाई)—  
1 अगस्त, 1988 ।

नायब सूबेदार इकबाल खान (जे० सी०-120106 एल)—  
14 अगस्त, 1988 ।

नायब सूबेदार तेज बहादुर (जे० सी०-114191 ए)—  
1 सितम्बर, 1988 ।

नायब सूबेदार भगवान सिंह (जे० सी०-103574 एम)—  
1 सितम्बर, 1988 ।

नायब सूबेदार नामक राम (जे० सी०-128082 के)—  
1 सितम्बर, 1988 ।

नायब सूबेदार भगवाना राम (जे० सी०-151207 एक्स)—  
1 सितम्बर, 1988 ।

नायब सूबेदार बुद्धि सिंह (जे० सी०-148339 ए)—  
1 जून, 1988 ।

नायब सूबेदार जीवन सिंह (जे० सी०-148366 के)—  
1 जुलाई, 1988 ।

नायब सूबेदार उमेश सिंह (जे० सी०-142924 के)—  
11 सितम्बर, 1988 ।

नायब सूबेदार उमेश सिंह पुनियां (जे० सी०-142925 एम)—  
11 सितम्बर, 1988 ।

नायब सूबेदार प्रशोतम सिंह (जे० सी०-144550 एक्स)—  
1 अक्टूबर, 1988 ।

नायब सूबेदार रोशन लाल (जे० सी०-117500 एल)—  
1 अक्टूबर, 1988 ।

नायब सूबेदार सरदार सिंह (जे० सी०-142926 पी)—  
1 अक्टूबर, 1988 ।

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) अर्जुन लाल ढाका (जे० सी०-  
127521 एम)—1 अगस्त, 1988 ।

मराठा लाइट इन्फैन्ट्री

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार रामचन्द्र देशमुख (जे० सी०-82044 एफ)—  
9 जुलाई, 1988 ।

सूबेदार अण्णासाहेब ठगे (जे० सी०-82544 बाई)—  
1 अगस्त, 1988 ।

सूबेदार गुणाजी भोमले (जे० सी०-77032 एल)—  
1 अगस्त, 1988 ।

सूबेदार रामचन्द्र लवाटे (जे० सी०-81195 एन)—  
1 अगस्त, 1988 ।

सूबेदार गजानन जाधव (जे० सी०-83765 एक्स)—  
1 अगस्त, 1988 ।

सूबेदार आकाराम गुजर (जे० सी०-92898 पी)—  
1 अगस्त, 1988 ।

सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार (लिपिक) अनंतराव शेडगे (जे० सी०-91304 एल)—  
1 अगस्त, 1988 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार तानाजी गवस (जे० सी०-127463 एन)—  
9 जुलाई, 1988 ।

नायब सूबेदार धंकर गोसावी (जे० सी०-126560 बाई)—  
1 अगस्त, 1988 ।

नायब सूबेदार आनंदा काणे (जे० सी०-128978 एक्स)—  
1 अगस्त, 1988 ।

नायब सूबेदार गोविंद विष्णु केरकर (जे० सी०-130819 एफ)—  
1 अगस्त, 1988 ।

नायब सूबेदार तुकाराम मास्ती तिविले (जे० सी०-  
142955 के)—1 अगस्त, 1988 ।

नायब सूबेदार चामा नाईक (जे० सी०-117534 डब्ल्यू)—  
1 अगस्त, 1988 ।

नायब सूबेदार हरी डेब्रीड (जे० सी०-126533 पी०)—  
1 अगस्त, 1988 ।

नायब सूबेदार हनुमंत घोरपडे (जे० सी०-135594 एन)—  
1 अगस्त, 1988 ।

नायब सूबेदार बबन भोसले (जे० सी०-126541 एन)—  
1 सितम्बर, 1988 ।

नायब सूबेदार सदाशिव राम गुरव (जे० सी०-126548 एक्स)—  
1 सितम्बर, 1988 ।

सूबेदार लिपिक के रैंक

नायब सूबेदार (लिपिक) गडिगेप्पा हिरेमठ (जे० सी०-  
106127 एन)—1 अगस्त, 1988 ।

नायब सूबेदार (लिपिक) पंरगडा विड्डापपा भीमेय्या  
(जे० सी०-117569 एम)—1 अगस्त, 1988 ।



## नियमित सेवा

## इन्फैन्ट्री

## राजपूताना राइफल्स

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार बलवान सिंह मलिक (जे० सी०-92912 डब्ल्यू)  
—1 जुलाई, 1987 ।

सूबेदार नेमी चन्द (जे० सी०-97440 पी)—1 जून,  
1988 ।

सूबेदार राम सिंह (जे० सी०-102170 एक्स)—  
1 अगस्त, 1988 ।

सूबेदार करन सिंह (जे० सी०-94467 एफ)—1  
अगस्त, 1988 ।

सूबेदार रनदीप सिंह (जे० सी०-100713 ए)—  
1 अगस्त, 1988 ।

सूबेदार ज्ञान चन्द (जे० सी०-79632 के)—1 अगस्त,  
1988 ।

## सूबेदार मेजर (क्लर्क) के रैंक में

सूबेदार (क्लर्क) सांवल राम (जे० सी०-87841 डब्ल्यू)  
—1 अगस्त, 1988 ।

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार यसवन्त सिंह (जे० सी०-137611 एफ)  
—1 अप्रैल, 1988 ।

नायब सूबेदार हरजान सिंह (जे० सी०-126923 एक्स)  
—1 अगस्त, 1988 ।

नायब सूबेदार रनजीत सिंह राठौर, एस० एम० (जे०  
सी०-115764 एल)—12 सितम्बर, 1988 ।

नायब सूबेदार हर पाल सिंह (जे० सी०-130590 एन)  
—1 अक्टूबर, 1988 ।

सूबेदार बलवान सिंह मलिक (जे० सी०-92912 डब्ल्यू)  
—1 जुलाई, 1987 ।

सूबेदार नेमी चन्द (जे० सी०-97440 पी)—1 जून,  
1988 ।

सूबेदार राम सिंह (जे० सी०-102170 एक्स)—  
1 अगस्त, 1988 ।

सूबेदार करन सिंह (जे० सी०-94467 एफ)—1  
अगस्त, 1988 ।

सूबेदार रनदीप सिंह (जे० सी०-100713 ए)—  
1 अगस्त, 1988 ।

3-424GI/88

सूबेदार ज्ञान चन्द (जे० सी०-79632 के)—1 अगस्त,  
1988 ।

## सूबेदार मेजर (क्लर्क) के रैंक में

सूबेदार कलर्क सांवल राम (जे० सी०-87841 डब्ल्यू)  
1 अगस्त, 1988 ।

सूबेदार तारा चन्द (जे० सी०-94845 पी)—1  
अक्टूबर, 1988 ।

सूबेदार अमर पाल (जे० सी०-95617 वाई)—  
1 अक्टूबर, 1988 ।

सूबेदार बेरीसाल सिंह (जे० सी०-99106 एम)—  
1 अक्टूबर, 1988 ।

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार राम नारायण सिंह (जे० सी०-115768  
एफ)—1 अगस्त, 1988 ।

नायब सूबेदार रघुबीर सिंह (जे० सी०-128033 डब्ल्यू)  
—1 अक्टूबर, 1988 ।

नायब सूबेदार चत राज सिंह (जे० सी०-133698  
डब्ल्यू)—26 जुलाई, 1987 ।

नायब सूबेदार सरदार खान (जे० सी०-128963 एक्स)  
—23 अक्टूबर, 1987 ।

नायब सूबेदार हरकेश सिंह (जे० सी०-108606 एम)  
—1 अगस्त, 1988 ।

नायब सूबेदार विजय नारायण सिंह (जे० सी०-127443  
ए)—1 अगस्त, 1988 ।

## जाट रेजिमेन्ट

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार धर्म पाल सांगवान (जे० सी०-85027 एम)  
—1 सितम्बर, 1988 ।

सूबेदार पूरन मल (जे० सी०-100802 वाई)—  
1 अक्टूबर, 1988 ।

सूबेदार मोहनवर सिंह (जे० सी०-87369 वाई)—  
1 अक्टूबर, 1988 ।

सूबेदार ब्रह्म सिंह (जे० सी०-91074 एं)—1  
नवम्बर, 1988 ।

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार चांद राम (जे० सी०-127908 पी)  
—16 जून, 1988 ।

नायब सूबेदार सहज राम (जे० सी०-134348 डब्ल्यू)  
—7 अगस्त, 1988 ।

नायब सूबेदार राम चन्द्र (जे० सी०-135651 के)---  
--24 अगस्त, 1988 ।

नायब सूबेदार पृथ्वी सिंह (जे० सी०-128314 एम)  
--26 अगस्त, 1988 ।

नायब सूबेदार जय नारायण (जे० सी०-135665 के)  
--1 सितम्बर, 1988 ।

नायब सूबेदार कुंवर सिंह नेगी (जे० सी०-135731 एफ)---1 सितम्बर, 1988 ।

नायब सूबेदार जगन्नाथ (जे० सी०-157831 एन)---  
1 अक्टूबर, 1988 ।

नायब सूबेदार चुनी लाल जाट (जे० सी०-129630 एक्स)---1 अक्टूबर, 1988 ।

नायब सूबेदार दान सिंह (जे० सी०-136964 पी)---  
1 अक्टूबर, 1988 ।

नायब सूबेदार मेहर सिंह (जे० सी०-139601 डब्ल्यू)  
--2 अक्टूबर, 1988 ।

नायब सूबेदार कुंवरपाल सिंह (जे० सी०-141832 एल)---1 नवम्बर, 1988 ।

नायब सूबेदार रणबीर सिंह (जे० सी०-135649 एम)  
--1 नवम्बर, 1988 ।

सूबेदार क्लर्क के रैंक में

सूबेदार क्लर्क छिदा सिंह (जे० सी०-127888 एम)  
--1 अक्टूबर, 1988 ।

नायब सूबेदार क्लर्क मंगत राम पनवर (जे० सी०-  
130601 पी)---1 अक्टूबर, 1988 ।

नायब सूबेदार क्लर्क सूरज मल (जे० सी०-132882 पी)---1 नवम्बर, 1988 ।

नायब सूबेदार क्लर्क चन्द्र पाल सिंह (जे० सी०-  
133688 एम)---1 नवम्बर, 1988 ।

सिख रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार शबेग सिंह (जे० सी०-90848 एल)---1  
अक्टूबर, 1988 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार गुरचरण सिंह (जे० सी०-115789 के)  
--31 जलाई, 1987 ।

नायब सूबेदार परीतम सिंह (जे० सी०-115790 एम)  
--1 अक्टूबर, 1987 ।

नायब सूबेदार सन्तोष सिंह (जे० सी०-117729 एफ)  
--1 जनवरी, 1988 ।

नायब सूबेदार रघबीर सिंह (जे० सी०-117716 के)  
--1 फरवरी, 1988 ।

सिख लाइट इन्फैन्ट्री

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार छज्जू सिंह (जे० सी०-75002 एम)---  
1 अक्टूबर, 1988 ।

सूबेदार हरपाल सिंह (जे० सी०-88175 एच)---  
1 अक्टूबर, 1988 ।

[सूबेदार मेजर (क्लर्क) के रैंक में

सूबेदार (क्लर्क) राम आसरा (जे० सी०-80985 डब्ल्यू)---1 अक्टूबर, 1988 ।

सूबेदार मेजर (क्लर्क) के रैंक में

सूबेदार (क्लर्क) करनैल सिंह (जे० सी०-85128 ए)  
--1 नवम्बर, 1988 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार तरसेम सिंह (जे० सी०-125191 ए)  
--31 अक्टूबर, 1987 ।

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जे० सी०-127349 डब्ल्यू)  
--1 दिसम्बर, 1987 ।

नायब सूबेदार निर्मल सिंह (जे० सी०-124692 एन)  
--1 अगस्त, 1988 ।

नायब सूबेदार काका सिंह (जे० सी०-127350 एल)  
--1 अगस्त, 1988 ।

नायब सूबेदार गुलजार सिंह (जे० सी०-125281 एन)  
--1 जून, 1987 ।

नायब सूबेदार किशन सिंह (जे० सी०-125262 डब्ल्यू)---1 दिसम्बर, 1987 ।

नायब सूबेदार धरनजीत सिंह (जे० सी०-125263 बाई)---1 जनवरी, 1988 ।

नायब सूबेदार सवर्ण सिंह (जे० सी०-125265 के)  
--1 मार्च, 1988 ।

नायब सूबेदार कृपाल सिंह (जे० सी०-125266 एम)  
--1 जून, 1988 ।

नायब सूबेदार वशन सिंह (जे० सी०-127339 एम)  
--1 सितम्बर, 1988 ।

नायब सूबेदार इक्बाल सिंह (जे० सी०-121905 एल)  
--1 सितम्बर, 1988 ।

नायब सूबेदार सवर्ण सिंह (जे० सी०-106015 एन)  
--1 सितम्बर, 1988 ।

डोगरा रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार प्रमोद सिंह (जे० सी०-88156 एक्स)---  
1 अगस्त, 1988 ।

सूबेदार विजय कुमार (जे० सी०-99308 एन)---  
1 अगस्त, 1988 ।

सूबेदार चन्द राम (जे० सी०-96495 एम)---1  
अगस्त, 1988 ।

सूबेदार क्लर्क बोध राज शर्मा (जे० सी०-97475 एल)  
--1 अगस्त, 1988 ।

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार ईश्वर सिंह (जे० सी०-115798 बाई०),  
—1 जुलाई, 1988 ।

नायब सूबेदार जनक राज (जे० सी०-114134 बाई०)  
—1 अगस्त, 1988 ।

नायब सूबेदार जगदीश बाबू ठाकुर (जे० सी०-116260 के०)—1 अगस्त 1988 ।

नायब सूबेदार अजमेर सिंह (जे० सी०-114061 एफ०)  
1 अगस्त 1988 ।

नायब सूबेदार दया राम (जे० सी०-130832 एल०)—  
1 अगस्त 1988 ।

नायब सूबेदार धर्म सिंह (जे० सी०-118422 एच०)—  
1 सितम्बर 1988 ।

नायब सूबेदार करतार सिंह (जे० सी०-133665 एल०)—  
1 अक्टूबर 1988 ।

## कुमाऊं रेजिमेंट

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार गणेश गिरी (जे० सी०-118772 एफ०)—  
1 अगस्त 1988 ।

नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह (जे० सी०-114020 एन०)—  
1 अगस्त 1988 ।

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार प्रताप सिंह (जे० सी०-78468 ए०)—1 अक्टूबर  
1988 ।

सूबेदार शेर सिंह (जे० सी०-97486 एफ०)—1 अक्टूबर  
1988 ।

सूबेदार सूरज सिंह (जे० सी०-78867 के०)—1 अक्टूबर  
1988 ।

## आसाम रेजिमेंट

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जे० सी०-99644 ए०)—1 अक्टूबर  
1987 ।

सूबेदार श्रीवत्स राजबंगशी (जे० सी० 91379 ए०)—  
1 फरवरी 1988 ।

सूबेदार लालेंगमाविया लुसाई (जे० सी०-91903 एच०)—  
1 अप्रैल 1988 ।

सूबेदार कविता रोय (जे० सी०-92805 पी०)—1  
अप्रैल 1988 ।

सूबेदार कालिकाता लुसाई (जे० सी०-91907 बाई०)—  
1 अगस्त 1988 ।

सूबेदार नरेन्द्र नाथ दास (जे० सी०-93973 ए०)—  
1 अगस्त 1988 ।

सूबेदार रोमाल सिंह (जे० सी०-82818 एल०)—1  
अगस्त 1988 ।

## सूबेदार मेजर लिपिक के रैंक में

सूबेदार लिपिक गोपी नाथ बीरगोहाइन (जे० सी०-102101 ए०)—1 अगस्त 1988 ।

सूबेदार लिपिक काशी काम्त चौधरी (जे० सी०-103294 बाई०)—1 अगस्त 1988 ।

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार फूल सिंह कंवर (जे० सी०-85610 एफ०)—  
1 दिसम्बर 1987 ।

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार रण बहादुर राय (जे० सी०-110929 पी०)  
13 नवम्बर 1987 ।

नायब सूबेदार लूनखोमीन कूकी (जे० सी०-109441 एम०)  
—1 जुलाई 1988 ।

नायब सूबेदार लखी नारायण शर्मा (जे० सी०-135787 एन०)—1 अगस्त 1988 ।

## महार रेजिमेंट

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार श्री राम (जे० सी०-78362 एन०)—1 अप्रैल,  
1988 ।

सूबेदार भजन सिंह (जे० सी०-94780 एम०)—1  
मई, 1988 ।

सूबेदार चन्द्राभान काम्बले (जे० सी०-83946 एच०)—  
1 मई, 1988 ।

सूबेदार मुहम्मद हसीबुल हसन (जे० सी०-63828 एम०)—1 जुलाई, 1988 ।

सूबेदार एकनाथ सपकाल (जे० सी०-83128 एफ०)  
—1 जुलाई, 1988 ।

सूबेदार जहर सिंह (जे० सी०-77672 एच०)—  
1 जुलाई, 1988 ।

सूबेदार मुकुन्द काम्बले (जे० सी०-65747 एम०)—  
1 जुलाई, 1988 ।

सूबेदार रंजीत सिंह (जे० सी०-85270 के०)—1  
जुलाई, 1988 ।

सूबेदार रेणम सिंह सन्धु (जे० सी०-85277 एन०)—  
1 जुलाई, 1988 ।

सूबेदार राज पाल (जे० सी०-83118 के०)—1 अगस्त,  
1988 ।

सूबेदार तरलोक सिंह (जे० सी०-86041 एल०)—  
1 अगस्त, 1988 ।

सूबेदार राम चन्द्र (जे० सी०-82099 एल०)—1 अगस्त,  
1988 ।

सूबेदार भोला सिंह (जे० सी०-80992 एम०)—  
1 अगस्त, 1988 ।

सूबेदार प्रेमसिंह (जे० सी०-94781 पी)--1 अगस्त, 1988।

सूबेदार राम सिंह (जे० सी०-96781 एन)--1 अगस्त, 1988।

सूबेदार सुरजा नारायण ग्राचार्य (जे० सी०-83120 पी)--1 सितम्बर, 1988।

सूबेदार महेन्द्र लाल (जे० सी०-83126 डब्ल्यू)--1 सितम्बर 1988।

सूबेदार रतन चन्द (जे० सी०-79420 वाई)--1 सितम्बर, 1988।

#### सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सरजोराव उमाप (जे० सी०-130705 डब्ल्यू) 1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार प्रकाश चन्द (जे० सी०-117652 के०)--1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार प्रभाकर दाना लायडे (जे० सी०-127394 एच)--1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार इन्द्राज सिंह (जे० सी०-113978 एच)--1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार तुकाराम पंथीर (जे० सी०-113985 वाई) 25 मई, 1988।

नायब सूबेदार रघुनाथ राजगुरु (जे० सी०-132117 एफ) 25 मई, 1988।

नायब सूबेदार वरयाम सिंह (जे० सी० 117631 एन)--25 मई, 1988।

नायब सूबेदार नारायण सिंह (जे० सी०-123020 पी)--25 मई, 1988।

नायब सूबेदार जोहली राम (जे० सी०-123021 एक्स)--25 मई, 1988।

नायब सूबेदार सत्यबीर सिंह (जे० सी०-123023 एच)--1 जुलाई, 1988।

नायब सूबेदार हवा सिंह (जे० सी०-123024 एल)--1 जुलाई, 1988।

नायब सूबेदार भानुवास धाडगे (जे० सी०-128443 एम) 1 जुलाई, 1988।

नायब सूबेदार बिजे सिंह (जे० सी०-133815 ए)--1 जुलाई, 1988।

नायब सूबेदार परबोत्तम सिंह (जे० सी०-113977 ए)--1 जुलाई, 1988।

नायब सूबेदार श्याम सिंह (जे० सी०-126484 एक्स)--1 जुलाई, 1988।

नायब सूबेदार खुशी राम (जे० सी०-129564 ए)--1 अगस्त, 1988।

नायब सूबेदार हरबंस सिंह (जे० सी०-114085 एफ)--1 अगस्त, 1988।

नायब सूबेदार भीम सिंह (जे० सी०-123368 के)--1 अगस्त, 1988।

नायब सूबेदार उमराव सिंह यादव (जे० सी-123369 एम)--1 अगस्त, 1988।

नायब सूबेदार प्रकाश रंगारी (जे० सी० 109451 डब्ल्यू)--1 अगस्त, 1988।

नायब सूबेदार सकपाल शंकर गणपति (जे० सी०-14082 एन)--1 अगस्त, 1988।

नायब सूबेदार जयदेव गणपत लोखंडे (जे० सी०-126492 डब्ल्यू)--1 सितम्बर, 1988।

नायब सूबेदार बालकृष्ण काम्बले (जे० सी०-126494 एफ)--1 सितम्बर, 1988।

नायब सूबेदार रतन सिंह (जे० सी०-114086 के)--1 सितम्बर, 1988।

नायब सूबेदार रावण कालवाले (जे० सी०-122142 एम) 1 सितम्बर, 1988।

नायब सूबेदार अश्वनी कुमार भुयां (जे० सी०-132391 वाई)--1 सितम्बर 1988

#### जम्मू और कश्मीर लार्डेट इन्फैंट्री

##### सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मोहम्मद आजम (जे० सी०-92017 एल०), 1 जून, 88।

सूबेदार रसूल मानाई (जे० सी०-91954 एल०), 1 जून, 1988।

सूबेदार गुलाब नबी (जे० सी०-91943 के), 1 जुलाई, 1988।

सूबेदार रसाल सिंह (जे० सी०-91981 ए), 31 अगस्त, 1988।

सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जे० सी०-445 एन), 1 सितम्बर, 1988।

सूबेदार कुलदीप सिंह (जे० सी०-91959 पी), 1 सितम्बर, 1988।

#### 3 जी० ग्रा०

##### सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार पुरना मगर (जे० सी०-114075 एक्स), 01 सितम्बर, 1987।

नायब सूबेदार दुर्गा बहादुर धरती (जे० सी०-114076 ए) 01 दिसम्बर, 1987।

नायब सूबेदार चित्ता बहादुर राना (जे० सी०-121520 एन), 01 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार बीर बहादुर गुदंग (जे० सी०-126689 एम०), 01 जून, 1988।

9 जी० आर०

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार नर बहादुर थापा (जे० सी०-72397 एल),  
01 मई, 1988 ।

नायब सूबेदार येम बहादुर क्षेत्री (जे० सी०-126670  
एन), 01 दिसम्बर, 1987 ।

नायब सूबेदार विष्णु बहादुर खत्री (जे० सी०-126662  
पी), 01 दिसम्बर, 1987 ।

नायब सूबेदार सिरि बहादुर क्षेत्री (जे० सी०-126671  
एच), 01 दिसम्बर, 1987 ।

नायब सूबेदार किसन बहादुर क्षेत्री (जे० सी०-126674  
के), 01 दिसम्बर, 1987 ।

नायब सूबेदार भगवान सिंह बिस्ट (जे० सी०-135852  
एन), 01 दिसम्बर, 1987 ।

नायब सूबेदार गणेश बहादुर मल्ल (जे० सी०-120332  
ए), 01 दिसम्बर, 1987 ।

नायब सूबेदार दिल बहादुर ठाकुर (जे० सी०-117222  
ए), 01 जनवरी, 1988 ।

नायब सूबेदार भूपाल सिंह क्षेत्री (जे० सी०-125137  
एम); 01 जनवरी, 1988 ।

नायब सूबेदार भरत विक्रम साही (जे० सी०-135962  
एकम), 01 फरवरी, 1988 ।

नायब सूबेदार मदन बहादुर क्षेत्री (जे० सी०-133647  
एच), 01 मई, 1988 ।

नायब सूबेदार गजिन्द्र सिंह क्षेत्री (जे० सी०-126669  
वाई), 01 मई, 1988 ।

4 जी० आर०

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार कृष्णा बहादुर थापा (जे० सी०-92850 पी),  
01 अगस्त, 1988 ।

सूबेदार वेदी प्रसाद रंग (जे० सी०-95326 वाई)  
01 अगस्त, 1988 ।

सूबेदार कृष्णा बहादुर तमांग (जे० सी०-81292 एल),  
01 अक्टूबर, 1988 ।

सूबेदार चन्द्रा बहादुर थापा (जे० सी०-89503 पी),  
01 अक्टूबर, 1988 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार ईश्वर देव राना (जे० सी०-109154  
एच), 01 अप्रैल, 1988 ।

नायब सूबेदार सूचित्रा बहादुर थापा (जे० सी०-109155  
एल), 01 जुलाई, 1988 ।

नायब सूबेदार पारजंग गुरुंग (जे० सी०-125155 पी)  
01 अगस्त, 1988 ।

8 जी० आर०

सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार (लिपिक) गोपाल वल्ल सती (जे० सी०-89819  
के), 01 जुलाई, 1988 ।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मिन बहादुर आले (जे० सी०-93769 एफ)  
01 अगस्त, 1988 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार नन्दा बहादुर थापा (जे० सी०-125218  
एम), 01 मार्च, 1988 ।

नायब सूबेदार प्रेम बहादुर पुन (जे० सी०-125212  
वाई), 01 अगस्त, 1988 ।

5 जी० आर० (एफ० एफ०)

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) प्रताप सिंह सीटियाल (जे० सी०-  
129229 पी), 01 सितम्बर, 1988 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार गुमान सिंह थापा (जे० सी०-156971  
एम), 01 सितम्बर, 1988 ।

नायब सूबेदार तेजमान गुरुंग (जे० सी०-138600 एफ)  
01 सितम्बर, 1988 ।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार कुल बहादुर मल्ल (जे० सी०-95332 एम)  
01 अगस्त, 1988 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार शेर बहादुर गुरुंग (जे० सी०-134270  
डब्ल्यू), 01 अगस्त, 1988 ।

नायब सूबेदार जूम बहादुर गुरुंग (जे० सी०-125227  
एन), 01 अगस्त, 1988 ।

नायब सूबेदार छत्र बहादुर गुरुंग (जे० सी०-125230  
एन), 01 अगस्त, 1988 ।

8 जी० आर०

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) सिया राम (जे० सी०-108337  
एम), 01 जुलाई, 1988 ।

5 जी० आर० (एफ० एफ०)

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार दीक्षा राम थापा (जे० सी०-94370 डब्ल्यू),  
01 सितम्बर, 1988 ।

सूबेदार हीत काजी गुरुंग (जे० सी०-106804 ए),  
01 सितम्बर, 1988 ।

सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार (लिपिक) शिव बहादुर ठाकुरी (जे० सी०-87550  
डब्ल्यू), 01 सितम्बर, 1988 ।

## 11 जी० आर०

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार गंगा सिंह राणा (जे० सी०-123042 एम), 1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार जेम सिंह लिम्बू (जे० सी०-125196 वाई०), 1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार दल बहादुर लिम्बू, एस० सी० (जे० सी०-125200 डब्ल्यू), 1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार गोविन्द मुखिया (जे० सी०-125386 एल), 1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार दुर्गा प्रसाद सुनवर (जे० सी०-128453 डब्ल्यू), 1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार विशान सिंह खत्री (जे० सी०-128454 वाई०) 1 अप्रैल, 1988।

नायब सूबेदार बीम बहादुर लिम्बू (जे० सी०-129553 एन) 01 अप्रैल 1968।

नायब सूबेदार काजीमन रा (जे० सी०-130853 एफ) 01 अप्रैल 1988।

नायब सूबेदार लोकरनाथ राई (जे० सी०-130854 के) 01 अप्रैल 1988।

नायब सूबेदार तारा बहादुर भूजेल (जे० सी०-135994 ए) 01 अप्रैल 1988।

नायब सूबेदार मिना नारायण लिम्बू (जे० सी०-135998 डब्ल्यू) 01 अप्रैल 1988।

नायब सूबेदार दमन सिंह खरकी (जे० सी०-136928 एक्स) 01 अप्रैल 1988।

## थल सेना विभाग

सं० 2170, दिनांक 28 दिसम्बर, 1988:—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

## नियमित सेना

## इन्फैन्ट्री

## लहाब स्काउट्स

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार पद्मा श्याम (जे० सी०-75294 ए), 1 अगस्त, 1988।

## सूबेदार मेजर लिपिक के रैंक में

सूबेदार (लिपिक) फतेह सिंह ग्रहलुवालिया (जे० सी० 132788 एल), 1 सितम्बर, 1988।

## सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार ज्ञान चन्द धिमन (जे० सी०-129507 वाई), 1 सितम्बर, 1988।

माहिनी यशानी, प्रवर सचिव

सं० 2171 दिनांक 12 दिसम्बर 1988—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

## नियमित सेना

## रिमाउन्ट वेटेरिनरी कोर

## रिसालदार मेजर के रैंक में

रिसालदार (बी० ओ०) बस्ताबरासिंह (आर० बी०-7352 ए), 1 नवम्बर, 1988।

## रिसालदार के रैंक में

नायब रिसालदार (क्लर्क) घेहली जगदीश (आर० बी०-7420 एच), 1 नवम्बर, 1988।

नायब रिसालदार (क्लर्क) रामसुन्दर सिंह (आर० बी०-7426 के), 1 नवम्बर, 1988।

नायब रिसालदार (ड्रेसर) गोविन्द सिंह (आर० बी०-7457 के), 1 दिसम्बर, 1988।

नायब रिसालदार (ड्रेसर) समुग्रसिंह (आर० बी०-7458 एम), 1 दिसम्बर, 1988।

प्रमिल कुमार, प्रवर सचिव

## कोर ग्राफ सिग्नल्स

## नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) के रैंक में

हवलदार किशोरी मोहन सिंह (नं० 14205385 एम ग्रब जे० सी०-177608 के), 1 मार्च, 1988।

हवलदार हरी लाल सिंह यादव (नं० 14278507 एन ग्रब जे० सी०-177609 एम), 21 अप्रैल, 1988।

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 88 से दी जायेगी)।

हवलदार सुख देव कोरे (नं० 14278699 डब्ल्यू ग्रब 177610 एन), 01 मार्च, 1988।

हवलदार लल्लन तिवारी (नं० 14278710 के ग्रब जे० सी० 177611 के), 11 अप्रैल, 1988।

XX (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 88 से दी जायेगी)।

हवलदार संभू राम (नं० 14278760-पी ग्रब जे० सी०-177612-एम), 06 अप्रैल 1988।

XXX (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 88 से दी जायेगी)।

हवलदार नरोत्तम सिंह (नं० 14278765 एन ग्रब जे० सी०-177613 पी), 19 अप्रैल, 1988।

X (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 88 से दी जायेगी)।

हवलदार जयफूल सिंह (नं० 14278943 एल ग्रब जे० सी०-177614 एक्स), 21 मार्च, 1988।

XX (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 88 से दी जायेगी)।

हवलदार एम० आर० आर० राजू (नं० 14278948 के अग्र जे० सी०-177615 ए०), 1 मार्च, 1988।

हवलदार भावन सी० डी० (नं० 14279014 वार्ड अग्र जे० सी०-177616 ए०), 8 अप्रैल, 1988= (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 88 से दी जायेगी)

हवलदार बकील पाण्डे (नं० 14279001 एफ अग्र जे० सी०-177617 ए०), 8 अप्रैल, 1988==

== (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 88 से दी जायेगी)

हवलदार ओमन के० टी० (नं० 14278531 के अग्र जे० सी०-177618 ए०), 29 मई, 1988।@

@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई, 88 से दी जायेगी)

हवलदार एम० सीतापल्ली (नं० 14278613-एम० अग्र जे० सी०-177619 डब्ल्यू), 14 जून, 1988।@@

@@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई, 88 से दी जायेगी)

हवलदार कैल सिंह (नं० 14279075 डब्ल्यू० अग्र जे० सी०-177620 ए०), 6 जून, 1988।@@@

@@@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई, 88 से दी जायेगी)

हवलदार दूंगा राम (नं० 14279078 के अग्र जे० सी०-177621 ए०), 21 मई, 1988।%

% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई, 88 से दी जायेगी)

हवलदार राजे कुमार (नं० 14279134 एक्स० अग्र जे० सी० 177622 डब्ल्यू), 1 मई, 1988।

हवलदार जगदीश प्रसाद (नं० 14279149 ए० अग्र जे० सी०-177623 वार्ड), 6 जून, 1988।%%

%% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई, 88 से दी जायेगी)

हवलदार सतीश कुमार (नं० 14279217 ए० अग्र जे० सी०-177624 ए०), 1 मई, 1988।

हवलदार वेंगमुख एस० डी० (नं० 8019334 ए० अग्र जे० सी०-177625 के), 13 मई, 1988।%%%

%%% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई, 88 से दी जायेगी)

हवलदार एस० कुमार सैन (नं० 14279130 ए० अग्र जे० सी०-177626 ए०), 1 मई, 1988।

हवलदार मणिकयत सिंह (नं० 14205637 ए० अग्र जे० सी०-177627 पी), 1 मई, 1988।

हवलदार एम० विश्वभरम (नं० 14205009 वार्ड अग्र जे० सी०-177628 ए०), 9 जून, 1988।

XXX (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई, 88 से दी जायेगी)।

### (स्थल सेना विभाग)

सं० 2172, दिनांक 10 दिसम्बर, 1988-राष्ट्रपति निम्न-लिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :—

#### नियमित सेना

#### कोर आफ सिग्नल्स

नायब सूबेदार (ओ० पी० स्पेशल) के रैंक में

हवलदार के० सुब्बरासन (सं० 6326848 ए० अग्र जे० सी०-177629 ए०), 1 फरवरी, 1988।X

X (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर, 87 से दी जायेगी)।

हवलदार रूप चन्द भारद्वाज (सं० 6311560 डब्ल्यू० अग्र जे० सी० 177630 पी), 17 जनवरी, 1988।XX

XX (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर 87 से दी जायेगी)।

हवलदार सूरज धान (सं० 6310317 ए० अग्र जे० सी० 177631 ए०), 11 मार्च, 1988।XXX

XXX (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर, 87 से दी जायेगी)।

हवलदार नेखा धीर गोगोई (सं० 14202372 के अग्र जे० सी०-177632 ए०), 12 जनवरी, 1988।XXXX

XXXX (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर, 87 से दी जायेगी)।

हवलदार वारा सिंह (सं० 6311551 पी अग्र जे० सी० 177633 ए०), 21 जनवरी, 1988।X

X (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर 87 से दी जायेगी)।

हवलदार चंवर शेखर (सं० 9313852 ए० अग्र जे० सी० 177934 ए०), 25 जनवरी, 1988।XX

XX (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर, 87 से दी जायेगी)।

हवलदार के० पी० सिन्हा (सं० 9324577 पी अग्र जे० सी०-1775935 ए०), 25 फरवरी, 1988।XXX

XXX (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर, 87 से दी जायेगी)।

हवलदार हरी नारायण सिंह (सं० 14277222 पी अग्र जे० सी०-177636 डब्ल्यू), 23 जनवरी, 1988।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर, 87 से दी जायेगी)।

हवलदार पी० एम० राव पीकले (सं० 6303785 के अग्र जे० सी०-177637 वार्ड), 19 जनवरी, 1988।=====

== (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर, 87 से दी जायेगी)।

हवलदार भोपाल सिंह शर्मा (सं० 6316607 ए० अग्र जे० सी० 177938 ए०), 27 फरवरी, 1988।=====

== (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर, 87 से दी जायेगी)।

हवलदार भोपाल सिंह (सं० 6325294 एन० अक्ष जे० सी० 177639 एफ०), 4 अप्रैल, 1988।

“(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 88 से दी जायेगी)।

हवलदार देश राज (सं० 6327112 एन० अक्ष जे० सी० 177640 आई०), 6 मार्च, 1988।

हवलदार देवन के० आर० (सं० 14200582 एल० अक्ष जे० सी० 177641 एफ०), 29 मार्च, 1988।

“(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 88 से दी जायेगी)।

हवलदार तिलक चंद (सं० 6323329 ए० अक्ष जे० सी० 177642 के०), 1 मार्च, 1988।

हवलदार बन्ता सिंह (सं० 6326667 एच० अक्ष जे० सी० 177643 एम०), 4 अप्रैल, 1988।

“(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 88 से दी जायेगी)।

हवलदार एन० एन० पाण्डे (सं० 6325403 पी० अक्ष जे० सी० 177644 पी०), 4 अप्रैल, 1988।

“(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 88 से दी जायेगी)।

हवलदार बी० के० प्रधान (सं० 14202503 के० अक्ष जे० सी० 177645 एफ०), 4 अप्रैल, 1988।

“(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 88 से दी जायेगी)।

हवलदार प्रकाश शंख (सं० 6308319 आई० अक्ष जे० सी० 177646 ए०), 2 मई, 1988।

X(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 88 से दी जायेगी)।

हवलदार सुरेश चंद्रा (सं० 6310878 एफ० अक्ष जे० सी० 177647 एच०), 19 अप्रैल, 1988।

XX(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 88 से दी जायेगी)।

हवलदार रोशन सिंह (सं० 6312646 एफ० अक्ष जे० सी० 177648 एल०), 27 मार्च, 1988।

XXX(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 88 से दी जायेगी)।

हवलदार नारायणन के० (सं० 6316688 एल० अक्ष जे० सी० 177649 एन०), 5 अप्रैल, 1988।

XXXX(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 88 से दी जायेगी)।

हवलदार गोपाल सिंह (सं० 14202504 एम० अक्ष जे० सी० 177650 एच०), 5 अप्रैल, 1988।

XXXXX(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 88 से दी जायेगी)।

हवलदार राम प्रकाश (सं० 6310977 के० अक्ष जे० सी० 177651 एल०), 18 अप्रैल, 1988।

=(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 88 से दी जायेगी)।

हवलदार गणेश प्रसाद (सं० 6326410 एफ० अक्ष जे० सी० 177652 एन०), 2 अप्रैल, 1988।

=(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 88 से दी जायेगी)।

हवलदार अमर सिंह (सं० 6313552 डब्ल्यू० अक्ष जे० सी० 177653 डब्ल्यू०), 2 अप्रैल, 1988।

=(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 88 से दी जायेगी)।

हवलदार बरतमान राय (सं० 6301525 ए० अक्ष जे० सी० 177654 आई०), 1 मार्च, 1988।

हवलदार पुष्कर सिंह खाती (सं० 6314810 एफ० अक्ष जे० सी० 177655 एफ०), 11 अप्रैल, 1988।

=(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 88 से दी जायेगी)।

हवलदार बलजीत सिंह (सं० 6315537 ए० अक्ष जे० सी० 177656 के०), 6 मई, 1988।

=(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 88 से दी जायेगी)।

हवलदार नन्द कुमार सिंह (सं० 6317975 एफ० अक्ष जे० सी० 177657 एम०), 12 मई, 1988।

“(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 88 से दी जायेगी)।

हवलदार बाबू लाल नापित (सं० 14203714 आई० अक्ष जे० सी० 177658 पी०), 4 अप्रैल, 1988।

“(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 88 से दी जायेगी)।

हवलदार अमरीक सिंह हीर (सं० 6326086 एल० अक्ष जे० सी० 177659 एफ०), 1 मार्च, 1988।

हवलदार राम कुमार शर्मा (सं० 6316571 एम० अक्ष जे० सी० 177660 एम०), 5 अप्रैल, 1988।

“(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 88 से दी जायेगी)।

हवलदार केशर सिंह (सं० 14200942 डब्ल्यू० अक्ष जे० सी० 177661 पी०), 29 मार्च, 1988।

“(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 88 से दी जायेगी)।

हवलदार जी० एन० सिंह (सं० 14201619 एम० अक्ष जे० सी० 177662 एफ०), 14 मई, 1988।

“(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 88 से दी जायेगी)।



हवलदार मुन्शी राम (सं० 14203387 बार्ड० अथ जे० सी० 177663 ए०), 2 अप्रैल, 1988 IX

X(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 88 से दी जायेगी)।

हवलदार जेय सिंह (सं० 6310586 बार्ड० अथ जे० सी० 177664 ए०), 6 जून, 1988 IXX

XX(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 अप्रैल 88 से दी जायेगी)।

हवलदार जगमाल सिंह (सं० 6315736 ए० अथ जे० सी० 177665 ए०), 6 जून, 1988 IXXX

XXX(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 88 से दी जायेगी)।

हवलदार रत्न सिंह (सं० 6316415 ए० अथ जे० सी० 177666 ए०), 31 मई, 1988 IXXXX

XXXX(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 88 से दी जायेगी)।

हवलदार सुरजित सिंह (सं० 14277247 ए० अथ जे० सी० 177667 डब्ल्यू०), 14 जून, 1988 IXXXXX

XXXXX(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 88 से दी जायेगी)।

हवलदार सुरेश प्रसाद सिंह (सं० 14205887 पी० अथ जे० सी० 177668 बार्ड०), 16 जून, 1988 I=

=(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार संत राम (सं० 6313851 पी० अथ जे० सी० 177669 ए०), 3 जून, 1988 I==

==(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 1988 से दी जायेगी)।

टी० बी० नायर डेस्क अधिकारी

(सैनिक शाखा)

सं० 2173, दिनांक 5 नवम्बर, 1988—राष्ट्रपति, सहर्ष सेना अनुदेश 226/68, संशोधित सेना अनुदेश 94/71 के आर्क्षित निम्नलिखित पदोन्नति उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं :—

नियमित सेना

अल्पकालीन सेवा आयोग

लेफ्टिनेंट से कप्तान के रैंक में

एस० एस० जामवाल (वी० एस०-838), आर० बी० सी०—8-9-1988।

बी० बी० रामचन्द्र (बी० एस०-839), आर० बी० सी०—8-9-1988।

अनिल कुमार  
अवर सचिव

(भल सेना विभाग)

सं० 2174, तारीख 28 दिसम्बर, 1988—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

कोर आफ मिलिटरी पुलिस

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सुरज भात (जे० सी०-109289 के)---1 जुलाई, 1988।

सूबेदार प्रमोद बिहारी मोहंती (जे० सी०-109290 बार्ड०)---1 जुलाई, 1988।

सूबेदार सुख लाल (जे० सी०-109293 ए०)---1 जुलाई, 1988।

सूबेदार राजेश्वर प्रसाद सिंह (जे० सी०-109296 ए०)---1 जुलाई, 1988।

सूबेदार जय सिंह (जे० सी०-109297 ए०)---1 अगस्त, 1988।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार धरम पाल (जे० सी०-133744 ए०)---1 जून, 1988।

नायब सूबेदार काम्मी राम (जे० सी०-133745 ए०)---1 जून, 1988।

नायब सूबेदार सत्य नारायण रावत (जे० सी०-133746 ए०)---1 जुलाई, 1988।

नायब सूबेदार गुरदेव सिंह (जे० सी०-132291 ए०)---1 जुलाई, 1988।

नायब सूबेदार दीप चन्ध रमोला (जे० सी०-135180 ए०)---1 जुलाई, 1988।

नायब सूबेदार अजीत सिंह (जे० सी०-132292 डब्ल्यू०)---1 जुलाई, 1988।

नायब सूबेदार बहादुर सिंह (जे० सी०-133748 डब्ल्यू०)---1 जुलाई, 1988।

नायब सूबेदार जानीर सिंह (जे० सी०-133749 बार्ड०)---1 जुलाई, 1988।

नायब सूबेदार सत्येन्द्र भूषण चक्रवर्ती (जे० सी०-133750 ए०)---1 जुलाई, 1988।

नायब सूबेदार समे सिंह (जे० सी०-133751 डब्ल्यू०)---1 जुलाई, 1988।

नायब सूबेदार राम कुमार सिंह (जे० सी०-132032 ए०)---1 जुलाई, 1988।

नायब सूबेदार ज्ञान चन्द (जे० सी०-135181 के)---1 जुलाई, 1988।

नायब सूबेदार रण सिंह (जे० सी०-133752 बार्ड०)---1 अगस्त, 1988।

नायब सूबेदार गुरवयाल (जे० सी०-135182 एम)---  
1 अगस्त, 1988 ।

माहिनी थडानी  
अवर मन्त्रि

थल सेना विभाग

सं० 2175, दिनांक 28 दिसम्बर, 1988---राष्ट्रपति,  
निम्नलिखित पदोन्नतियां करके प्रमत्तचित् होते हैं :---

नियमित सेना

विद्युत और यान्त्रिक इंजीनियर कोर

नाम एवं पदोन्नति की तारीख

हवलदार से नायब सूबेदार कलकं (जी डी) के रैंक में  
शिव मूर्ति पान्डेय (सं० 7088771 डब्ल्यू अरब जे० सी०-  
176870 ए)---3 फरवरी, 1988 ।%

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1988 से दी जायेगी)

राम सागर सिंह (सं० 7089340 डब्ल्यू अरब जे० सी०-  
176871 एच)---9 फरवरी, 1988 ।%%

%%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों  
पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1988  
से दी जायेगी) ।

ईन्दर सिंह (सं० 7089336 एन अरब जे० सी०-  
176872 एल)---1 फरवरी, 1988 ।

सुरजीत सिंह (सं० 7089648 के अरब जे० सी०-  
176873 एन)---1 फरवरी, 1988 ।

दौलत राम (सं० 7089701 के अरब जे० सी०-  
176874 एन)---1 फरवरी, 1988 ।

नदि विजया कुमार पत्रो (सं० 7089364 ए अरब  
जे० सी०-176875 वाई)---1 अप्रैल, 1988 ।

अश्विनी कुमार शर्मा (सं० 7089637 एक्स अरब  
जे० सी०-176876 एफ)---1 अप्रैल, 1988 ।

पी० नारायण नायर (सं० 7089639 डब्ल्यू अरब  
जे० सी०-176877 के)---1 अप्रैल, 1988 ।

सुन्दर सिंह (सं० 7089711 के अरब जे० सी०-  
176878 एम)---1 अप्रैल, 1988 ।

सुरिन्दर कुमार (सं० 7089391 के अरब जे० सी०-  
176879 पी)---1 अप्रैल, 1988 ।

जय सिंह कुमर (सं० 7089653 पी अरब जे० सी०-  
176880 के)---1 अप्रैल, 1988 ।

ए० सेवियर अमल दास (सं० 7089823 एम अरब  
जे० सी०-176881 एम)---1 अप्रैल, 1988 ।

किरण सिंह चौहान (सं० 7089685 एक्स अरब जे०  
सी०-176882 पी) 01 अप्रैल 1988 ।

भरत बिहारी लाल (सं० 7089674 एल अरब जे० सी०-  
176883 एक्स)---1 अप्रैल, 1988 ।

सीताराम शर्मा (सं० 7089833 एक्स अरब जे० सी०-  
176884 ए)---1 अप्रैल, 1988 ।

एन० कुरई सामी (सं० 7089744 वाई अरब जे० सी०-  
176885 एच)---1 अप्रैल, 1988 ।

ओम प्रकाश तिवारी (सं० 7089263 एम अरब  
जे० सी०-176886 एल)---1 अप्रैल, 1988 ।

गोपाल राय (सं० 7090283 एम अरब जे० सी०-  
176887 एन)---1 अप्रैल, 1988 ।

वेदान्तम सत्यनाराण शर्मा (सं० 7092905 एफ अरब  
जे० सी०-176888 डब्ल्यू)---1 अप्रैल, 1988 ।

भगवान दास अग्रवाल (सं० 7093240 एच अरब  
जे० सी०-176889 वाई)---1 अप्रैल, 1988 ।

किरण सिंह (सं० 7093829 एम अरब जे० सी०-  
176890 एन)---1 अप्रैल, 1988 ।

सिधसंकरन नायन (सं० 7093826 वाई अरब जे० सी०-  
176891 डब्ल्यू)---1 अप्रैल, 1988 ।

लाल बहादुर सिंह (सं० 7093853 एच अरब जे० सी०-  
176892 वाई)---1 अप्रैल, 1988 ।

मलिक सिंह (सं० 7094058 पी अरब जे० सी०-  
176893 एफ)---1 अप्रैल, 1988 ।

अखंड प्रताप सिंह (सं० 7094043 एम अरब जे० सी०-  
176894 के)---1 अप्रैल, 1988 ।

कैलाश नाथ पान्डेय (सं० 7094067 डब्ल्यू अरब जे०  
सी०-176895 एम)---1 अप्रैल, 1988 ।

देवा राम भाकर (सं० 7094641 के अरब जे० सी०-  
176896 पी)---1 अप्रैल, 1988 ।

मेघ नाथ (सं० 7094369 एच अरब जे० सी०-  
176897 एक्स)---3 मई, 1988 ।\*\*

\*\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1988 से दी जायेगी)

राम धवन (सं० 7094702 डब्ल्यू अरब जे० सी०-  
176898 ए)---1 अप्रैल, 1988 ।

सुरेन्द्र सिंह नेगी (सं० 7094897 एम अरब जे०  
सी०-176899 एच)---24 मई, 1988 ।\*\*

\*\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1988 से दी जायेगी) ।

पृथ्वी पाल सिंह (सं० 7094926 डब्ल्यू अरब जे० सी०-  
176900 एम)---1 अप्रैल, 1988 ।

जोत श्री (सं० 7095032 एम अरब जे० सी०-  
176901 पी)---20 अप्रैल, 1988 ।\*\*

\*\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1988 से दी जायेगी) ।

बसदेव सिंह माध (सं० 7095556 एन अरब जे० सी०-  
176902 एक्स)---2 मई, 1988 ।\*\*

\*\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1988 से दी जायेगी) ।

राजेश सिंह भवोरिया (सं० 7095574 डब्ल्यू अरब जे० सी०-176903 ए)---1 अप्रैल, 1988 ।

वचन सिंह बाधिया (सं० 7095513 वाई अरब जे० सी०-176904 एच)---1 अप्रैल, 1988 ।

रमेश सिंह (सं० 7095604 एच अरब जे० सी०-176905 एल)---1 अप्रैल, 1988 ।

अमल कृष्णा साहा (सं० 7095732 ए अरब जे० सी०-176906 एन)---1 अप्रैल, 1988 ।

भीम सिंह गुलेरिया (सं० 7095735 एन अरब जे० सी०-176907 डब्ल्यू)---1 अप्रैल, 1988 ।

ओम नारायण शर्मा (सं० 7095972 एक्स अरब जे० सी०-176908 वाई)---1 अप्रैल, 1988 ।

मोहन लाल (सं० 7095981 वाई अरब जे० सी०-176909 एफ)---1 अप्रैल, 1988 ।

अमरीक सिंह (सं० 7095980 डब्ल्यू अरब जे० सी०-176910 डब्ल्यू)---1 अप्रैल, 1988 ।

गोविन्दराजू चेतियार अन्नमालाई (सं० 7095711 के अरब जे० सी०-176911 वाई)---1 अप्रैल, 1988 ।

दया शंकर त्रिवेदी (सं० 7085922 वाई अरब जे० सी०-176912 एफ)---27 जून, 1988 1%।

% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून, 1988 से दी जायेगी) ।

सिंह दलाल (सं० 7087215 एन अरब जे० सी०-176913 के)---2 जुलाई, 1988 1%।

% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून, 1988 से दी जायेगी) ।

हवलदार से नायब सूबेदार स्टोर कीपर टैक्नीकल के रैंक में दुगार सिंह (सं० 7102156 एम अरब जे० सी०-176914 एम)---14 नवम्बर, 1987 1%।

% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर, 1987 से दी जायेगी) ।

उमेश सिंह (सं० 7084474 एल अरब जे० सी०-176915 पी)---4 फरवरी, 1988 1%।

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1988 से दी जायेगी) ।

मोहन सिंह समन्ध्याल (सं० 7097422 एन अरब जे० सी०-176916 एक्स)---9 फरवरी, 1988 1%।

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1988 से दी जायेगी) ।

धरम पाल (सं० 7103896 एल अरब जे० सी०-176917 ए)---24 फरवरी, 1988 1%।

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1988 से दी जायेगी) ।

सुरेन्द्र कुमार जयसवाल (सं० 7108167 पी अरब जे० सी०-176918 एच)---1 फरवरी, 1988 ।

बालाकृष्णन नायर टी० पी० (सं० 7108134 के अरब जे० सी०-176919 एल)---28 फरवरी, 1988 1%।

%% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 फरवरी, 1988 से दी जायेगी) ।

मोहिन्द्र सिंह समन्ध्याल (सं० 7108316 एक्स अरब जे० सी०-176920 ए)---19 मार्च, 1988 1%।

% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 मार्च, 1988 से दी जायेगी) ।

गोती सुर्पा सुब्रामन्या शास्त्री (सं० 7108467 डब्ल्यू अरब जे० सी०-176921 एच)---1 अप्रैल, 1988 1%।

% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 मार्च, 1988 से दी जायेगी) ।

मदन चन्द्र गोपीई (सं० 7108495 एच अरब जे० सी०-176922 डब्ल्यू)---16 मई, 1988 1%।

%% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1988 से दी जायेगी) ।

होरा लाल (सं० 7108796 एम अरब जे० सी०-176923 एन)---1 अप्रैल, 1988 ।

चरनजीत सिंह राय (सं० 7108917 एच अरब जे० सी०-176924 डब्ल्यू)---23 अप्रैल, 1988 1%।

%% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अप्रैल, 1988 से दी जायेगी) ।

बलवीर सिंह पठानिया (सं० 7108754 ए अरब जे० सी०-176925 वाई)---08 जून, 1988 1%।

%% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अप्रैल, 1988 से दी जायेगी) ।

जोसेफ के० एम० (सं० 7109075 पी अरब जे० सी०-176926 एम)---21 मई, 1988 1%।

%% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अप्रैल, 1988 से दी जायेगी) ।

हवलदार से नायब सूबेदार वेल्डर के रैंक में

गामराव शिन्दे (सं० 7107882 के अरब जे० सी०-176927 के)---25 मार्च, 1988 1%।

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1988 से दी जायेगी) ।

ओम प्रकाश (सं० 7107929 एक्स अरब जे० सी०-176928 एम)---18 अप्रैल, 1988 1%।

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1988 से दी जायेगी) ।

नारायण चन्द्रा सुब्बा (सं० 7107895 ए अथ जे० सी०-176929 पी) — 15 फरवरी, 1988 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1988 से दी जायेगी) ।

भजन लाल (सं० 7108285 ए अथ जे० सी०-176930 के) — 1 फरवरी, 1988 ।

ब्रज किशोर मिश्रा (सं० 7109024 ए अथ जे० सी०-176931 एम) — 1 फरवरी, 1988 ।

हृदय राम पेड्डार (सं० 7109057 ए अथ जे० सी०-176932 पी) — 19 फरवरी, 1988 ।%%

%%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 फरवरी, 1988 से दी जायेगी)

हवलदार से नायब सूबेदार मेटल स्मीथ के रैंक में

ब्रह्म दास (सं० 7090198 के अथ जे० सी०-176933 एक्स) — 22 अप्रैल, 1988 ।\*\*

\*\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अप्रैल, 1988 से दी जायेगी) ।

नारायण ब्रह्मादुर प्रधान (सं० 7091846 एन अथ जे० सी०-176934 ए) — 1 जून, 1988 ।

हवलदार से नायब सूबेदार टर्नर के रैंक में

गंगा राम (सं० 1445999 एन अथ जे० सी०-176935 एच) 31 दिसम्बर 1987 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 दिसम्बर, 1987 से दी जायेगी) ।

कैलाश चन्द (सं० 7098051 एच अथ जे० सी०-176936 एल) — 16 अप्रैल, 1988 ।\*\*

\*\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 फरवरी, 1988 से दी जायेगी) ।

ईश्वर सिंह (सं० 7108012 ए अथ जे० सी०-176937 एन) — 21 फरवरी, 1988 ।

हवलदार से नायब सूबेदार लिम्ब मेकर के रैंक में

जगन्नाथ प्रसाद मिश्रा (सं० 7102624 ए० अथ जे० सी०-176938 डब्ल्यू) — 30 मार्च, 1988 ।\*%

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 मई, 1988 से दी जायेगी) ।

हवलदार से नायब सूबेदार पेन्टर और डकोरेटर के रैंक में

गवेल सिंह (सं० 7094878 ए अथ जे० सी०-176939 वाई) — 1 जून, 1988 ।

हवलदार से नायब सूबेदार कार्पेन्टर और ज्वाइन्स के रैंक में

चरनजीत लाल (सं० 7090850 के अथ जे० सी०-176940 एन) — 21 फरवरी, 1988 ।1%%

%%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 फरवरी, 1988 से दी जायेगी)

केशव कदम (सं० 7091549 ए अथ जे० सी०-176941 डब्ल्यू) — 2 अप्रैल, 1988 ।1%%

%%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 फरवरी, 1988 से दी जायेगी)

हवलदार से नायब सूबेदार (ग्री०टी०ग्रा०पी०) के रैंक में

सुखराम दास (सं० 7094518 एल अथ जे० सी०-176942 वाई) — 14 अप्रैल, 1988 ।1%%

%%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 फरवरी, 1988 से दी जायेगी)

बदन सिंह (सं० 7097184 एम अथ जे० सी०-176943 पी) — 18 फरवरी, 1988 ।

विक्रम चन्द (सं० 7127468 एन अथ जे० सी०-176944 के) — 2 मई, 1988 ।\*\*\*

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई, 1988 से दी जायेगी) ।

रामेश्वर लाल (सं० 7127470 एल अथ जे० सी०-176945 एम) — 23 जून, 1988 ।\*\*\*

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई, 1988 से दी जायेगी) ।

दलमीर सिंह (सं० 7127589 पी अथ जे० सी०-176946 पी) — 1 मई, 1988 ।

किरपा राम (सं० 14502771 एम अथ जे० सी०-176947 एक्स) — 1 मई, 1988 ।

दुर्गा प्रसाद सिंह (सं० 14503310 पी अथ जे० सी०-176948 ए) — 9 मई, 1988 ।\*\*\*

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई, 1988 से दी जायेगी) ।

हवलदार से नायब सूबेदार (अपहोलिस्टर) के रैंक में

सोमी लाल (सं० 7097441 वाई अथ जे० सी०-176949 एच) — 31 दिसम्बर, 1987 ।1%%

%%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 दिसम्बर, 1987 से दी जायेगी)

चन्दर भान सिंह (सं० 7089989 पी अथ जे० सी०-176950 एम) — 26 अप्रैल, 1988 ।1%%

%%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अप्रैल, 1988 से दी जायेगी) ।

हवलदार से नायब सूबेदार (अपहोलिस्टर) के रैंक में

बदन सिंह (सं० 7090448 ए अथ जे० सी०-176951 ए) — 23 अप्रैल, 1988 ।1%%

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अप्रैल, 1988 से दी जायेगी) ।

मदन लाल (सं० 7100936 वार्ड अग्र जे० सी०-176952ए०)---27 अप्रैल, 1988 1%%%

%%%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 अप्रैल, 1988 से दी जायेगी)।

ए० एस० राव  
अवर सचिव,

(जल सेना विभाग)

सं० 2176 तारीख 22 दिसम्बर, 1988--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

सैनिक शिक्षा कोर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार इन्दरज सिंह (सं० 6326468पी अग्र जे० सी०-177022ए०)---1 जून, 1988 \*

हवलदार देवी चन्द (सं० 6313256 ए० अग्र जे० सी०-177023 डब्ल्यू०)---25 मई, 1988\*।

हवलदार गेर सिंह राना (सं० 5239068 डब्ल्यू अग्र जे० सी०-177024वार्ड०)---24 मई, 1988\*।

हवलदार जवाहर लाल राई (सं० 6314097ए० अग्र जे० सी०-177025ए०)---14 मई, 1988\*।

हवलदार वभूत सिंह (सं० 6314475वार्ड अग्र जे० सी०-177026ए०)---14 जून, 1988\*।

हवलदार करन सिंह (सं० 3962122ए० अग्र जे० सी०-177027ए०)---24 जून, 1988\*।

हवलदार शंकर लाल (सं० 6316350ए० अग्र जे० सी०-177028पी०)---28 जून, 1988\*।

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार राम स्वरूप चौहान (सं० 2455992ए० अग्र जे० सी०-177029ए०)---27 जुलाई, 1988\*\*।

हवलदार मुंगताक अली (सं० 2656497वार्ड० अग्र जे० सी०-177030ए०)---04 जुलाई, 1988\*\*।

हवलदार बिरखा राम (सं० 2859226 डब्ल्यू० अग्र जे० सी०-177031पी०)---24 जून, 1988\*\*।

हवलदार नैन सिंह (सं० 4158637ए० अग्र जे० सी०-177032ए०)---01 जुलाई, 1988\*\*।

हवलदार शिव लाल (सं० 13729883के० अग्र जे० सी०-177033ए०)---02 जुलाई, 1988\*\*।

हवलदार राम कंवार (सं० 6316898 ए० अग्र जे० सी०-177034ए०)---09 जून, 1988\*\*।

हवलदार विन्ध्यावल मिश्र (सं० 7104938ए० अग्र जे० सी०-177035डब्ल्यू०)---01 अगस्त, 1988\*\*।

\*\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी (सं० 2962696ए० अग्र जे० सी०-177036ए०)---21 जुलाई, 1988\*\*।

हवलदार इकबाल खान (सं० 2658204ए० अग्र जे० सी०-177037डब्ल्यू०)---01 जुलाई, 1988\*\*।

हवलदार शिव राज सिंह (सं० 9505417ए० अग्र जे० सी०-177038वार्ड०)---15 जून, 1988\*\*।

\*\*(नायब सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून, 1988 से दी जायेगी)।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जे० सी०-112640ए०)---22 नवम्बर, 1988।

नायब सूबेदार मुखनियार सिंह (जे० सी०-113814ए०)---01 दिसम्बर, 1988।

नायब सूबेदार फतेह सिंह लठवाल (जे० सी०-113808 वार्ड०)---01 दिसम्बर, 1988।

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जे० सी०-113838डब्ल्यू०)---01 दिसम्बर, 1988।

नायब सूबेदार इब्राहिम खां (जे० सी०-113802ए०)---01 दिसम्बर, 1988।

बी० यो० मंडल, अवर सचिव

(जल सेना विभाग)

सं० 2177 दिनांक राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार कम्पोतर सिंह वर्मा (जे० सी०-74389ए०)---01 अप्रैल, 1988।

सूबेदार चन्द्र पाल सिंह (जे० सी०-62764ए०)---01 जुलाई, 1988।

सूबेदार हंस राज (जे० सी०-98754ए०)---01 सितम्बर, 1988।

सूबेदार झल्ला राम लिपाठी (जे० सी०-10031ए०)---01 अक्टूबर, 1988।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार प्रकाश अम्ब (जे० सी०-104937ए०)---01 जुलाई, 1988।

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जे० सी०-111770एफ०)--  
01 जुलाई, 1988।

नायब सूबेदार हरि लंकर (जे० सी०-111759एच०)-  
01 जुलाई, 1988।

नायब सूबेदार शिव राम गुरंग (जे० सी०-65325एफ०)-  
01 जुलाई, 1988।

नायब सूबेदार दिनकर साखाराम पाटिल (जे० सी०-  
69880एम०)--01 जुलाई, 1988।

नायब सूबेदार खजान सिंह (जे० सी०-92749एफ०)--  
01 अगस्त, 1988।

नायब सूबेदार परस राम (जे० सी०-78002एफ०)--  
01 सितम्बर, 1988।

नायब सूबेदार हरभजन सिंह (जे० सी०-69945पी०)--  
01 सितम्बर, 1988।

नायब सूबेदार चाबोला राम (जे० सी०-111068डब्ल्यू)  
01 सितम्बर, 1988।

नायब सूबेदार सत्या नारायण (जे० सी०-111052एल०)  
01 अक्टूबर, 1988।

नायब सूबेदार बिशन सिंह थापा (जे० सी०-98820ए०)  
01 अक्टूबर, 1988।

नायब सूबेदार मेहर सिंह (जे० सी०-111069वाई०)--  
01 अक्टूबर, 1988।

नायब सूबेदार राजबीर सिंह (जे० सी०-67071पी०)-  
01 अक्टूबर, 1988।

रक्षा तथा सुरक्षा कोर  
सूबेदार मेजर क्लर्क के रैंक में  
सूबेदार क्लर्क महावीर सिंह (जे० सी०-93960एच०)-  
01 अगस्त, 1988।

सूबेदार क्लर्क के रैंक में  
नायब सूबेदार क्लर्क बलबीर सिंह (जे० सी०-107725के०  
01 जुलाई, 1988।

नायब सूबेदार क्लर्क विश्वनाथ वैरागिया (जे० सी०-  
132049आई०)--01 अगस्त, 1988।

रक्षा तथा सुरक्षा कोर  
सूबेदार मेजर के रैंक में  
सूबेदार मूल चन्द (जे० सी०-98774डब्ल्यू०)--01  
अक्टूबर, 1988।

सूबेदार के रैंक में  
नायब सूबेदार सुखचैन सिंह अटवाल (जे० सी०-127179  
एफ०)--18 जुलाई, 1986।

नायब सूबेदार रामेश्वर दयाल (जे० सी०-56634एच०)  
01 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार नन्द राम (जे० सी०-111056एफ०)--  
01 अक्टूबर, 1988।

## स्थल सेना विभाग

नं० 2178 दिनांक-----राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

## नियमित सेना

## कोर आफ सिग्नल

नायब सूबेदार जीपी साईफर के रैंक में  
हवलदार राज किशोर सिंह (नं० 14206011एच० अथवा  
जे० सी० )--26 दिसम्बर 1987×  
×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 87 से दी जायेगी)।  
हवलदार जगबन्धु बेहेरा (नं० 14281573एफ० अथवा जे०  
सी० )--18 फरवरी, 1988\*\*  
\*\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1988 से दी जायेगी)।  
हवलदार परकाश चन्द (नं० 6327909एम० अथवा जे०  
सी० )--03 फरवरी, 1988\*\*\*।  
\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1988 से दी जायेगी)।  
हवलदार बाबू लाल योगी (नं० 14281024 एफ० अथवा  
जे० सी० )--03 मार्च, 1988\*\*\*\*।  
\*\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1988 से दी जायेगी)।  
हवलदार ठाकर दास (नं० 6315839एम० अथवा जे० सी०  
)--08 फरवरी, 1988\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों  
पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1988 से दी  
जायेगी)।  
हवलदार पूरनानन्द बहुगुणा (नं० 14280047 डब्ल्यू०  
अथवा जे० सी० )--15 फरवरी, 1988\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों  
पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1988 से दी  
जायेगी)।  
हवलदार मंगल दास (नं० 14277732 डब्ल्यू० अथवा जे०  
सी० )--01 फरवरी, 1988  
हवलदार मोहिन्दर लाल (नं० 14279121ए० अथवा जे०  
सी०)--04 फरवरी, 1988।  
“(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1988 से दी जायेगी)।  
हवलदार मोहन सिंह विष्ट (नं० 6316040पी० अथवा जे०  
सी० 01 मार्च, 1988।  
हवलदार किशन सिंह (नं० 14201121एन अथवा जे० सी०  
12 मई, 1988।=  
=(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 02 मार्च, 1988 से दी जायेगी)।  
हवलदार जलाय दीन कमल बसा (नं० 14280760एन०  
अथवा जे० सी०)--26 मई, 1988।==  
==(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1988 से दी जायेगी)।  
हवलदार एम० अलगापन (नं० 14282144 एम० अथवा  
जे० सी० )--19 अप्रैल, 1988===  
=== (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार शिवचर उमेशा (नं० 14276839एच० अरब जे० सी० )—14 अप्रैल, 1988—==

===(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 88 से दी जायेगी)।

हवलदार प्रेम सिंह (नं० 14279563वाई० अरब जे० सी० )—21 अप्रैल, 1988

=====(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार सरदेव राय (नं० 14207438वाई० अरब जे० सी० )—20 मार्च, 1988।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार शिव प्रताप (नं० 14208409 डब्ल्यू० अरब जे० सी० )—27 मई, 1988।\*\*

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार वालभीटिल टी ज्वाय (नं० 14209867वाई० अरब जे० सी० )—01 मार्च, 1988।

हवलदार वालाकिशन पंथिन (नं० 14281654 एफ जे० सी० )—03 मई, 1988।×

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार गणेश दस्त जोशी (नं० 14209844एक्स अरब जे० सी० )—02 अप्रैल, 1988।××

×× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार मिशान सिंह (नं० 6327985वाई० अरब जे० सी० )—21 अप्रैल, 1988।×××

××× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार रामजी कुशवाहा (नं० 14208558के० अरब जे० सी० )—25 अप्रैल, 1988 ×××

××× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार रामामन्दन टण्डनेक (नं० 14281611 एम अरब जे० सी० )—02 अप्रैल, 1988

×××× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार डी० के० रामा राजू (नं० 14209898वाई० अरब जे० सी० )—29 अप्रैल, 1988 :

:(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार कल्याण कुमारी पाल (नं० 14281390एच० अरब जे० सी० )—29 अप्रैल, 1988 :

:(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार कमलेश कुमार चन्दा (नं० 14277872एच० अरब जे० सी० )—09 मई, 1988 : :

:(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार मुस्ताफा असलम (नं० 14279838एफ० अरब जे० सी० )—14 मई, 1988 : :

:(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार प्रेम लाल (नं० 14281593पी० अरब जे० सी० )—02 मई, 1988 : :

:(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार अगस्त्य जीसफ (नं० 14209454पी० अरब जे० सी० )—18 अप्रैल, 1988 "

" (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार तीरथ प्रसाद शर्मा (नं० 14209833एल० अरब जे० सी० )—06 जून, 1988 ""

"" (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार भगवान सिंह (नं० 14282869एम० अरब जे० सी० )—29 अगस्त, 1988 ""

"" (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार प्रोकार सिंह (नं० 14277461के० अरब जे० सी० )—08 जुलाई, 1988 ""

"" (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार योगी राम (नं० 14280781के० अरब जे० सी० )—23 जून, 1988 "" ""

"" (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार मदन मोहन लाल (नं० 14209002एम० अरब जे० सी० )—20 जून, 1988×

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार बचन सिंह रावत (नं० 1445675डब्ल्यू० अरब जे० सी० )—28 जून 1988 ××

×× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार निहाल सिंह (नं० 14281584एल० अब जे० सी०) —26 मई, 1988 ×××।

××× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई, 1988 से दी जायेगी)।

टी० बी० नायर, डेस्क आफिसर

#### सेना मुख्यालय

सं० 2179 दिनांक 14 अक्टूबर, 1988—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर की पदोन्नति करते हैं :—

#### प्रादेशिक सेना

#### प्रादेशिक कमीशन

#### 2/लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट

मनेनीत सिंह कटारिया (टी० ए०—41539), इन्फैन्ट्री—24 अक्टूबर, 1986।

सागर दास गुप्ता (टी० ए०—41905), इन्फैन्ट्री—05 अप्रैल, 1987।

एम० अरुणामी (टी० ए०—41919), इन्फैन्ट्री—13 अगस्त, 1987।

रमेशचन्द्रा महाराना (टी० ए०—41836), इन्फैन्ट्री—15 सितम्बर, 1986।

सुतीन्द्र भूषण (टी० ए०—418264), इन्फैन्ट्री—09 सितम्बर, 1986।

नन्द कुमार दामोदर देवीशकुल (टी० ए०—41809), ए० एस० सी०—19 सितम्बर, 1986।

खजान सिंह बाबोदा (टी० ए०—41798), इंजीनियर्स—16 सितम्बर, 1986।

सुभाष चन्द्र शर्मा, (टी० ए०—41807), इंजीनियर्स—19 सितम्बर, 1986।

ब्रह्म वरत यादव (टी० ए०—41790), इंजीनियर्स—16 सितम्बर, 1986।

हर्ष देव सिन्हा, अवर सचिव

#### थल सेना विभाग

सं० 2181 तारीख 28 दिसम्बर, 1988—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

#### नियमित सेना

#### इन्फैन्ट्री

#### पैराशूट रेजीमेंट

#### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार परमाती लाल यादव (नं० 13606091एल० अब जे० सी०—177771के०) —15 सितम्बर, 1988 X

X (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार जात सिंह (नं० 13606860 एल० अब जे० सी०—177772एल०) —01 जून, 1988।

हवलदार विजय बहादुर सिंह (नं० 13608922पी० अब जे० सी०—177773पी०) —14 अगस्त, 1988। XX

XX (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार नागी राम (नं० 3968927एल० अब जे० सी०—177774एल०) —22 जुलाई, 1988।

सी० एच० एम० हरीश चन्द्र सिंह (नं० 13605287के० अब जे० सी०—177767एल०) —01 जनवरी, 1988।

हवलदार अजय कुमार मासाकर (नं० 13608730एल० अब जे० सी०—177768के०) —11 जनवरी, 1988।

सी० एच० एम० गोपाल सिंह (नं० 13608954एल० अब जे० सी०—177769एल०) —14 मार्च, 1988।

हवलदार देव सिंह (नं० 13606996एल० अब जे० सी०—177770एल०) —01 मई, 1988।

हवलदार सागर सिंह (नं० 13608063पी० अब जे० सी०—177762एल०) —11 मई, 1988।

हवलदार गुरमेल सिंह (नं० 13605356पी० अब जे० सी०—177763एल०) —11 जुलाई, 1988।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई, 1988 से दी जायेगी)।

टी० एच० एम० जोगिन्दर सिंह (नं० 13607497एल० अब जे० सी०—177764एल०) —11 जुलाई, 1988।

हवलदार बलबीर राय (नं० 13607395एल० अब जे० सी०—177765एल०) —22 जुलाई, 1988।

हवलदार अवतार सिंह (नं० 13607587के० अब जे० सी०—177766वाई०) —17 अगस्त, 1988।

हवलदार धरम सिंह (नं० 4454379पी० अब जे० सी०—177792ए०) —28 मई, 1988।

हवलदार हरवंस सिंह (नं० 4454503एल० अब जे० सी०—177793ए०) —28 मई, 1988।

हवलदार मोहन सिंह (नं० 3368748एल० अब जे० सी०—177787पी०) —01 जनवरी, 1988।

हवलदार सरबन सिंह (नं० 3369000एल० अब जे० सी०—177788एल०) —23 मई, 1988।

हवलदार जोगा सिंह (नं० 3368584ए० अब जे० सी०—177789ए०) —04 जून, 1988।

सी० एच० एम० सुधा सिंह (नं० 3369173ए० अब जे० सी०—177790पी०) —09 जून, 1988। X

X (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 जनवरी, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार सूरिजन सिंह (नं० 3367731एल० अब जे० सी०—177791एल०) —16 जुलाई, 1988।

#### नायब सूबेदार (कर्म) के रैंक में

हवलदार कलक दुर्गा प्रसाद (नं० 2860679एल० अब जे० सी०—177786एल०) —1 सितम्बर, 1988।



हवलदार रामजी लाल गुजर (सं० 2967469एल० अब जे० सी०-177781एन०)---28 जून, 1988 \* ।

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 मई, 1988 में दी जायेगी) ।

हवलदार अक्षय सिंह (सं० 2966579एन० अब जे० सी०-177782डब्ल्यू०)---28 जून, 1988 ।

हवलदार राजपाल सिंह (सं० 2968447वाई० अब जे० सी०-177783वाई०)---01 जुलाई, 1988 ।

हवलदार कुशल पाल सिंह (सं० 2967980एफ० अब जे० सी०-177784एफ०)---25 जुलाई, 1988 ।

हवलदार राज बहादुर सिंह (सं० 2967077एक्स० अब जे० सी०-177785के०)---25 जुलाई, 1988 ।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार गजेन्द्रा सिंह (सं० 2964757एम० अब जे० सी० 177775ए०)---01 जनवरी, 1988 ।

हवलदार तमबीर सिंह (सं० 2963972 एल अब जे० सी०-177776एच०)---08 अप्रैल, 1988 ।

हवलदार अवध सिंह (सं० 2969127डब्ल्यू० अब जे० सी०-177777एल०)---01 अगस्त, 1988 \* ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले ज्येष्ठता 07 मई, 1988 में दी जायेगी) ।

हवलदार भलकीत सिंह (सं० 4456271डब्ल्यू० अब जे० सी०-177778एन०)---01 जून, 1988 ।

हवलदार पारम नाथ सिंह (सं० 2964868क० अब जे० सी०-177779डब्ल्यू०)---25 जून, 1988 ।

हवलदार रतबीर सिंह (सं० 2960782एन० अब जे० सी०-177780एल०)---18 जुलाई, 1988 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) धन सिंह (सं० 5239181एल० अब जे० सी०-177817एफ०)---01 अगस्त, 1988 ।

नायब सूबेदार (आर० टी०) के रैंक में

शार्डकल भारत वीर भूषण (9079515एम० अब जे० सी०-177816वाई०)---21 दिसम्बर, 1981 ।

हवलदार हवलदार पण्डित (सं० 4246997एफ० अब जे० सी०-177804के०)---24 जून, 1988 ।\*

\*(नायब सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 1 मई, 1988 में दी जायेगी) ।

सी० एच० एम० रूप नारायण सिंह (सं० 4250028वाई० अब जे० सी०-177805एम०)---2 अगस्त, 1988 ।\*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 21 मई, 1988 में दी जायेगी) ।

हवलदार जीतन कुमार देवगम (सं० 4249924ए० अब जे० सी०-177806पी०)---26 जून, 1988 ।

हवलदार रघु नाथ मुन्डा (सं० 4252691 पी अब जे० सी०-177807एक्स०)---26 जून, 1988 ।

सी० एच० एम० बबबन प्रसाद सिंह (सं० 4249268के० अब जे० सी०-177808ए०)---2 जुलाई, 1988 ।

हवलदार मन्जिदा नन्द सिंह (सं० 4248040एफ० अब जे० सी०-177809एच०)---31 अगस्त, 1988 ।

हवलदार अशोक कुमार झा (सं० 4249452पी० अब जे० सी०-177810एक्स०)---31 अगस्त, 1988 ।

हवलदार प्रदुमन प्रसाद सिंह (सं० 4248441डब्ल्यू० अब जे० सी०-177811ए०)---31 अगस्त, 1988 ।

हवलदार मिथिला कान्त मिश्रा (सं० 4249130पी० अब जे० सी०-177812एच०)---31 अगस्त, 1988 ।

हवलदार गब्बर सिंह मजवान (सं० 4050611के० अब जे० सी०-177813एल०)---1 सितम्बर, 1988 ।

सी० एच० एम० बणिष्ठ सिंह (सं० 4247673एच० अब जे० सी०-177814एन०)---10 सितम्बर, 1988 ।

हवलदार कल्याणी प्रसाद गहदेव (सं० 4252525एफ० अब जे० सी०-177815डब्ल्यू०)---18 सितम्बर, 1988 ।

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

ग्रामाम रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मनलिस्राना (सं० 4346549के० अब जे० सी० 177798एफ०)---01 अप्रैल, 1988 ।

हवलदार रोमेश अनल (सं० 4346813एम० अब जे० सी०-177799के०)---11 मई, 1988 ।

हवलदार कालानन्द मिश्रा (सं० 4347407वाई० अब जे० सी०-177880एन०)---16 मई, 1988\* ।

हवलदार खगेन चन्द्र बोरगह (सं० 4347468डब्ल्यू० अब जे० सी०-177801डब्ल्यू०)---24 अगस्त, 1988 \*\*।

हवलदार रविन्द्र मिश्रा (सं० 4347228वाई० अब जे० सी०-177802वाई०)---13 सितम्बर, 1988 ।

हवलदार किशोर बहादुर प्रधान (सं० 4345949के० अब जे० सी०-177803एफ०)---01 सितम्बर, 1988 ।

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 मई, 1988 में दी जायेगी) ।

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 जून, 1988 में दी जायेगी) ।

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 जुलाई, 1988 में दी जायेगी) ।

हवलदार नैन सिंह (सं० 4161502एम० अब जे० सी० 177795एन०)---18 अगस्त, 1988\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई, 1988 में दी जायेगी) ।

हवलदार नन्दन सिंह (सं० 415891पी० अब जे० सी० 177796डब्ल्यू०)—13 सितम्बर, 1988 IX

X(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार अजित लाल (सं० 4160641के० अब जे० सी० 177797वाई०)—01 सितम्बर, 1988 I\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 अगस्त, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार मुखनियार सिंह (सं० 4450501एल० अब जे० सी०—177794एल०)—01 सितम्बर, 1988 I

हवलदार मन बहादुर छेत्री (सं० 5340376एक्स० अब जे० सी०—177818के०)—01 जनवरी, 1988 I

हवलदार प्रेम कुमार तमांग (सं० 5340479डब्ल्यू० अब जे० सी०—177819एम्०)—01 फरवरी, 1988 I

हवलदार टेक बहादुर गुरंग (सं० 5340435वाई० अब जे० सी०—177820एफ०)—01 मार्च, 1988 I

हवलदार नारायण बहादुर थापा (सं० 5340948एन० अब जे० सी०—177821के०)—01 अप्रैल, 1988 I

हवलदार देव बहादुर थापा (सं० 5340992एन० अब जे० सी०—177822एम्०)—24 अप्रैल, 1988 I\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार रमेश कुमार गुरंग (सं० 5341168पी० अब जे० सी०—177823पी०)—19 जुलाई, 1988 I\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 जून, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार बिनोद कुमार गुरंग (सं० 5339797एन० अब जे० सी०—177924एक्स०)—01 अगस्त, 1988 I

हवलदार दिल बहादुर राणा (सं० 5339861ए० अब जे० सी०—177825ए०)—22 अगस्त, 1988 I

हवलदार दीर्घा बहादुर गुरंग (सं० 5339998एम्० अब जे० सी०—177826एच०)—01 अगस्त, 1988 I

हवलदार ओम बहादुर क्षेत्री (सं० 4162243एफ० अब जे० सी०—177828एन०)—23 मार्च, 1988 I

हवलदार कृष्ण बहादुर कनवर (सं० 5842057एम्० अब जे० सी०—177829 डब्ल्यू०)—09 जुलाई, 1988 I

हवलदार गबन सिंह मल्ल (सं० 5840933एन० अब जे० सी०—177830एल०)—01 अगस्त, 1988 I

हवलदार (क्लर्क) दर्शन राम (सं० 5839218वाई० अब जे० सी०—177827एल०)—01 मई, 1988 I

मानिनी लडानी, अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं० दिनांक ---राष्ट्रपति  
निम्नलिखित भवनपूर्व जूनियर कमीशनड अफसरों को पुनः नौकरी पर बहाल किया जाता है। रैंक और बहाली की तिथि नाम के सामने अंकित है :-

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मेजर पलक धाने उपाध्याय (जे० सी०—58619एम्० पहले गार्डज—04 जनवरी, 1988 I

सूबेदार क्लर्क के रैंक में

सूबेदार क्लर्क विणम्बर सिंह (जे० सी०—85736एफ०) पहले आर्टिलरी—25 जनवरी, 1988 I

सूबेदार के रैंक में

सूबेदार भजन सिंह (जे० सी०—100533एक्स०, इन्टेलिजेंस कोर—05 जनवरी, 1988 I

नायब सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार मनोहर पाठक (जे० सी०—124915ए०), पहले इन्टेलिजेंस कोर—03 सितम्बर, 1987 I

टी० बी० नाथर, डेस्क ऑफिसर

रक्षा मंत्रालय

रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग

सं० 8183, दिनांक 01 दिसम्बर, 1988

राष्ट्रपति गु० आ० म० नि० मुख्यालय, नई दिल्ली के श्री ए० मखोपाध्याय, निदेशक, ग्रेड-1 को उनकी अधिष्ठाता की आयु पूरी होने पर दिनांक 30 नवम्बर, 1988 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त करने हैं।

वी० एन० ओटी,  
अवर सचिव

(थल सेना विभाग)

सं० 2184, दिनांक

--रक्षा

मंत्रालय के सूचना नं० 826 दिनांक 25 अप्रैल, 1988, भारत का प्रकाशित राजपत्र दिनांक 04 जून, 1988, के अन्तर्गत 'स्थायी सेना' उप शीर्षक कोर आफ इलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल इंजीनियर्स"

नीचे नायब सूबेदार टेक्नीकल और आर्टिजन कैटेगिरीज (पेज सं० 844):-

के स्थान पर

"सूबेदार मेजर टेक्नीकल और आर्टिजन (इलिजिबल कैटेगिरी) के रैंक में।

पढ़ा जाए

'सूबेदार टेक्नीकल और आर्टिजन (इलिजिबल कैटेगिरी) के रैंक में।

नीचे सूबेदार टेक्नीकल और आर्टिजन (इलिजिबल कैटेगिरी) के रैंक में

के स्थान पर:

नायब सूबेदार जगदव सिंह (जे० सी०—1215C4 एल०)—01 जनवरी, 1987 I



ग्रुप गत क्रमांक सं० 216	दी मरगाटा लाईट इन्फैन्ट्री जे सी 82543 के स्थान पर जे सी 82543 डब्ल्यू पढ़ा जाए।	ग्रुप गत क्रमांक सं० 103	दी कुमाऊँ रेजिमेंट काटिए क्रमांक सं० 92 और सम्बन्धित प्रविष्टिया किशोरी लाल के स्थान पर किशोरी लाल पढ़ा जाए।
ग्रुप गत क्रमांक सं० 244	दी मिश्र रेजिमेंट जे सी 104542 एक्स के स्थान पर जे सी 104245 एक्स पढ़ा जाए।	ग्रुप गत क्रमांक सं० 133	आर्मी आर्डनेंस कोर नारायण मिह के स्थान पर नारायण पढ़ा जाए।
ग्रुप गत क्रमांक सं० 261	दी कुमाऊँ रेजिमेंट 01-10-87 के स्थान पर 01-01-88 पढ़ा जाए।	विविध सं० 3ई दिनांक 22 जनवरी, 1988	
ग्रुप गत क्रमांक सं० 287	दी जम्मू और कश्मीर राईफल सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट के स्थान पर सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट पढ़ा जाए।	ग्रुप गत क्रमांक सं० 73	दी रेजिमेंट आफ आर्टिलरी चान्देश्रो ताबल के स्थान पर चांगदेश्रो साबले पढ़ा जाए।
ग्रुप गत क्रमांक सं० 330	9 गोरखा राईफल भीम बहादुर खड्का के स्थान पर भीम सिंह खड्का पढ़ा जाए।	क्रमांक सं० 151	01-11-87 के स्थान पर 01-01-88 पढ़ा जाए।
ग्रुप गत क्रमांक सं० 499	कोर आफ इलेक्ट्रिकल और मैके- निकल इंजीनियर जे सी 61086 एक्स के स्थान पर जे सी 61086ए पढ़ा जाए।	ग्रुप गत क्रमांक सं० 606	दी कोर आफ सिगनल्स रामजीन मोहन बल के स्थान पर रजत मोहन बल पढ़ा जाए।
क्रमांक सं० 497	01-10-87 के स्थान पर 01-11-87 पढ़ा जाए।	ग्रुप गत क्रमांक सं० 846	दी राजपूताना राईफल 2855762 डब्ल्यू के स्थान पर 2855726 डब्ल्यू पढ़ा जाए।
क्रमांक सं० 505	जे सी 109270 के स्थान पर जे सी 119270 बाई पढ़ा जाए।	ग्रुप गत क्रमांक सं० 866	दी राजपूत रेजिमेंट 2857001 के स्थान पर 2957001 के पढ़ा जाए।
क्रमांक सं० 529	जे सी 97948 एल के स्थान पर जे सी 87948एल पढ़ा जाए।	ग्रुप गत क्रमांक सं० 909	दी जाट रेजिमेंट 6639516ए के स्थान पर 6639510ए पढ़ा जाए।
क्रमांक सं० 540	महेन्द्रा सिंह सारंगी के स्थान पर महेन्द्रा नाथ सारंगी पढ़ा जाए।	ग्रुप गत क्रमांक सं० 944	दी मिश्र रेजिमेंट मिन्धर सिंह के स्थान पर शिवधर सिंह पढ़ा जाए।
क्रमांक सं० 550	01-06-87 के स्थान पर 01-01-88 पढ़ा जाए।	ग्रुप गत क्रमांक सं० 1017	दी डोंगरा रेजिमेंट 3958818एल के स्थान पर 3959818 एल पढ़ा जाए।
क्रमांक सं० 556	01-12-87 के स्थान पर 01-01-87 पढ़ा जाए।	ग्रुप गत क्रमांक सं० 1057	दी कुमाऊँ रेजिमेंट 4254695पी के स्थान पर 4154695 पी पढ़ा जाए।
शीर्षक गत ग्रुप गत क्रमांक सं० 1	अवैतनिक लेफ्टिनेंट के रैंक में दी बंगाल इंजीनियर ग्रुप जे सी 51764 एक्स के स्थान पर जे सी 51768 एक्स पढ़ा जाए।	ग्रुप गत क्रमांक सं० 1682	आर्मी मविम कोर (मप्लाई) 6838140बाई के स्थान पर 6888140बाई पढ़ा जाए।
शीर्षक गत ग्रुप गत क्रमांक सं० 2	अवैतनिक सूबेदार मेजर के रैंक में 11 गोरखा राईफल जे सी 876107 एच के स्थान पर जे सी 76107 एच पढ़ा जाए।	ग्रुप गत क्रमांक सं० 1915	कोर आफ इलेक्ट्रिकल और मैके- निकल इंजीनियर्स 7079862 एन के स्थान पर 7079826 एन पढ़ा जाए।
शीर्षक गत ग्रुप गत क्रमांक सं० 58	अवैतनिक रिमाउन्ट/सूबेदार के रैंक में दी मैकेनाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेंट जे सी 143323एफ के स्थान पर जे सी 143523 एफ पढ़ा जाए।	ग्रुप गत क्रमांक सं० 2096ए	रिमाउन्ट वेटरिनरी कोर जोड़िए क्रमांक सं० 7235065एक्स हवलदार ओम प्रकाश 01-09-87

ग्रुप गत	दी मिलिट्री पुलिस	जोड़िये क्रम सं० 179 ए० जे० सी०-87076 एन० सूबेदार
कार्टिये क्रमांक सं० 2137 और सम्बन्धित प्रविष्टियां	मालिनी थडानी अवर सचिव	माल्लोलु मलिकाया राओ
	-----	
	शुद्धि पत्र	
भारत के राजपत्र (धमाधारण) विज्ञप्तियां संख्या 7 ई० 8 ई० और 9 ई० सभी दिनांक 12 अगस्त, 1988 जिसमें जे० सी० ओम० और एन० सी० ओम० को अवैतनिक पद प्रकाशित किये गये थे, उनमें निम्नलिखित संशोधन की जाती है :—		
विज्ञप्ति संख्या 7 ई० दिनांक 12 अगस्त 1988		
शीर्षक गत	अवैतनिक कर्पेटेन के रैंक में	
ग्रुप गत	दी मद्रास इंजिनियर ग्रुप	
क्रमांक संख्या 37	वाई० आर० साम्भमिक्न के स्थान पर यंगर रेड्डी सम्भामिक्न पढ़ा जाय	
ग्रुप गत	दी बंगाल इंजिनियर ग्रुप	
कार्टिये क्रमांक सं० 39 व सम्बन्धित प्रविष्टियां		
शीर्षक गत	अवैतनिक लेफ्टिनेंट के रैंक में	
ग्रुप गत	68 आर्मेड रेजिमेंट	
कार्टिये क्रम सं० 14 व सम्बन्धित प्रविष्टियां		
ग्रुप गत	दी रेजिमेंट आफ आर्टिलरी	
क्रमांक सं० 98	बहादुर सिंह के स्थान पर राज बहादुर सिंह पढ़ा जाये	
जोड़िये क्रम सं० 113 ए० जे० सी०-107673 एम० सूबेदार		
अंगद सिंह		
जोड़िये क्रम सं० 114 ए० जे० सी०-109071 एक्स० सूबेदार		
बलबीर सिंह		
कार्टिये क्रम सं० 118 व सम्बन्धित प्रविष्टियां		
कार्टिये क्रम सं० 119 व सम्बन्धित प्रविष्टियां		
जोड़िये क्रम सं० 123 ए० जे० सी०-90011 डब्ल्यू० सूबेदार		
गुरुबचन सिंह		
कार्टिये क्रम सं० 132 व सम्बन्धित प्रविष्टियां		
कार्टिये क्रम सं० 136 व सम्बन्धित प्रविष्टियां		
जोड़िये क्रम सं० 153 ए० जे० सी०-112224 एफ० सूबेदार		
तिरमोहन सिंह		
ग्रुप गत	मद्रास इंजिनियर ग्रुप	
क्रमांक सं० 166	सूबेदार मेजर के स्थान पर सूबेदार पढ़ा जाये	
क्रमांक सं० 167	सूबेदार के स्थान पर सूबेदार मेजर पढ़ा जाय	
क्रमांक सं० 169	जे० सी०-61582 वाई० के स्थान पर 61581 वाई० पढ़ा जाय	
		जोड़िये क्रम सं० 222
		विष्णु प्रताप सिंह के स्थान पर विष्णु प्रताप सिंह पढ़ा जाय
		कार्टिये क्रम सं० 225 व सम्बन्धित प्रविष्टियां
		क्रम सं० 230
		इन्द्रा पाल सिंह के स्थान पर इन्दर पाल सिंह पढ़ा जाय
		कार्टिये क्रम सं० 237 व सम्बन्धित प्रविष्टियां
		ग्रुप गत
		दी बम्बई इंजिनियर ग्रुप
		कार्टिये क्रम सं० 273 व सम्बन्धित प्रविष्टियां
		जोड़िये क्रम सं० 281 ए० जे० सी०-92476 के सूबेदार उजागर सिंह
		ग्रुप गत
		दी कोर आफ सिगनल्ज
		क्रमांक सं० 284
		सूबेदार मेजर के स्थान पर सूबेदार पढ़ा जाये
		क्रम सं० 285
		सूबेदार के स्थान पर सूबेदार मेजर पढ़ा जाये
		जोड़िये क्रम सं० 296 ए० जे० सी०-75999 एम० सूबेदार हित नारायण सिंह
		ग्रुप गत
		दी ब्रिगेड आफ दी गार्ड्स
		क्रमांक सं० 358, 359, 362, 368, 375 तथा 377 व इनसे सम्बन्धित प्रविष्टियां
		काट दी जाय ।
		जोड़िये क्रम सं० 385 ए० जे० सी०-95565 एन० सूबेदार दुकी राम शर्मा
		ग्रुप गत
		3 गोरखा राईफल
		जोड़िये क्रम सं० 698 ए० जे० सी०-110966 एच० सूबेदार
		चित्रा बहादुर गुरुंग
		ग्रुप गत
		4 गोरखा राईफल
		जोड़िये क्रम सं० 711 ए० जे० सी०-121517 एन० सूबेदार देव सिंह राणा
		ग्रुप गत
		आर्मी सर्विस कोर
		कार्टिये क्रम सं० 758 व 776 तथा इनसे सम्बन्धित प्रविष्टियां
		ग्रुप गत
		आर्मी मेडिकल कोर
		क्रम सं० 806
		जे० सी०-85575 ए० के स्थान पर 85775 ए० पढ़ा जाय
		जोड़िये क्रम सं० 835 ए० जे० सी०-58576 ए०
		मेजर व्युदन्ती ईश्वरईया
		कार्टिये क्रम सं० 845 तथा इससे सम्बन्धित प्रविष्टियां
		ग्रुप गत
		आर्मी आर्टिलरी
		जोड़िये क्रम सं० 66817 एन० सूबेदार रवि

ग्रुप गत	कोर आफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजिनियर्स	क्रम सं० 166	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट के स्थान पर
जोड़िये क्रम सं० 905 ए० जे० सी०-59944 वार्ड	सूबेदार रणपत सिंह	ग्रुप गत	जो० सी०-65856 ए० के स्थान पर
कार्टिये क्रम सं० 948 व सम्बन्धित प्रविष्टियां	जोड़िये क्रम सं० 955 ए० जे० सी०-87907 ए० सूबेदार शिशोराज सिंह	ग्रुप गत	जो० सी०-65865 ए० पढ़ा जाये ।
क्रमांक सं० 930	जे० सी०-117009 ए० के स्थान पर	ग्रुप गत	दी बंगाल इंजिनियर ग्रुप
जे० सी०-117009 ए० पढ़ा जाये	जोड़िये क्रम सं० 958 ए० जे० सी० 90621 ए० सूबेदार तीरथ राम गंगियाल	क्रमांक सं० 210	शिव करण के स्थान पर
ग्रुप गत	श्रीमती फाजिल ट्रेनिंग कोर	क्रमांक सं० 233	शिव करण त्रिपाठी पढ़ा जाये ।
क्रमांक सं० 998	सूबेदार मेजर के स्थान पर	ग्रुप गत	गोबन सिंह के स्थान पर
सूबेदार पढ़ा जाये ।	जोड़िये क्रम सं० 955 ए० जे० सी०-87907 ए० सूबेदार शिशोराज सिंह	ग्रुप गत	गोबन सिंह पढ़ा जाये ।
बिज्ञप्ति सं० 8 दृ० दिनांक 12 अगस्त 1988	श्रीमती फाजिल ट्रेनिंग कोर	क्रमांक सं० 244	दी बम्बई इंजिनियर ग्रुप
शीर्षक गत	सूबेदार मेजर के स्थान पर	ग्रुप गत	जे० सी०-69128 ए० के स्थान पर
ग्रुप गत	सूबेदार पढ़ा जाये ।	क्रमांक सं० 244	जे० सी०-69128 डब्ल्यू० पढ़ा जाये ।
क्रमांक सं० 39	भूरा राम बिप्नोई के स्थान पर	ग्रुप गत	दी ब्रिगेड आफ दी गार्ड्स
धूरा राम बिप्नोई पढ़ा जाये	भूरा राम बिप्नोई पढ़ा जाये	क्रमांक सं० 309	जे० सी०-83392 ए० के स्थान पर
क्रमांक सं० 55	कवर सिंह के स्थान पर	ग्रुप गत	जे० सी०-93392 ए० पढ़ा जाये ।
भंवर सिंह पढ़ा जाये ।	कवर सिंह के स्थान पर	ग्रुप गत	दी मैकेनाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेंट
क्रमांक सं० 58	01-08-88 के स्थान पर ।	क्रमांक सं० 329	जे० सी०-84519 वार्ड के स्थान पर
01-03-88 पढ़ा जाये ।	01-08-88 के स्थान पर ।	क्रमांक सं० 329	जे० सी०-84519 ए० पढ़ा जाये ।
क्रमांक सं० 66	ए० ए० यादव के स्थान पर	कार्टिये क्रमांक सं० 330 तथा सम्बन्धित प्रविष्टियां	जे० सी०-66052 ए० के स्थान पर
मारकण्डे सिंह यादव पढ़ा जाये ।	ए० ए० यादव के स्थान पर	क्रमांक सं० 343	जे० सी०-86052 ए० पढ़ा जाये ।
क्रम सं० 82	ए० पी० वसिष्ठ के स्थान पर	ग्रुप गत	दी पंजाब रेजिमेंट
सतपाल वसिष्ठ पढ़ा जाये ।	ए० पी० वसिष्ठ के स्थान पर	क्रमांक सं० 358	जे० सी०-71489 वार्ड के स्थान पर
क्रम सं० 111	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट के स्थान पर	ग्रुप गत	जे० सी०-71480 वार्ड पढ़ा जाये ।
सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट पढ़ा जाये ।	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट के स्थान पर	ग्रुप गत	दी ग्रैनेडियर्स
क्रमांक सं० 112	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट के स्थान पर	क्रमांक सं० 395	जे० सी०-42601 पी० के स्थान पर
सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट पढ़ा जाये ।	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट के स्थान पर	क्रमांक सं० 440	जे० सी०-82601 पी० पढ़ा जाये ।
क्रमांक सं० 133	जे० सी०-103589 के स्थान पर	ग्रुप गत	जे० सी०-96660 ए० के स्थान पर
106589 पढ़ा जाये ।	जे० सी०-103589 के स्थान पर	क्रमांक सं० 408	जे० सी०-98660 ए० पढ़ा जाये ।
क्रमांक सं० 143	जे० सी०-100641 ए० के स्थान पर	ग्रुप गत	दी मराठा लाईट इन्फैन्ट्री
जे० सी०-109641 ए० पढ़ा जाये ।	जे० सी०-100641 ए० के स्थान पर	क्रमांक सं० 409	वसन्त नलवाडे के स्थान पर
क्रम सं० 147	जे० सी०-102056 ए० के स्थान पर	ग्रुप गत	वसन्त घाडगे के स्थान पर
जे० सी०-112056 ए० पढ़ा जाये	जे० सी०-102056 ए० के स्थान पर	क्रमांक सं० 465	वसन्त घाडगे पढ़ा जाये ।
क्रम सं० 155	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट के स्थान पर	ग्रुप गत	दी जाट रेजिमेंट
सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट पढ़ा जाये ।	सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट के स्थान पर	क्रमांक सं० 508	शिव राम सांगवान के स्थान पर
	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट के स्थान पर	क्रमांक सं० 508	शिव राज सांगवान पढ़ा जाये ।
	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट के स्थान पर	क्रमांक सं० 508	दी डांगरा रेजिमेंट
	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट के स्थान पर	क्रमांक सं० 508	जगदीश सिंह 1-2-88 के स्थान पर
	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट के स्थान पर	क्रमांक सं० 508	जगदीश चन्द 1-7-88 पढ़ा जाये ।

क्रमांक सं० 507	जगदीश चन्द 1-7-88 के स्थान पर जगदीश सिंह 1-2-88 पढ़ा जाय ।	क्रम सं० 20	एफ० बी० सिंह के स्थान पर फतेह बहादुर सिंह पढ़ा जाय ।
ग्रुप गत	दी गढ़वाल राईफल्ज	ग्रुप गत	दी मद्रास इंजिनीयर ग्रुप
क्रमांक सं० 518	गंगा सिंह गोसाई के स्थान पर गोविन्द सिंह गोसाई पढ़ा जाय ।	क्रम सं० 25	बी० ए० कृष्णामूर्ति के स्थान पर बेंकटारामा अय्यर कृष्णामूर्ति पढ़ा जाय ।
क्रमांक सं० 524	जे० सी०-117788 ए के स्थान पर जे० सी०-107788 ए पढ़ा जाय ।	क्रम सं० 26	एम० एम० मुद्दु के स्थान पर मैथ्यू मथू कुट्टी पढ़ा जाय ।
ग्रुप गत	दी बिहार रेजिमेंट	ग्रुप गत	दी कोर आफ मिगनरज
जोड़िये क्रम सं० 594 ए० जे० सी० 63763 एल सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट राम बहादुर सिंह 1-4-88		क्रम सं० 153	जे० सी०-60665 एन के स्थान पर जे० सी०-60685 एन पढ़ा जाय ।
ग्रुप गत	3 गोरखा राईफल्ज	ग्रुप गत	आर्मी फिजिबल ट्रेनिंग कोर
क्रम सं० 655	जे० सी०-75111 ए के स्थान पर जे० सी०-75411 ए पढ़ा जाय ।	काटिये क्रम सं० 142 व सम्बन्धित प्रविष्टियां	
ग्रुप गत	आर्मी सर्विस कोर (सप्लाइ)	शीर्षक गत	अवैतनिक रिमानदार/सूबेदार मेजर के रैंक में
क्रम सं० 737	01-07-88 के स्थान पर 01-08-88 पढ़ा जाय ।	ग्रुप गत	दी रेजिमेंट आफ आर्टिलरी
क्रम सं० 740	जे० सी०-85903 डब्ल्यू के स्थान पर जे० सी०-85930 डब्ल्यू पढ़ा जाय ।	क्रम सं० 24	जे० सी०-1105448 वाई के स्थान पर जे० सी०-105448 वाई पढ़ा जाय ।
ग्रुप गत	आर्मी मेडिकल कोर	क्रम सं० 25	जान सिंह के स्थान पर जान चन्द पढ़ा जाय ।
क्रम सं० 813	उम्मेद सिंह के स्थान पर उम्मेद राम पढ़ा जाय ।	क्रम सं० 42	जे० सी०-99795 डब्ल्यू के स्थान पर जे० सी०-99794 पढ़ा जाय ।
ग्रुप गत	आर्मी आर्डनेन्स कोर	क्रम सं० 52	01-08-88 के स्थान पर 01-03-88 पढ़ा जाय ।
क्रम सं० 856	जे० सी०-54876 एफ के स्थान पर जे० सी०-84876 एफ पढ़ा जाय ।	क्रम सं० 55	वाई० एम० राठौर के स्थान पर यदुनाथ सिंह राठौर पढ़ा जाय ।
क्रम सं० 857	01-03-88 के स्थान पर 01-04-88 पढ़ा जाय ।	क्रम सं० 60	आर० के० यादव के स्थान पर राम कुमार यादव पढ़ा जाय ।
ग्रुप गत	कोर आफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनीयर्स	क्रम सं० 64	एम० एम० यादव के स्थान पर मुख्त्यार सिंह यादव पढ़ा जाय ।
क्रम सं० 884	जे० सी०-113111 एम के स्थान पर जे० सी०-113117 एम पढ़ा जाय ।	क्रम सं० 66	के० एम० नाडार के स्थान पर कुमार बेलू सुन्दरम नाडार पढ़ा जाय ।
ग्रुप गत	आर्मी एंजुकेशन कोर	क्रम सं० 70	डी० पी० राव चिट्ठाबालू के स्थान पर दुर्गा प्रसाद राव चिट्ठाबालू पढ़ा जाय ।
क्रम सं० 933	जे० सी०-96340 के के स्थान पर जे० सी०-96340 एक्स पढ़ा जाय ।	क्रम सं० 81	01-08-88 के स्थान पर 01-03-88 पढ़ा जाय ।
ग्रुप गत	कोर आफ मिलिट्री पुलिस	क्रम सं० 99	हरवेल सिंह के स्थान पर हरवेल सिंह पढ़ा जाय ।
क्रम सं० 946	ब्रहमा भोज छेत्री के स्थान पर ब्रहमा धोज छेत्री पढ़ा जाय ।	क्रम सं० 112	01-08-88 के स्थान पर 01-06-88 पढ़ा जाय ।
क्रम सं० 957	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लेफ्टिनेंट के स्थान पर सूबेदार व अवैतनिक लेफ्टिनेंट पढ़ा जाय	क्रम सं० 146	आर० एम० सिंह के स्थान पर राम प्रसाद यादव पढ़ा जाय ।
शीर्षक गत	अवैतनिक लेफ्टिनेंट के रैंक में	क्रम सं० 147	आर० एम० यादव के स्थान पर राम प्रसाद यादव पढ़ा जाय ।
ग्रुप गत	दी रेजिमेंट आफ आर्टिलरी		
क्रम सं० 11	के० एन० एम० कुरुप के स्थान पर के० एन० श्रीधरा कुरुप पढ़ा जाय ।		

क्रम सं० 148	ए०एस० यादव के स्थान पर शमर सिंह यादव पढ़ा जाय।	ग्रुप गत	दी पैराग्राफ रेजिमेंट
क्रम सं० 155	एल०एस० यादव के स्थान पर लाल सिंह यादव पढ़ा जाय।	क्रम सं० 332	बाजा सिंह के स्थान पर बाजा राम पढ़ा जाय।
क्रम सं० 156	दबी लमाक के स्थान पर देवी इमाक पढ़ा जाय।	ग्रुप गत	दी मैकैनाइट इन्फैन्ट्री रेजिमेंट
क्रम सं० 157	जी०एस० राओ के स्थान पर गोपीसेटी नागेश्वरा राओ पढ़ा जाय।	क्रम सं० 334 व इससे संबंधित प्रविष्टियाँ काट दी जाएँ।	
क्रम सं० 159	जे०एस० ग्रेवाल के स्थान पर जमियत सिंह ग्रेवाल पढ़ा जाय।	ग्रुप गत	दी मगया लाइट इन्फैन्ट्री
क्रम सं० 161	जे०सी० 91422 डब्ल्यू के स्थान पर जे०सी० 115621 एल पढ़ा जाय।	क्रम सं० 351	पी०बी० छेत्री के स्थान पर पदम बहादुर छेत्री पढ़ा जाय।
क्रम सं० 162	के०एस० पठानिया के स्थान पर कृष्ण सिंह पठानिया पढ़ा जाय।	ग्रुप गत	दी जाट रेजिमेंट
क्रम सं० 163	के०एस० मादीवाला के स्थान पर कवाथर आनन्दा मदिवाला पढ़ा जाय।	क्रम सं० 358	जे०सी० 11319 एल के स्थान पर जे०सी० 113139 एल० पढ़ा जाय।
क्रम सं० 165	एस०एन० पांडेय के स्थान पर मिथ्या नाथ पांडेय पढ़ा जाय।	ग्रुप गत	दी बिहार रेजिमेंट
क्रम सं० 167	डब्ल्यू एस० दर्दी के स्थान पर वरयाम सिंह दर्दी पढ़ा जाय।	जोड़िये क्रम सं० जे० सी० 100622 डब्ल्यू सुबेदार लाइनम कुर्ज़र 01-04-88	
क्रम सं० 168	आर०एस० गिल्ल के स्थान पर राज सिंह गिल्ल पढ़ा जाय।	ग्रुप गत	3 गोरखा राइफल
क्रम सं० 170	डी०आर०एस० तोमर के स्थान पर दाता राम सि तमर पढ़ा जाय।	क्रम सं० 384	जे०सी० 108615 एम के स्थान पर जे०सी० 108616 एम पढ़ा जाय।
ग्रुप गत	दी बंगाल इंजीनियर ग्रुप	ग्रुप गत	आर्मी सर्विस कोर (मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट)
क्रम सं० 207	शेद कुमार सिंह के स्थान पर शिओ कुमार सिंह पढ़ा जाय।	क्रम सं० 439	जे०सी० 101622 डब्ल्यू के स्थान पर जे०सी० 101642 डब्ल्यू पढ़ा जाय।
क्रम सं० 234	एम०एस० पंछी के स्थान पर मेजर सिंह पंछी पढ़ा जाय।	ग्रुप गत	आर्मी मेडिकल कोर
ग्रुप गत	दि मद्रास इंजीनियर ग्रुप	काटिये क्रम सं० 512 व इससे संबंधित प्रविष्टियाँ	
क्रम सं० 238	पी निराधिलिगम के स्थान पर पानोचामी निराधिलिगम पढ़ा जाय।	ग्रुप गत	आर्मी आर्डीन्स कोर
क्रम सं० 242	एस० एन० अरुणगम के स्थान पर सादप्परी नारायणन अरुणगम पढ़ा जाय।	क्रम सं० 546	जे०सी० 103663 एफ के स्थान पर जे०सी० 103653 एफ पढ़ा जाय।
क्रम सं० 244	मोहम्मद अलि के स्थान पर मोहम्मद अलि पढ़ा जाय।	क्रम सं० 571	जे०सी० 84336 एम के स्थान पर जे०सी० 84346 एम पढ़ा जाय।
क्रम सं० 245	जे०सी० 109373 वाई के स्थान पर जे०सी० 109337 पढ़ा जाय।	ग्रुप गत	दी कोर आफ इलेक्ट्रिकल और मैके- निकल इंजीनियर्स
ग्रुप गत	दी बम्बई इंजीनियर ग्रुप	काटिये क्रम सं० 733 व इससे संबंधित प्रविष्टियाँ	
क्रम सं० 273	जे०सी० 112882 वाई के स्थान पर जे०सी० 112982 वाई पढ़ा जाय।	क्रम सं० 735	दसवारा राओ मिन्धिया के स्थान पर इस्वरा राओ मिन्धिया पढ़ा जाय।
ग्रुप गत	कोर आफ सिगनल	क्रम सं० 796	जे०सी० 80320 के के स्थान पर जे०सी० 80330 के पढ़ा जाय।
क्रम सं० 304 व 324 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियाँ काट दी जाएँ।		क्रम सं० 829	हरबंस लाल चन्द के स्थान पर हरबंस लाल कांभो पढ़ा जाय।
		क्रम सं० 834	01-08-88 के स्थान पर 01-07-88 पढ़ा जाय।
		क्रम सं० 868	जे०सी० 90576 एन के स्थान पर जे०सी० 90775 एन० पढ़ा जाय।
		क्रम सं० 872	जे०सी० 86003 एच के स्थान पर जे०सी० 96003 एच पढ़ा जाय।
		क्रम सं० 883	जे०सी० 116762 एन के स्थान पर जे०सी० 116762 एम पढ़ा जाय।



ग्रुप गत	रिमाउण्ट वेटेरिनरी कोर	क्रम सं० 190	1273784 एफ के स्थान पर
क्रम सं० 922	आर० वी० 7337 पी के स्थान पर		1273784 पी पढ़ा जाय ।
ग्रुप गत	आर० वी० 7437 पी पढ़ा जाय ।	काटियू क्रम सं० 249 व संबंधित प्रविष्टियां	
ग्रुप गत	आर्मी एजुकेशन कोर	ग्रुप गत	दी कोर आफ सिगनल्स
क्रम सं० 926	जे०सी० 112635 के स्थान पर	क्रम सं० 578	6223137 एब के स्थान पर
	जे०सी० 112635 ए पढ़ा जाय ।		6323137 एब पढ़ा जाय ।
ग्रुप गत	इन्टेलिजेंस कोर	ग्रुप गत	दी पंजाब रेजिमेंट
जोड़िये क्रम सं० 953 ए० जे०सी० 107878 एफ सूबेदार करण सिंह 01-07-88		क्रम सं० 647	सरबन लाल के स्थान पर
ग्रुप गत	आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर		सरमन लाल पढ़ा जाय ।
जोड़िये क्रम सं० 974 ए० जे०सी० 124245 के सूबेदार हरबंस सिंह 01-06-88		ग्रुप गत	दी मराठा लाईट इन्फैन्ट्री
शीर्षक गत	अवैतनिक रिसालदार/सूबेदार के रैंक में	क्रम सं० 678	2757687 के स्थान पर
			2757686 के पढ़ा जाय ।
ग्रुप गत	दी रेजिमेंट आफ आर्टिलरी	ग्रुप गत	दी राजपूताना राइफल्स
क्रम सं० 13	01-03-88 के स्थान पर	क्रम सं० 681 तथा इसमें संबंधित प्रविष्टियां काट दी जाए ।	
	01-01-88 पढ़ा जाय ।	ग्रुप गत	दी खोसरा रेजिमेंट
क्रम सं० 32	एच०एस० गिल के स्थान पर	जोड़िये क्रम सं० 722 ए० 3955000 वाई हवनदार चन्ता 01-04-88	
	हरनेक सिंह गिल पढ़ा जाय ।	ग्रुप गत	9 गोरखा राईफल्स
क्रम सं० 37	ए०पी० लिपाठी के स्थान पर	क्रम सं० 880	हरि बहादुर छेत्री के स्थान पर
	अम्बिका प्रसाद लिपाठी पढ़ा जाय ।		हरि बहादुर थापा पढ़ा जाय ।
ग्रुप गत	दी कोर आफ सिगनल्स	ग्रुप गत	आर्मी सर्विस कोर (सप्लाई)
क्रम सं० 54	जे०सी० 158659 ए के स्थान पर	क्रम सं० 932	6642233 के के स्थान पर
	जे०सी० 158689 ए पढ़ा जाय ।		6644233 के पढ़ा जाय ।
ग्रुप गत	वी खोसरा रेजिमेंट	ग्रुप गत	आर्मी आर्डनेन्स कोर
क्रम सं० 100	बधराज के स्थान पर	काटिये क्रम सं० 1192 तथा संबंधित प्रविष्टियां	
	बोध राज पढ़ा जाय ।	क्रम सं० 1221	6991971 ए के स्थान पर
ग्रुप गत	आर्मी सर्विस कोर (सप्लाई)		6891971 ए पढ़ा जाय ।
क्रम सं० 137	जे०सी० 150572 ए के स्थान पर	क्रम सं० 1504	7088249 एम के स्थान पर
	जे०सी० 160572 ए पढ़ा जाय ।		7088249 एन पढ़ा जाय ।
ग्रुप गत	आर्मी आर्डनेन्स कोर	क्रम सं० 1685	01-09-88 के स्थान पर
क्रम सं० 179	के०एस० पुट्टप्पन के स्थान पर		01-08-88 पढ़ा जाय ।
	के०एस० कुट्टप्पन पढ़ा जाय ।	क्रम सं० 1758	स्वामि सिंह के स्थान पर
ग्रुप गत	कोर आफ इलक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर		स्वामी सिंह पढ़ा जाए ।
क्रम सं० 248	जे०सी० 160757 एल के स्थान पर	क्रम सं० 1777	01-03-88 के स्थान पर
	जे०सी० 160753 एल पढ़ा जाय ।		01-04-88 पढ़ा जाय ।
क्रम सं० 251	आर० के० भटाना के स्थान पर	ग्रुप गत	डिफेंस सिग्युरिटी कोर
	आर० के० आता ना पढ़ा जाय ।	काटिये क्रम सं० 1880 तथा संबंधित प्रविष्टियां	
ग्रुप गत	इन्टेलिजेंस कोर	जोड़िये क्रम सं० 1881 1313534 वाई हवनदार एम० मुनिस्वामी 01-07-88	
काटिये क्रम सं० 272 व संबंधित प्रविष्टियां			(सेना विभाग)
विशेष सं० 9 ई० दिनांक 12 अगस्त 1988			शुद्धि पक्ष
ग्रुप गत	दी रेजिमेंट आफ आर्टिलरी	सं० 2186, दिनांक 30-11-1988--भारत के राजपत्र	
क्रम सं० 159	1232280 एन के स्थान पर	सं० 2343/86 में 'नियमित सेना'--'स्थायी कमीशन' के शीर्षक	
	1232280 एन पढ़ा जाए	के अन्तर्गत सब हैडिंग 'मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल के मूल रैंक में	

(समयमान द्वारा) सी० रामालिंगेस्वरा रात्रा (आई०सी०—17962एम) ई०एम०ई० के नाम के पश्चात् राम रंधीर सिंह (आई० सी०—17963एच) इंजीनियर, 28 जून, 1986 का नाम हटा दिया जाय।

ले० कर्त्तल, एम० बी० अतरी  
सहायक सेना सचिव

-----

रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग

(रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन)

शुद्धि पत्र

सं० 2187, दिनांक 23-12-1988— भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के राजपत्र अधिसूचना सं० जो भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 03-12-88 को प्रकाशित हुआ के शीर्षक विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में एम० एल० एन० राव (6285) इंजी (यांत्रिकी) 14-4-1988 के स्थान पर एम० एल० एन० राव (6286) इंजी० (यांत्रिकी) 14-4-88 पढ़े।

एम०एल० अरोड़ा, सहायक निदेशक, कार्मिक

-----

(वायु शाखा)

सं० 2188, दिनांक 14 दिसम्बर 1988—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को उसके नाम के मामले दिखाई गई तारीख से उड़ान (पायलट) शाखा से परिभारिकी शाखा में, स्थायी निम्न चिकित्सा वर्ग में, स्थानान्तरित करने हैं; किन्तु भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० वा०से० मु०/21901/14297-पी० ओ० 3 (डी०)/ 851/ यू० एम०/ डी० (एयर-III) दिनांक 10 अप्रैल 1987 के उपबंधों के अन्तर्गत, उस ब्रांच में इनकी समायोजित वरिष्ठता इस प्रकार होगी मानों इन्हें मूल कमीशन परिभारिकी शाखा में ही प्राप्त हुआ हो।

भारतीय वायुसेना

उड़ान (पायलट) शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट पी०बी० पिम्पलखारे (14297)—21 जुलाई, 1986।

भारतीय वायुसेना

एफ (एन) शाखा

स्क्वाड्रन लीडर पी० के० घोष (11390)—14 जून 1988 (पूर्वाह्न)।

स्क्वाड्रन लीडर जे० एम० जठोल (11842)—10 अगस्त 1988 (पूर्वाह्न)।

सं० 2189, दिनांक 12 दिसम्बर 1988—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को, उनके नाम के मामले दी गई तारीख से स्वेच्छापूर्वक सेवा-निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

भारतीय वायुसेना

बैमा० इंजी० (यांत्रिक) शाखा

1. विंग कमांडर एम० के० मुखर्जी (7849)—31 दिसम्बर 1987 (ए०डी०)

2. विंग कमांडर एन० पी० सिंह (8229)—29 फरवरी 1988 (ए०डी०)

3. विंग कमांडर एस० के० नियोगी (7881)—29 फरवरी 1988 (ए०डी०)

4. स्क्वाड्रन लीडर एम० शर्मा (13527)—31 जनवरी 1988 (ए०डी०)

भारतीय वायुसेना

उड़ान (नेवी) शाखा

1. विंग कमांडर डी०के० चटर्जी (9864)—29 फरवरी 1988 (ए०डी०)

2. विंग कमांडर के०एल० चोपड़ा (7825)—31 मार्च 1988 (ए०डी०)

3. विंग कमांडर पी० विजयन (7470)—29 फरवरी 1988 (ए०डी०)

4. विंग कमांडर के०बी० जार्ज (7466)—31 मार्च 1988 (ए०डी०)

5. विंग कमांडर गुरमीत सिंह (10242)—29 फरवरी 1988 (ए०डी०)

भारतीय वायु सेना

बैमा० इंजी० (यांत्रिक) शाखा

1. ग्रुप कैप्टन पी०बी० हरिकृष्णन (6226)—29 फरवरी 1988 (इयूटी के बाद)

2. विंग कमांडर एन० जी० राठोकर (6418)—31 मार्च 1988 (ड्यूटी के बाद)
3. ग्रुप कैप्टन ए० एन० पंचाबाध (6225)—31 मार्च 1988 (ड्यूटी के बाद)
4. विंग कमांडर एच०के० शर्मा (8276)—31 मार्च 1988 (ड्यूटी के बाद)
5. विंग कमांडर सी० एस० कृष्णमूर्ति (10858)—31 मई 1988 (ड्यूटी के बाद)
6. विंग कमांडर आर० एस० डिल्लों (6667)—31 मई 1988 (ड्यूटी के बाद)

सं० 2190, दिनांक —राष्ट्रपति  
निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :—

#### भारतीय वायुसेना

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर के मूल रैंक में (समयमान)

#### उड़ान शाखा

आर० एस० बाही, बी० च० (9830) एफ (पी) —  
16 अक्टूबर 1988 ।

#### उड़ान (पायलट) शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट से स्क्वाड्रन लीडर के मूल रैंक में  
एन०एस० कादोअन (15025)—10 मार्च 1988

#### भारतीय वायुसेना

#### वैमा इंजी० (यांत्रिकी) शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट से स्क्वाड्रन लीडर के मूल रैंक में  
एस०आर० अणोक (15473)—25 जून 1988

#### वैमा इंजी० (इलेक्ट्रिक) शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट से स्क्वाड्रन लीडर के मूल रैंक में  
एम०एस० रामास्वामी (15456) —25 जून 1988

#### (नौसेना शाखा)

#### नौसेना मुख्यालय

सं० 2191, दिनांक 26-12-1988— राष्ट्रपति निम्न-  
लिखित अफसरों की प्रत्येक के नाम के सामने दिखाई गई तिथि से 5-4-89 तक अथवा अफसर के सेवा-निवृत्त होने अथवा नियमित कर्मचारी के उपलब्ध होने तक (जो भी पहले हो) तदर्थ आधार पर सिविलियन स्टाफ अधिकारी के तौर पर नियुक्त करते हैं :—

1. श्री बी० मतीश कुमार 6-10-1988
2. श्री भगवान सिंह 6-10-1988
3. श्री बिहारी लाल 6-10-1988
4. श्री राम चन्द्र 6-10-1988
5. श्री मूल चन्द 6-10-1988

6. श्री कोमल सिंह 12-10-1988
7. श्री जे० ए० रामामूर्ति 6-10-1988
8. श्री जी० के० पांडे 6-10-1988
9. श्री आर० बी० चौपड़ा 6-10-1988
10. श्री डी० बी० सिंह 6-10-1988
11. श्री ए० के० घीपल 6-10-1988
12. श्री एम० जे० माथ्यू 6-10-1988
13. श्री ए० के० लाराइया 6-10-1988
14. श्री जानकी प्रसाद 6-10-1988
15. श्री मुकुन्दी लाल 6-10-1988
16. श्री मोती लाल 6-10-1988
17. श्री राम स्वरूप 10-10-1988
18. श्री जागे राम 10-10-1988
19. श्री के० सी० राघवन 6-10-1988
20. श्री आर० एस० आनन्द 6-10-1988

2. इनकी नियुक्ति बिल्कुल तदर्थ आधार पर कामचलाऊ व्यवस्था के तौर पर की गई है तथा इन्हें प्रशासकीय कारणों से बिना सूचना दिए प्रत्यावर्तिम (रिवर्ट) किया जा सकता है ।

प० अनन्त कृष्णन, उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

#### (नौसेना शाखा)

सं० 2192, दिनांक 13-12-1988— राष्ट्रपति निम्न-  
लिखित अधिकारियों की उनके नामों के सामने दी गई अवधि के लिए अस्थायी ड्रजिंग मास्टर के पद पर पुनः नियुक्ति के आधार पर, नियुक्त करते हैं :—

- (क) लेफ्टिनेंट कमांडर त्रिलोक सिंह (सेवा-निवृत्त)—  
16 सितम्बर 1988 (पूर्वाह्न) से 30 जून 1993 (अपराह्न) तक ।
- (ख) लेफ्टिनेंट कमांडर प्रताप सिंह (सेवा-निवृत्त)—16 सितम्बर 1988 (पूर्वाह्न) से 31 दिसम्बर 1995 (अपराह्न) तक ।
- (ग) लेफ्टिनेंट कमांडर पी० एन० खनूजा (सेवा-निवृत्त)—  
16 सितम्बर 1988 (पूर्वाह्न) से 30 सितम्बर 1991 (अपराह्न) तक ।
2. वे दो वर्ष के लिए परखाधीन रहेंगे ।

बी० के० ठाकुर, उप निदेशक, कार्मिक

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 21st January 1989

No. 2152, dated 26th December, 1988.—The President is pleased to appoint Shri J. P. Rastogi, Under Secretary, as Senior Analyst (Work Study) in the Ministry of Defence in the pay scale of Rs. 3000-100-3500-125-4500 with effect from the forenoon of 26th December, 1988 till 30th September, 1990 or until further orders, on usual deputation terms.

No. 2153, dated 9th December, 1988.—Consequent on his premature reversion to his parent cadre, the service of Shri S. N. Misra, IDAS, Additional Financial Adviser (Fys), Calcutta, are placed at the disposal of the Office of the Controller General of Defence Accounts, New Delhi, with effect from the afternoon of 30th November, 1988.

G. B. WADAWADIGI, Under Secy.

## ARMY HEADQUARTERS

No. 2154, dated 28th December, 1988.—Approval of the competent authority has been accorded to the appointment of Km Jayshree Galgotia, ACSO, as Civilian Staff Officer on ad hoc basis for the period from 28-9-88 to 4-10-88 against existing vacancy of CSO of AFHQ Civil Service.

2. The above appointment is purely on ad hoc basis as stop gap arrangement and she can be reverted without notice for administrative reasons.

P. ANANTHA KRISHNAN  
Up Mukhya Prashasan Adhikari

## MUKHYA PRASHASAN ADHIKARI KA KARYALYA

No. 2155, dated 23rd December, 1988.—The competent authority has approved the appointment of Shri Bhim Singh, Assistant Civilian Staff Officer (Probationer) to the grade of Assistant Civilian Staff Officer (Group 'B' Gazetted) in a substantive capacity in the Armed Forces Headquarters Civil Service with effect from 1-2-1988 and assigned position above Shri P. Venkateswara Rao and below Shri Uday Moray.

T. S. SIAL

Up Mukhya Prashasan Adhikari (P)

## DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

The undermentioned individuals to be temporary Scientist 'B' on probation for a period of two years in the Establishment and with effect from the date shown against their names :—

- Shri Bapiraju Surampudi CVRDE, Avadi 31-12-87 (FN).
- Shri M. S. Ramana Murthy NPOL, Cochin 30-11-87 (FN).
- Shri K. S. Joseph NPOL, Cochin 18-12-87 (FN).
- Smt. Vandana Mittal SPL, Delhi 03-02-88 (FN).
- Shri S. Sivakumar LRDE, Bangalore 24-12-87 (FN).
- Shri K. Prabhakara Reddy ARDE, Pune 26-2-88 (FN).
- Kum. Jyothi Shankar DRDO, Computer Centre Bangalore 28-01-88 (FN).
- Kum. K. Rajani DRDL, Hyderabad 13-11-87 (FN).
- Shri R. Sunder GTRE, Bangalore 21-01-88 (FN).
- Shri Hari Choudary Chappidi DRDL, Hyderabad 10-11-87 (FN).

No. 2156, dated 21st December 1988.—The President is pleased to make the following appointments :—

The undermentioned individuals to be temporary Scientist 'B' on probation for a period of two years in the Establishment and with effect from the date shown against their names :—

- Shri Anam Charan Sahoo IAT, Pune 03-10-87 (FN).
- Shri R. Sowmianarayanan IAT, Pune 03-10-87 (FN).
- Shri N. V. B. Gangadhara Rao IAT, Pune 06-10-87 (FN).

- Kum. A. BHAGYAMMA IAT, Pune 03-10-87 (FN).
- Shri S. Ravi Babu IAT, Pune 03-10-87 (FN).
- Shri A. K. Srivastava IAT, Pune 03-10-87 (FN).
- Shri M. L. N. Rao IAT, Pune 03-10-87 (FN).
- Shri M. Thirumavalavan SPL, Delhi 11-03-88 (FN).
- Kum. Vijayeta Bagai D.S.C. Delhi 01-11-88 (FN)

Shri Ramachandra V. Jakati GTRE, Bangalore 03-11-88 (FN).

Kum. R. Arundathi ASWAC, Bangalore 02-11-88 (FN).

Shri P. Kothandaraman CVRDE, Avadi Madras 27-04-88 (FN).

Shri B. V. N. Charyulu GTRE, Bangalore 18-01-88 (FN).

Kum. Anney Joseph IAT, Pune 03-10-87 (FN).

Smt. Aruna Tyagi DIPAS, Delhi Cantt. 21-07-88 (FN).

Kum. Sonia Relan DESIDOC, Delhi 27-05-86 (FN).

Shri Abraham Mathew K. CVRDE, Avadi, Madras 26-11-87 (FN).

NARSINGH DASS, Asstt. Dir. (Pers)

No. 2157, dated 16th December, 1988.—The President is pleased to make the following appointment :—

## DEFENCE RESEARCH &amp; DEVELOPMENT SERVICE

Dr. M. Venkatraman, Scientist 'C' (Ad-hoc) to be temporary Scientist 'C' on probation for a period of one year in Naval Chemical & Metallurgical Laboratory, Bombay with effect from 10-10-1988 (FN).

J. B. P. DUBEY, Jt. Dir. (Pers)

No. 2158, dated 8th November, 1988.—The President is pleased to make the following appointments :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

To be 2/Lts wef 19 Dec 87

Dinesh Singh YADAV (IC 47001N) MECH, Devendra SHARMA (IC 47003Y) AC, Padam Singh SHEKHAWAT (IC 47004F) MECH, Chander Vijay Singh (IC 47005K) AC, R Nathawat (IC 47006M) MECH, Ashwani Kumar YADAV (IC 47007P) AC, Mandeep Singh VIJ (IC 47008X) ARTY, Rajesh Kumar UNIYAL (IC 47009A) ENGRS, Anurag Kumar (IC 47010P) EME, Vinayak SAINI (IC 47011X) ENGRS, Tejvir Singh MUNDI (IC 47012A) AC, Deepak MEHRA (IC 47013H) INF, Tapan Kumar DAS (IC 47014L) EME, Rajeev ARORA (IC 47015N) INF, Thomas Thomas T (IC 47016W) SIGS, Deepankar CHAUDHARY (IC 47017Y) INF, Rajinder Singh (IC 47018F) ARTY, Sandip GHAI (IC 47019K) INF, Dinesh Singh RANA (IC 47020Y) INF, Rajadhyaksha Yogesh Balkrishna (IC 47021F) INF, Arvind Kumar ABROL (IC 47022K) AOC, Navneet Singh SARNA (IC 47023M) ARTY, Ram Gopal SHUKLA (IC 47024P) ARTY, Vikas GROVER (IC 47026A) ARTY, Ajay KALIA (IC 47027H) ARTY, Rajmohan (IC 47028L) SIGS, Bhagat Prakash Kamal (IC 47029N) INF, Vikram M. DATE (IC 47030H) INF, Arun Pratap Singh RAJURA (IC 47031L) INF, Pratik SHARMA (IC 47032N) INF, Sanjay THAKUR (IC 47033W) INF, Dipender Singh RAWAT (IC 47034Y) ENGRS, Pravin P SHINDE (IC 47035F) INF, Deepak GARG (IC 47036K) INF, Brahm Prakash YADAV (IC 47037M) AOC, Surendra Nath TIWARI (IC 47038P) INF, Sarwan Singh (IC 47039X) ASC, Sharad Bikram Singh (IC 47041P) MECH, ATTU Venkata Hari Prasad (IC 47042X) INF, Sangram Shahaji MOHITE (IC 47044H) INF, Ashok Kumar BHUYAN (IC 47045L) ARTY, Shailendra MALIK (IC 47046N) EME, Jai Singh YADAV (IC 47047W) INF, Rajesh KHARB (IC 47048Y) INF, Jectender SHARMA (IC 47049F) SIGS, Gurbir Singh SARNA (IC 47050W) INF, Krishna Raj (IC 47051Y) ARTY, Dharmender Singh YADAV (IC 47052F) INF, Mohan Singh (IC 47053K) INF, Hardeep Singh (IC 47054M) ARTY, Ashish SHARMA (IC 47055P) ARTY, Mukesh AGGARWAL (IC 47057A) ARTY, Satbir Singh (IC 47058H) INF, Ajay BHATIA (IC

47059L) EME, Nikesh Nandan (IC 47060A) ARTY, Vikash SHARMA (IC 47061H) ARTY, Alex JACOB (IC 47062L) INF, Sanjay SHARMA (IC 47063N) ARTY, Manoj NATARAJAN (IC 47064W) INF, Arvinder Singh BHULLAR (IC 47065Y) ASC, Sanjay SHARMA (IC 47066F) SIGS, Pawan Singh SAMYAL (IC 47067K) SIGS, Sukhvinder Singh KHERA (IC 47069P) ENGRS, Abhijit Madhav BAPAT (IC 47070K) INF, Kamal Singh BHADWAL (IC 47071M) ASC, Ravindra Pratap Singh (IC 47072P) INF, Sanjeev TYAGI (IC 47073X) ASC, Kulwant Singh (IC 47074A) ARTY, Vanteru Siva Kota REDDY (IC 47075H) ARTY, Rakesh KAPOOR (IC 47076L) AC, Varinder Singh (IC 47077N) INF, Maneesh Chandra (IC 47078W) ENGRS, Sanjay SETHI (IC 47079Y) AOC, Vikram Jeet Singh (IC 47080N) INF, Har Roop Inder Singh BRAR (IC 47081W) INF, Deepinder Singh SAINI (IC 47082Y) INF, Premvir Singh SANGWAN (IC 47084K) ARTY, Sharad KAKU (IC 47085M) ARTY, Avadhut DESHPANDE (IC 47086P) SIGS, Rajesh Kamal SHARMA (IC 47087X) ARTY, Patrayya G SUBBAPURMATH (IC 47088A) ARTY, Surendar Singh (IC 47089H) ARTY, Deepak THAPA (IC 47090X) INF, OM Prakash RANA (IC 47092H) INF, Ushnisha JAITLEY (IC 47093L) INF, Sandeep SUDHERA (IC 47094N) ENGRS, Atul AJMANI (IC 47095W) SIGS, Sanjay Kumar VIDYARTHI (IC 47096Y) ENGRS, Jagroop Singh (IC 47097F) ARTY, Kevin Augustine DESOUZA (IC 47098K) EME, Rajesh Kisanrao GAIKWAD (IC 47099M) INF, Sanjay Kumar KAUSHAL (IC 47100W) AC, Maneesh GOSAIN (IC 47101Y) ASC, Suchiter SHARMA (IC 47102F) INF, Sarpreet Singh BENIPAL (IC 47103K) ASC, Sanjay Kumar KARWAL (IC 47104M) EME, Umesh Chandra RAI (IC 47106X), Ratandeep DATTA (IC 47107A) INF, Deepak KOHLI (IC 47108H) ARTY, Vineet BHATTIA (IC 47109L) SIGS, Vishal MEHTA (IC 47110A) ARTY, Narender Singh YADAV (IC 47113N) INF, Ranjit Singh NATT (IC 47114W) ASC, Prabir BARIK (IC 47115Y) INF, Kasirajan Sankarapandian Kumaresan (IC 47117K) INF Ravi SHAH (IC 47118M) INF, Anil Kumar BK (IC 47119P) AC, Bhushan Lal (IC 47120K) INF, Anmol SOOD (IC 47121M) INF, Sanjoy MUKHERJEE (IC 47122P) SIGS, Jatinder Singh DHILLON (IC 47123X) ARTY, Aravind P MULIMANI (IC 47125H) ARTY, Praveen MATHUR (IC 47126L) ENGRS, Ajay TOMAR (IC 47127N) ASC, Arun YADAV (IC 47128W) INF, Anupam JAIN (IC 47129Y) ARTY, Deepak KUNDRA (IC 47131W) ARTY, Amit SOOD (IC 47132Y) EME, Avinash Singh BERRAR (IC 47133F) INF, Vikram Singh (IC 47134K) ASC, Ajay BAKSHI (IC 47138A) INF, Pushendra Pal Singh (IC 47139H) INF, Raj Kumar ATTRI (IC 47141A) AOC, Ravinder DHANKHAR (IC 47142H) EME, Sumit TALWAR (IC 47144N) ARTY, Tamal Kumar MUKHERJEE (IC 47145W) INF, Mandip Singh GILL (IC 47146Y) ARTY, Shireesh BHATTIA (IC 47147F) EME, Anjan Kumar DUTTA (IC 47148K) ASC, Shubha MITRA (IC 47149M) ASC, Pankaj Singh (IC 47150F) INF, Vikram YADAV (IC 47151K) ARTY, Iqbal Singh (IC 47152M) INF, Ranjeeb SANYAL (IC 47153P) SIGS, KHANDEKAR Sanjay B (IC 47154X) INF, Umesh Chandra BHATT (IC 47155A) AOC, Devinder Pal Singh (IC 47156H) INF, G Sree Rama RAO (IC 47157L) INF, Jaya Kumar S (IC 47158N) ARTY, Joginder Kumar (IC 47159W) INF, Pravesh Kumar SHARMA (IC 47160L) ARTY, Kunal KASHYAP (IC 47161N) ARTY, Subhankar ROY (IC 47162W) ARTY, Shahzad Salim DURRANI (IC 47163Y) ARTY, Ajay KADIAN (IC 47164F) INF, Sanjay SHARMA (IC 47166M) ENGRS, Vijay Kumar SHARMA (IC 47167P) SIGS, Niropo CHANDRAN (IC 47168X) ARTY, Joydeep CHATTERJEE (IC 47170P) INF, Ajay Pal Singh RANDHAWA (IC 47171X), ARTY, Balveer Singh DHINGRA (IC 47172A) SIGS, Nikunj GOEL (IC 47174L) MECH, Rajesh SHARMA (IC 47175N) AOC, MR Raveendran NAIR (IC 47176W) ENGRS, Alok BERI (IC 47177Y) ARTY, Suresh Kumar YADAV (IC 47178F) INF, Vijay Pal Singh (IC 47179K) AOC, Dheeraj Singh RAGHUWANSHI (IC 47180Y) INT, Sanjay Prasad GUPTA (IC 47181F) INF, Anil Kumar GULIA (IC 47182K) INF, PHANSALKAR Devdutta Shrikant (IC 47184P) AC, Mohun Singh (IC 47185X) INF, Shantomu ROY (IC 47186A) EME, Srinder Pal Singh (IC 47188L) INF, Mrutyunjay S YARNAL (IC 47191L) ARTY, Rakesh Kumar Singh (IC 47192N) INF, Dinesh Kumar MALHOTRA (IC 47193W) INF, Joginder Singh TANWAR (IC 47194Y) INF, Sahjiv Dayal MATHUR (IC 47195F) EME, RPS GILL (IC 47196K) ARTY, Jitendra Avinash, SAHASRABUDHE (IC 47198P) ARTY, Alok JOSHI (IC 47199X) INF, Dinesh R MUDRI (IC 47200F) ASC, Rama

Kanta BARMAN (IC 47202M) ARTY, PM Brindavan Lal (IC 47203P) INF, Venkatesh M NAIK (IC 47204X) ASC, Gajendra Singh SAREEN (IC 47205A) INF, Nirmaljit Singh MANN (IC 47206H) AOC, Anil NEGI (IC 47207L) ENGRS, Ajay JOSHI (IC 47209W) INF, Suneet MALIK (IC 47210L) SIGS, Tejinder Kumar THAPAR (IC 47211N) EME, Ranjit Singh MALIK (IC 47212W) ARTY, Ashok Kumar (IC 47213Y) ENGRS, R Srinivas (IC 47214F) ARTY, Sanjay Kumar JAIN (IC 47215K) AOC, Humayun MIRZA (IC 47216M) INF, Pramod Kumar RAWAT (IC 47217P) INF, Narender Singh PANWAR (IC 47219A) ARTY, Amit (IC 47220P) EME, G Mathialagan (IC 47221X) ARTY, Anjan Kumar MUKHOPADHYAYA (IC 47222A) SIGS, Paramesh SARMA (IC 47224L) INF, Rahul Singh (IC 47226W) MECH, Pramod KAUSHIK (IC 47227Y) INF, Pravinkumar G SATHVARA (IC 47228F) ENGRS, Dalwinder Singh (IC 47229K) INF, Bhupinder Singh DHILLON (IC 47230Y) INF, Manjeet Singh (IC 47231F) SIGS, Devendra Pal (IC 47232K) EME, Someshwar Singh SINSINWAR (IC 47233M) INF, K Ramesh Kumar (IC 47235X) EME, Harpreet Singh (IC 47236A) ARTY, Verendra Kumar SHARMA (IC 47237H) ASC, Shailendra P BHALEKAR (IC 47238L) ARTY, Vijaykumar Parshuram ADSULI (IC 47240H) INF, Lal Vivek Raj Singh (IC 47241L) INF, Jogender Singh LAKRA (IC 47242N) AC, Baby CM (IC 47243W) AC, Ajai GAUTAM (IC 47245B) AOC, Kanwar Bir Singh (IC 47246K) ARTY, Peeyush PANDEY (IC 47247M) INF, Sandesh SHARMA (IC 47248P) SIGS, Mannu CHOPRA (IC 47249X) AOC, P Kesavadasan (IC 47250M) INF, Shashikant Yashwant JADHAV (IC 47251P) INF, Randeep Pal Singh WARAICH (IC 47252X) INF, Gajendra JOSHI (IC 47253A) INF, Kuldip Singh BIDHAN (IC 47254H) ARTY, Shridhar B KULKARNI (IC 47256N) EME, Kanwar Jit Singh MAYAL (IC 47257W) ARTY, Avinash RAWAT (IC 47258Y) AOC, Anurag ASTHANA (IC 47260W) SIGS, Prasanta Kumar RAY (IC 47262F) ARTY, Rajeev THAKUR (IC 47263K) INF, Karandeep Singh (IC 47264M) INF, Chaudhari Ganpat Maruti (IC 47265P) ENGRS, MG Vijaya Kumar (IC 47266X) ENGRS, Braj Raj TIWARI (IC 47268H) ASC, Gurjiwan Singh BHATTI (IC 47269L) INF, Shivanandan SHARMA (IC 47270A) ARTY, Harjinder Singh (IC 47271H) INF, Rajbir Singh VIRK (IC 47272L) ARTY, Ashok Kumar Singh (IC 47273N) INF, Vivek KAUL (IC 47276F) MECH, Sanjeevan Singh GULERIA (IC 47277K) INF, Surya Pal Singh RAWAT (IC 47278M) INF, Hemant Kumar (IC 47279P) EME, Harmanjit Singh CHOPRA (IC 47280K) INF, Jaswant Singh (IC 47281M) SIGS, Sandeep NAGRATH (IC 47282P) AC, Jasmeet Singh MAHENDRU (IC 47283X) SIGS, Jasbir Singh BOPARAI (IC 47284A) ARTY, Kaushik SIRCAR (IC 47285H) INF, Saurabh KALA (IC 47288W) ENGRS, Govind Singh VERMA (IC 47289Y) ASC, Daljinder Singh NAYYAR (IC 47290H) INF, Chaudhry Rajinder Kumar SEJWAL (IC 47291W) INF, Rajeev SETHI (IC 47292Y) ARTY, Baljeet Singh BAJWA (IC 47293F) ARTY, Rajeev Singh (IC 47294K) INF, Prem Singh KHARWAL (IC 47295M) ASC, Dinesh Kumar SHARMA (IC 47296P) MECH, Aditya BHAGWAT (IC 47297X) SIGS, Ravindra Singh (IC 47298A) INF, Sushobit KAMRA (IC 47300M) EME, Nagender Singh THAKUR (IC 47302X) INF, Naresh Singh CHAUHAN (IC 47303A) INF, Ram Dhan Singh (IC 47304H) ASC, Sanjay JETHI (IC 47305L) AOC, Sabuj Kumar PANDA (IC 47306N) AC, Sundergopal Ravichander (IC 47307W) AC, Ranbir Singh YADAV (IC 47308Y) ASC, Jagdish Singh (IC 47309F) AOC, Manoj JAIN (IC 47310W) EME, Bashir Ahmed (IC 47311Y) INF, Varinder Singh (IC 47312F) EME, P Raghu Raman (IC 47313K) MECH, Kanwaljit Singh RALHI (IC 47315P) ARTY, Deepak Ranjan SINHA (IC 47316X) ENGRS, Ravindra Kumar PATHAK (IC 47317A) SIGS, Pritpal Singh (IC 47321H) INF, Parminderjit Singh (IC 47322L) INF, Vinod BHADU (IC 47324W) INF, Sunil PARMAR (IC 47325Y) INF, Deepak Singh (IC 47326F) ARTY, Kunga TSHERING SHERPA (IC 47327K) ARTY, Raj Kumar JASAIWAL (IC 47328M) INF, Ashutosh AHLUWALIA (IC 47329P) ARTY, Ujjwal Prakash (IC 47330K) SIGS, Devender Kumar YADAV (IC 47332P) ENGRS, Sandeep CHAUDHARY (IC 47333X) SIGS, Harish KATOCH (IC 47334A) AC, Alankar BHARDWAJ (IC 47335H) ASC, T THOMAS (IC 47336L) ASC, Dadhanja Sanjay Kumar Gopaldas (IC 47337N) ARTY, Gautam NANDY (IC 47338W) INF, Ascent KUKREJA (IC 47339Y) AC, Vikram HEBLE (IC 47340N) ASC, Brijesh Kumar DHANKHAR (IC 47345M) INF, Gurpreet Mohan Singh BINDRA (IC 47346P) ARTY, Vikram UPpal (IC 47347X) ARTY,

Anurag GUPTA (IC 47348A) INF, Rajesh TYAGI (IC 47351A) INF, Debasis MUKHOPADHYAY (IC 47353L) ENGRS, Gurbaksh Singh SANDHU (IC 47354N) INF, Jagdish Chandra PAII (IC 47355W) ENGRS, Harinder Preet Singh (IC 47356Y) SIGS, Navin Rai MAGGO (IC 47357F) EME, Rahul ROY (IC 47358K) ARTY, Sunil SETH (IC 47361K) AC, Inder Mohan Singh (IC 47362M) INF, Manish KAPOOR (IC 47364X) ENGRS, Sanjay SRIVASTAVA (IC 47365A) ARTY, Samir Singh (IC 47367L) ARTY, Shri Bhagwan SHARMA (IC 47368N) SIGS, Kanwaljeet Singh TALWAR (IC 47370L) INF, Raj Rishi SHARMA (IC 47372W) ARTY, PANICKER Thomas PG (IC 47373Y) AC, Prahlad Kishan JETLEY (IC 47374F) INF, Shankar Singh (IC 47375K) INF, Jose KURIAN (IC 47376M) ARTY, Rahul Chandra (IC 47377P) ARTY, Sanjay BHUSHAN (IC 47378X) INT, Umesh Kumar PANT (IC 47379A) EME, Jagnar Singh (IC 47383H) ARTY, Arun MALHOTRA (IC 47384L) ASC, Rajender Singh SHEORAN (IC 47385N) ASC, Santosh KM (IC 47386W) AOC, Surinder Kumar SHARMA (IC 47387Y) INF, Amitava MUKHERJEE (IC 47389K) ARTY, Arvind TOMAR (IC 47390Y) INF, Sanjay LANGEH (IC 47393M) ASC, Rohit SINGHAL (IC 47395X) INF, Dillip Kumar ACHARYA (IC 47396A) INF, Vinay Kumar GUPTA (IC 47397H) INF, Kuldeep YADAV (IC 47400X) EME, M Kishore BULLIAPPA (IC 47405W) INF, Birbal Singh (IC 47407F) INF, Vijay DHAWAN (IC 47408K) AOC, Sanjay BAWEJA (IC 47410F) INF, Jagjit Singh SANDHU (IC 47411K) INF, Prabhakar Singh GAUTAM (IC 47412M) ARTY, Atul BHANDARI (IC 47413P) ASC, Kailash Prakash MALIK (IC 47414X) ENGRS, Yogesh Chandra LOHUMI (IC 47415A) INF, Uttam Kumar SAHA (IC 47417L) ARTY, Jewel ANTONY (IC 47418N) AOC, Vikash RANJAN (IC 47419W) ARTY, Shivraj Singh RATHORE (IC 47420L) INF, Khem Prasad (IC 47421N) ARTY, SHAVADE Nandakumar Janardan (IC 47423Y) IF, Jaswant Singh CHAUHAN (IC 47424F) INF, Dinesh SONE (IC 47425K) AOC, Anil Kumar PATHANIA (IC 47426M) INF, Sushil S KULKARNI (IC 47429A) AOC, Hemant Saroch (IC 47431X) INF, Bhagwan Singh SHEKHAWAT (IC 47433H) ARTY, Arun Narain MATHUR (IC 47434L) ARTY, Rajesh JAGTAP (IC 47435N) SIGS, Gautam MAJUMDAR (IC 47436W) AC, Krishna Kumar Singh (IC 47438F) INF, Deepak CHATURVEDI (IC 47443M) ASC, Dharam Pal (IC 47444P) INF, Sanjay GHILLDIYAL (IC 47446A) AC, Chandi Prasad SHARMA (IC 47450H) SIGS, Sanjiv Singh TOMAR (IC 47453W) ARTY, Harendra Singh (IC 47454Y) INF, Yash Pal BANWAIT (IC 47455F) SIGS, Om Prakash CHOUBEY (IC 47456K) ASC, Vishal RAI (IC 47457M) AOC, Manreet Singh BRAR (IC 47458P) ARTY, Praveen Singh (IC 47460M) INF, Arvind S GILL (IC 47462X) INF, Rajit Singh BABBAL (IC 47463A) ARTY, Vimal KAPOOR (IC 47464H) MECH, Sanjeev Singh (IC 47465L) INF, R Arun (IC 47468Y) ARTY, Dinkar HITESHI (IC 47469F) EME, Vivek JHANI (IC 47471Y) ASC, Anant NIRANJAN (IC 47472F) EME, Surinder Singh (IC 47473K) INF, S. Vijayanand BALAJI (IC 47475P) ARTY, Rajnish MATHUR (IC 47476X) INF, M Julius GEORGE (IC 47477A) ENGRS, Avinash MULLICK (IC 47479L) INF.

## (ARMY BRANCH)

No. 2159, dated 20-12-88.—The President is pleased to make the following appointments :—

## (REGULAR ARMY)

## SHORT SERVICE COMMISSION (ON PROBATION)

To be 2 Lts

1. The undermentioned are granted Short Service Commission (On Probation) for a period of 5 years w.e.f. 5th March, 1988 under the provisions of Special Army Instruction 11 of 64 as amended. Their Short Service Commission (On Probation) is confirmed from the same date consequent on the completion of the probationary period :—

Jagmohan Singh (SS-33245W) Arty, Abhimanyu Sindhu (SS-33247F) Mech Inf, Devindar Kumar (SS-33249M) Inf, Rathna Kumar Adapa KR (SS-33251K) Inf, Sukhcharan Singh Rai (SS-33254X) Inf, Ram Mahar Singh (SS-33255A) AOC, Narendra Singh Pal (SS-33256H) Inf, Anoop Singh Jakhar (SS-33257L) Arty, Shashi Kant Tiwari (SS-33258N) Inf, K Prabhakar Hebbar (SS-33261N) Sigs, Ravindra

Kumar Singh (SS-33262W) Inf, K Balaji Kasi Raja (SS-33263Y) INF, Sunil Yadava SS-33266M) Arty, RC Srikanth (SS-33268X) Arty, Prabudh Sharma (SS-33270P) Arty, Maulis Chandra (SS-33271X) Engr, Devadas Padmagiriswaran (SS-33268X) Arty, Prabudh Sharma (SS-33270P) Arty, Kumar (SS-33274L) EME, Tajinder Kumar MP (SS-33275N) Sigs, Raju Singh (SS-33276W) Engr, Jatinder Singh Dhawan (SS-33277X) EME, Vikas Rai Bhatnagar (SS-33278F) Sigs, Jitender Mohan Pathania (SS-33279K) Arty, Vibhai Mansingh (SS-33280Y) Arty, Varinder Singh Sharawat (SS-33284P) Inf, Robin George Abraham (SS-33286A) Inf, Hitesh Chandel (SS-33288L) Inf, Balraj Sardana (SS-33289N) Arty, Munish Sharma (SS-33290H) Arty, Varghese George (SS-33291L) Arty, Hegde Goutham Radhakrishna (SS-33293W) AOC, Avinash Madhukar Shirwalkar (SS-33294Y) Engrs, Vivek Misra (SS-33295F) Arty, Indra Kumar Lal (SS-33296K) AOC, Ratnakar Rajesh Yashwant (SS-33300F) Arty, Deep Chand Dagar (SS-33302M) AOC, KP Prabhakar (SS-33303P) EME, Jaideep Mookerjee (SS-33305A) Arty, V Sriram (SS-33306H) Inf, Kuldip Singh Sandhu (SS-33307L) Arty, Parveen Kumar Sharma (SS-33309W) Inf, Hardev Singh (SS-33310L) Arty, Harlal Singh Kharinta (SS-33312W) ASC, JS Bhardwaj (SS-33313Y) AOC, Rajesh Kumar Sharma (SS-33314F) EME, Gurbrindra Singh Bath (SS-33315K) AC, Sanjeev Kumar Sharma (SS-33317P) Mech Inf, Gaurare Kantar (SS-33320P) AOC, Manish Khanna (SS-33322A) Arty, Gian Prakash Yadav (SS-33323H) Inf, Chand Pathak (SS-33324L) Arty, Somdutt Gurjer (SS-33325N) Engr, Dubey Rakesh Kumar Ramchander (SS-33326W) Engr, Pasupat Pratap Singh (SS-33327Y) Arty, AD Bedarkat (SS-33328F) AOC, Ram Mani Pandey (SS-33329K) AC, Sunil Sharma (SS-33330Y) Arty, Ravi Misra (SS-33331F) Inf, Podapati Nagaraja (SS-33332K) AOC, Parvez Sayeed Mohammad (SS-33333M) Arty, Jag Mohan Singh (SS-33334P) Inf, Balakrishnan Pokhariyal (SS-33335X) EME, BS Rajmohan (SS-33336A) Arty, Rajeev Jaiswal (SS-33337H) Sigs, Sarabjit Singh (SS-33338K) Inf, Om Prakash Ahlawat (SS-33339N) AOC, Naresh Kumar Gambhir (SS-33340H) Inf, Peeyush Chander (SS-33341L) Arty, Munin Sarma Bordoloi (SS-33344Y) Arty, K Venkateswara Varma (SS-33350M) EME, Parambir Singh (SS-33352X) Arty, Vikrant Singh (SS-33353A) Mech Inf, NG Mehta (SS-33354H) Inf, Sanjay Mathur (SS-33355L) EME, Sanjeev Kumar Singh (SS-33358Y) AC, Vivek Prakash Singh (SS-33359F) Arty, N Narendra Kumar (SS-33360W) Arty, Mario Agnello (SS-33362F) Arty, Mishra Chandraprakash Suraj Narayan (SS-33363K) Sigs, Sharma Rakish Kumar Brahmdav (SS-33364M) Arty, Praveen Dhawan (SS-33366X) ASC, Jangbir Singh Rangji (SS-33370A) Arty, Ajay Kumar Singh (SS-33371H) Inf, Rustom am Ginnwala (SS-33372L) Arty, Ajit Dhaka (SS-33373N) Arty, Sarvdeep Singh Grewal (SS-33375Y) ASC, Shaji Kumar Satyapalan (SS-33378M) Arty, Anil Sehgal (SS-33379P) AOC, Khushru Meherji Mistry (SS-33384A) Arty, Sudhir Kumar Malik (SS-33386L) Arty, Gurjit Singh Multani (SS-33387N) Inf, Naveen Sharma (SS-33388W) Arty, Shyam Bihari Singh (SS-33389Y) Inf, Anand Kumar (SS-33390N) AOC, Gautam Subbiah (SS-33392Y) Inf, Sebastian MS (SS-33393F) Engr, Sanjay Kumar Thakur (SS-33394K) AOC, Shambhu Bhat D (SS-33396P) Engr, Hemant Singh Rajawat (SS-33397X) Inf, Meetinder Singh Sandhu (SS-33399H) AOC, Murali VG (SS-33401P) Engr, Sandeep Negi (SS-33403A) Arty, Awtar Singh Pawar (SS-33404H) EME, Ebenezer Karunakaran (SS-33405L) AOC, Pranjal Kumar Das (SS-33406N) Arty, Sanjeev Verma (SS-33407W) Arty, S Ravi Shankar (SS-33411Y) Sigs, Kanwarjeet Guleria (SS-33412F) Arty, Deepak Murari (SS-33413K) Arty, Pankaj Saxena (SS-33417A) Inf, Vikram Jit Singh Talwar (SS-33418H) AOC, Rajendra Bhanj (SS-33419L) AC, and Shikhar Jauhari (SS-33426F) Arty.

Y. C. GUPTA,

Lt Col

AMS 8B

## CANTEEN STORES DEPARTMENT

No. 2160, dated 7-12-88.—The President is pleased to confirm the following Group 'A' Officers in the grade of Manager Grade-I/Section Officer in the Pay scale of Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300 with effect from the date shown against their names :—

PN-0076, Shri MI Sarkar, 11 Nov 85.

PN-0075, Shri KP Singh, 10 Nov 85.

PN-0111, Shri PC Arya, 05 Jan 84.  
 PN-0466, Shri Anand Vohra, 01 Jun 85.  
 PN-0411, Shri MC Kotian, 01 Jun 85.  
 PN-0243, Shri KS Bedi, 01 Jun 85.  
 PN-0473, Shri SU Ullal, 01 Jun 85.

ANIL KUMAR,  
 Under Secy.

No. 2161, dated 7-12-88.—The undermentioned Ex JCOs are re-employed on the active list in the rank and from the dates specified :—

#### REGULAR ARMY

##### DEFENCE SECURITY CORPS

In the rank of Subedars

Subedar Debjun Thapa (JC-109221H), Formerly CMP, 04 May 1987.

Subedar Bishamber Singh (JC-66197F), Formerly Jak Rifles, 16 May 1987.

Subedar Rattan Chand (JC-109176F) Formerly Jak Rifles, 05 Sep 1987.

Subedar Uttam Singh (JC-78032P) Formerly ASC (MT), 05 Sep 1987.

Subedar Resham Singh (JC-101112F) Formerly Para Regt, 04 Jan 1988.

In the rank of Naib Subedar

Naib Subedar Juglal Singh Yadava (JC-108222Y) Formerly Artillery 05 Jan 1988

T. B. NAIR,  
 Desk Officer

No. 2662, dated 20-12-88.—The President is pleased to confirm the undermentioned officer on completion of his probationary period :—

#### TERRITORIAL ARMY

##### (TERRITORIAL COMMISSION)

To be 2/Lieut

M. Aruchamy (TA-41919) Infantry, 13 August 1984.

Manjit Singh Kataria (TA-41839) Infantry, 24 October 1983.

Sagar Das Gupta (TA-41905) Infantry, 05 April 1984.

2/Lt Khazan Singh Baloda (TA-41798) Engrs, 16 September 1983.

2/Lt Subhash Chander Verma (TA-41807) Engrs, 19 September 1983.

2/Lt Braham Datt Yadav (TA-41790) Engrs, 16 September 1983.

2/Lt Nandkumar Damodar Deokule (TA-41809) ASC, 19 September 1983.

Sutinder Bhushan (TA-41826) Infantry, 09th Sep 1983.

Ramesh Chandra Maharana (TA-41836) Infantry, 15th Sep 1983.

H. D. SINHA,  
 Under Secy.

No. 2163, dated 29-11-88.—The President is pleased to make the following Promotions :—

#### REGULAR ARMY

##### PERMANENT COMMISSION

Major to be Substantive Lt Col (By Time-Scale)

E. J. George (IC-23646X) Engrs., 15th Jun 1988.

LT COL S B ATRI

Assistant Military Secretary

#### DEPARTMENT OF DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Defence Research & Development Organisation)

No. 2164, dated 27-12-88.—The President is pleased to make the following promotion (copies enclosed) :—

#### OFFICERS PERMANENTLY SECONDED TO DRDO

GP Capt to be Acting Air Cmde

R Krishnamurthy (5538) AE (M), 30-03-87.

M Salahuddin (5827) AE (M), 06-04-87.

TC Dahra (5943) AE (M), 09-06-87.

R Sampath (5402) AE (M), 25-05-88.

BB Adlakha (5731) LGS, 26-05-88.

BB Appachu (5424) AE (M), 01-07-88.

M. L. ARORA,  
 Asstt Director Pers.

No. 2165, dated 16-12-88.—The President is pleased to make the following promotion :—

#### DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT SERVICE

Dr. Inderjit Makhija, Scientist 'F' of Research and Development Headquarters, Ministry of Defence, New Delhi to be officiating Scientist 'F' in the same Headquarters with effect from 07-12-1988 (F/N).

J. B. P. DUBEY,  
 Joint Director (Pers.)

No. 2166, dated 30-11-88.—The President is pleased to make the following promotion :—

#### REGULAR ARMY

##### PERMANENT COMMISSION

Major to be substantive Lt Col (By Time-Scale)

Ram Randhir Singh (IC-17963H) Engrs, 28th Jun 1986.

LT COL S B ATRI

Assitant Military Secretary

No. 2167, dated 16-12-88.—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

##### MILITARY NURSING SERVICE

##### (PERMANENT COMMISSION)

Lieut to be capt

Miss TN Rynjah NR-16523, 04-04-85.

Miss Usha Devi, NR-16529, 04-04-85.

Miss Malathi Rao, NR-16817, 04-04-85.

Miss Kamlesh Singh, NR-16818, 04-04-85.

Miss Thressia Celine, NR-16820, 04-04-85.

Miss Aneyamma Joseph, NR-16821, 04-04-85.

Mrs EK Mallika, NR-16824, 04-04-85.

Miss Shyamali Sen, NR-16827, 04-04-85.

Mrs Victoria CX, NR-16828, 04-04-85.

Mrs Leela TG, NR-16830, 04-04-85.

Miss TP Albert, NR-16831, 04-04-85.

Miss Rosaly Mathew, NR-16833, 04-04-85.

Miss Parminder Kaur NR-17081, 04-07-85.

Miss S Lakshmi NR-17082, 04-07-85.

Miss Soluchana PN NR-17087, 04-07-85.

Miss Kanakavalli NR-17088, 04-07-85.

Mrs Mariamma George NR-17089, 04-07-85.

Miss Mary S Konnath NR-17090, 04-07-85.

Mrs Jigi Joseph NR-17072, 04-07-85

Mrs N Nalinia Kumari NR-17073, 04-07-85.  
 Mrs S Elizabeth Kalaichelvi VI NR-17078, 04-07-85.  
 Miss Sarasvathi Amma VK NR-17079, 04-07-85.  
 Miss Letha A NR-17080, 04-07-85.  
 Mrs Lakshmi G NR-16756, 04-04-85.  
 Miss Uma NR-16757, 04-04-85.  
 Mrs Soubhagamma NR-16758, 04-04-85.  
 Miss MM Saramma NR-16759, 04-04-85.  
 Miss P Rama Devi NR-16761, 04-04-85.  
 Miss PR Ramani NR-16762, 04-04-85.  
 Miss Jolly Chacko NR-16768, 04-04-85.  
 Miss KR Devaki NR-16770, 04-04-85.  
 Miss Fatima Wilson NR-16771, 04-04-85.  
 Miss Harsinder Kaur NR-16773, 04-04-85.  
 Mrs Balwant Kaur NR-16775, 04-04-85.  
 Mrs VS Baby NR-16711, 04-04-85.  
 Miss Shanta Sutar NR-16714, 04-04-85.  
 Miss Rema Devi BM NR-16715, 04-04-85.  
 Miss Kikkiliyamma CA NR-16721, 04-04-85.  
 Miss P Rekha NR-16723, 04-04-85.  
 Miss SJ Chirayath NR-16726, 04-04-85.  
 Mrs Sathi Kumari AG NR-16727, 04-04-85.  
 Miss Valsamma James NR-16728, 04-04-85.  
 Mrs Mallika Devi K NR-16729, 04-04-85.  
 Mrs Pushpa Lalithamba NR-16730, 04-04-85.  
 Mrs Jhadhav Nirupama NR-16731, 04-04-85.  
 Miss Narotim A Thakur NR-16575, 04-04-85.  
 Mrs Sarita Kumari NR-16581, 04-04-85.  
 Miss Fidilis Marjri NR-16582, 04-04-85.  
 Mrs Bimla M NR-16584, 04-04-85.  
 Miss Voena Pant NR-16596, 04-04-85.  
 Miss Minakshi Aruna Mahant NR-16603, 04-04-85.  
 Miss Mahesh Kumari NR-16789, 04-04-85.  
 Miss R Ramnath Joshi NR-16641, 04-04-85.  
 Miss VK Thankamma NR-16676, 04-04-85.  
 Miss B Sarda NR-16644, 04-04-85.  
 Miss Indira Devi MN NR-16646, 04-04-85.  
 Miss ET Annamma NR-16851, 07-08-85.  
 Mrs Rajpaljit Kaur NR-16852, 07-08-85.  
 Mrs Mariamma Joseph NR-16853, 07-08-85.  
 Miss F Khongir NR-16776, 04-04-85.  
 Mrs CP Thresia NR-16797, 04-04-85.  
 Miss R Vijayambigai NR-16806, 04-04-85.  
 Mrs Radhamani NR-16732, 04-04-85.  
 Mrs Ratnesh Kumari Sharma NR-16733, 04-04-85.  
 Miss Annamma George NR-16736, 04-04-85.  
 Miss N Suseela NR-16739, 04-04-85.  
 Mrs AB Kawjana NR-16740, 04-04-85.  
 Miss Seema Kumari Singh NR-16741, 04-04-85.  
 Mrs Suman S NR-16744, 04-04-85.  
 Mrs C Kochammini NR-16747, 04-04-85.  
 Miss A Usha Rani NR-16750, 04-04-85.  
 Miss V Kamakshi RV Iyer NR-16751, 04-04-85.  
 Mrs Leelamma George NR-16752, 04-04-85.  
 Mrs KG Annamma NR-16753, 04-04-85.

Miss Sathi Kumari NR-16688, 04-04-85.  
 Miss CS Parvati NR-16691, 04-04-85.  
 Miss James CB NR-16692, 04-04-85.  
 Miss Lorraine LE' Count NR-16695, 04-04-85.  
 Mrs KM Leelamma NR-16696, 04-04-85.  
 Miss Valsa Cherian NR-16697, 04-04-85.  
 Miss TR Saradamma NR-16699, 04-04-85.  
 Miss Jasbir Kaur NR-16700, 04-04-85.  
 Mrs Sulekha Devi M NR-16701, 04-04-85.  
 Miss B Coombes NR-16706, 04-04-85.  
 Mrs PK Sosamma NR-16707, 04-04-85.  
 Miss AH Raphael NR-16710, 04-04-85.  
 Miss Inderjeet Kaur NR-16665, 04-04-85.  
 Miss Santhakumari Amma J NR-16667, 04-04-85.  
 Mrs C Annamma NR-16668, 04-04-85.  
 Mrs Rema Devi S NR-16669, 04-04-85.  
 Mrs Gopa Dutta NR-16671, 04-04-85.  
 Mrs RN Alice NR-16674, 04-04-85.  
 Mrs Salomy George NR-16678, 04-04-85.  
 Miss Jalajamani PC NR-16679, 04-04-85.  
 Miss TG Chandrika NR-16681, 04-04-85.  
 Miss Baby Geetha T NR-16682, 04-04-85.  
 Miss Kalayathi Mecerabai M NR-16684, 04-04-85.  
 Miss Harsh Lata NR-16686, 04-04-85.  
 Mrs Lizzy Philip NR-16648, 04-04-85.  
 Mrs CJ Tresamma NR-16650, 04-04-85.  
 Mrs Sushma Kaul NR-16653, 04-04-85.  
 Miss T Mathew NR-16654, 04-04-85.  
 Mrs Rema Dev Amma NR-16655, 04-04-85.  
 Mrs Victoria D' Souza NR-16657, 04-04-85.  
 Miss Omana MR NR-16658, 04-04-85.  
 Miss Molly MK NR-16659, 04-04-85.  
 Miss Thankam K NR-16660, 04-04-85.  
 Mrs L Abraham NR-16662, 04-04-85.  
 Miss Anita Kalra NR-16663, 04-04-85.  
 Miss PG Suja NR-16664, 04-04-85.  
 Mrs Gita Oberoi NR-16835, 04-04-85.  
 Miss Anita Bella NR-16836, 04-04-85.  
 Miss Prabhamani NR-16837, 04-04-85.  
 Miss Anne Varghese NR-16838, 04-04-85.  
 Miss Elizabeth John NR-16840, 04-04-85.  
 Miss Rohini Ninan NR-16841, 04-04-85.  
 Mrs Sumani Vinodini NR-16842, 04-04-85.  
 Mrs Anandavally P NR-16844, 04-04-85.  
 Miss Thankamma Mathew NR-16845, 04-04-85.  
 Mrs Swaranalatha K NR-16560, 04-04-85.  
 Mrs Urmila Devi NR-16564, 04-04-85.  
 Miss Hem Bhatia NR-16567, 04-04-85.

## (TEMPORARY COMMISSION)

Lieut to be Quasi-Subs Capt  
 MISS NIRMAL KAUR NT-16787, 04-04-85.

B K VERMA, Major General  
 Add & DG Major

## PERMANENT COMMISSION

Capt to be Major

R Sachdeva (MR-04563), AMC, 07th December 1987.  
 R Varadanajulu (MR-04561-M), AMC, 07th December 1987.



R Acharya (MR-04567-N), AMC, 07th December 1987.  
 R Surendra (NR-04673-M), AMC, 01st January 1988.  
 R N Shukla (MR-04577-X), AMC, 07th December 1987.  
 U. DAS (MR-05669-W), AMC, 25th December 1987.  
 V. K. SINGAL (MR-05471-X) AMC, 06th August 1988.  
 R. S. BAWA (MR-05065-X) AMC, 12th September 1987.  
 S. P. RAJ (MR-05353-K) AMC, 15th April 1986.

(Min of Def Notn No. ——— dated ——— published in the Gazette of India on 02 July 1988 in so far as it relates to the abovenamed officer is hereby cancelled.)

A. J. NANDAPURKAR (MR-04995-M), AMC, 23rd August 1988.

S. CHATURVEDI (MR-04813-N), AMC, 29th August 1988.

D Bisht (MR-05277-N), AMC, 06th September 1988.

Flt Lt to be Sqn Ldr

A K Anand (MR-05085-L), (17685), AMC, 12th September 1988.

Captain to be Major

D. K. SRIVASTAVA (MR-05477-Y), AMC, 27th August 1988.

K J S Bhullar (MR-05619-L), AMC, 30th June 1988.

B S Deopa (MR-05655-W) AMC, 26th August 1988.

I J Singh (MR-04985-H), AMC, 12th July 1988.

G. CHAND (MR-05473-H), AMC, 16th September 1988.

(ARMY BRANCH)

No. 2168, dated 24th November 1988.—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Captain to be Major

A K Kukreja (MR-05605-I), AMC, 30th January 1988.

V K TEWARI, Maj Gen  
 Dy DGAFMS

No. 2169, dated 5th December 1988.—The President is pleased to make the following promotions :—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

Major to be Lt Col (Time Scale)

1. R K MALHOTRA (TA-41091) Infantry, 22 Sep 87.
2. K K GHOSE (TA-41128) Infantry, 22 Sep 87.
3. S S Guleria (TA-41132) Infantry, 22 Sep 87.
4. S M Sharma (TA-41133) Infantry, 22 Sep 87.
5. G P Sharma (TA-41318) Infantry, 22 Sep 87.
6. K P S Mohli (TA-41149) Infantry, 22 Sep 87.
7. V K Verma (TA-41159) Infantry, 22 Sep 87.
8. G S Ranawat (TA-41161) Infantry, 22 Sep 87.
9. C. Devadas (TA-41165) Infantry, 22 Sep 87.
10. H S Bajwa (TA-41351) Infantry, 22 Sep 87.
11. Raghbir Singh (TA-40989) Infantry, 22 Sep 87.
12. B M S Datta (TA-41075) Infantry, 22 Sep 87.
13. R K Tewari (TA-40849) Infantry, 22 Sep 87.
14. G K GOSAIN (TA-41169) Infantry, 28 Jul 88.
15. I B Pandey (TA-41203) Infantry, 28 Jul 88.
16. S N S Gaur (TA-41191) Infantry, 28 Jul 88.
17. M I. Chopra (TA-41180) Infantry, 28 Jul 88

7—424GI/88

18. P C Sharma (TA-41179) Infantry, 28 Jul 88.

19. Y P S Chhina (TA-41186) Infantry, 28 Jul 88.

S B ATRI, Lt Col, AMS

Infantry

Brigade of The Guards

To be Sub Maj

Sub Girdhar Singh Rawat (JC-72947L), 1st Aug 1988.

Sub Balwant Singh (JC-77667F), 1st Aug 1988.

Sub Ramesh Chandra Pandey (JC-76817A), 1st Aug 1988.

To be Sub Maj (Clk)

Sub (Clk) Mahesh Singh (JC-93696A), 1st Aug 1988.

To be Sub

Nb Sub Ajit Singh (JC-136639P), 8th Aug 1987.

Nb Sub Subash Chandra (JC-126364Y) 1st May 1988.

Nb Sub Ghamandi Lal (JC-137517K), 16th Jul 1988.

Nb Sub Jagpal Singh Sikarwar (JC-130766N), 22nd Jul 1988.

Nb Sub Jagdish Prasad (JC-132914M), 1st Aug 1988.

Nb Sub Kurian Abraham (JC-132925X), 1st Aug 1988.

To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) Sultan Ram (JC-127549M), 1st Aug 1988.

Nb Sub (Clk) Sarwan Singh (JC-127550F), 14th Aug 1988.

Nb Sub (Clk) Bhogendra Prasad Yadav (JC-127552M), 1st Sep 1988.

The Parachute Regiment

To be Subedar Major

Sub Jugal Kishore (JC-85973L), 1st July 1988.

To be Subedar

Nb Sub Kalu Ram (JC-136935A), 1st April 1988.

Nb Sub Ram (JC-136713L), 1st July 1988.

Nb Sub Tateba Pawar (JC-140032A), 1st August 1988.

The Punjab Regiment

To be Subedar Major

Sub Sharam Singh (JC-87679K), 01st Apr 1988.

Sub Prithi Chand (JC-82309A), 01st May 1988.

Sub Piara Singh (C-89056P), 01st Jun 1988.

Sub Jamna Dass (JC-84496H), 01st Jul 1988.

Sub Nichhattar Singh (JC-84501H), 01st Jul 1988.

Sub Bhajan Singh (JC-104684N), 01st Aug 1988.

Sub Amar Nath (JC-94230K) 01st Aug 1988.

Sub Kesar Singh (JC-77968L), 01st Aug 1988.

Sub Krishan Singh (JC-84503N), 01st Aug 1988.

Nb Sub Avtar Singh (JC-124578W), 01st Apr 1987.

Nb Sub Swarn Singh (JC-124567K), 01st Sep 1987.

Nb Sub Darshan Singh (JC-120097M), 10th Nov 1987.

Nb Sub Kashmir Singh (JC-145003P), 01st Jan 1988.

Nb Sub Dilbagh Singh (JC-126412N), 11th Jan 1988.

Nb Sub Balwant Singh (JC-151619Y), 01st Feb 1988.

Nb Sub Yog Raj (JC-127533F), 01st Apr 1988.

Nb Sub Pritam Dass (JC-117597X), 01st Apr 1988.

Nb Sub Dharam Singh (JC-136948X), 01st Apr 1988.

Nb Sub Darshan Singh (JC-112973X), 01st May 1988.

Nb Sub Munshi Ram (JC-124564W), 01st May 1988.

Nb Sub Sham Singh (JC-155621N), 01st May 1988.

To be Subedar (Clerk)

Nb Sub (Clk) Duni Chand (JC-117621K), 01st Jun 1988.

Nb Sub (Cik) Swarn Singh Bhullar (JC-117622M), 01st Jun 1988.  
 Nb Sub (Cik) Sukhdev Singh Toor (JC-117623P), 01st Aug 1988.

#### THE MADRAS REGIMENT

To be Subedar

Nb Sub Perakathu Krishna Chandrasekharan Pillai (JC-128518Y), 1st Aug 1988.

To be Subedar (Clerk)

Nb Sub (Cik) Ramasubramani Aiyar Ganesan (JC-134305F), 1st Sep 1988.

Sub Raj Singh (JC-87372Y), 1st Sep 1988.

Sub G Krishnan Kutty Nair (JC-87392M), 1st Sep 1988.

Sub Meenku Babu (JC-84523F), 1st Sep 1988.

Sub Alagirisamy Perumal Janakraman (JC-86255F), 1st Sep 1988.

Sub Poyil Prabhakaran (JC-87830K), 1st Sep 1988.

Sub P V Purushothaman (JC-84073P), 1st Sep 1988.

Sub Annamari Thyppan Madhavan (JC-97104H), 1st Oct 1988.

To be Sub Maj (Cik)

Sub (Cik) M Sreedharan Nair (JC-92870P), 1st Sep 1988.

To be Subedar

Nb Sub K Balachandran (JC-117180Y), 1st Apr 1987.

Nb Sub Gopi Athichal (JC-117186A), 1st Apr 1987.

Nb Sub Kania Reddy Ranganathan (JC-128524M), 1st Apr 1987.

Nb Sub Ratnakaran Erikkal (JC-128254H), 1st May 1987.

Nb Sub Kandasamy (JC-126452X), 2nd Nov 1987.

Nb Sub Rajan Mottal (JC-132909F), 1st Jan 1988.

Nb Sub Musthafa (JC-132908Y), 1st Mar 1988.

Nb Sub Anthony Swamy (JC-132910W), 1st Apr 1988.

Nb Sub Samuel George (JC-129417X), 1st July 1988.

Nb Sub S M Muthukrishnan (JC-129418A), 1st July 1988.

Nb Sub K Ponnappan (JC-134281H), 1st Sep 1988.

To be Subedar (Clerk)

Nb Sub (Cik) Kesava Pillai Sekharan Nair (JC-132513-X), 1st Sep 1988.

Nb Sub (Cik) Narayana Pillai Madhavan Pillai (JC-134303W), 1st Sep 1988.

Sub Salem Khan (JC-69955Y), 01 Aug 1988.

Sub Wajeed Khan (JC-66650N), 01 Aug 1988.

To be Subedar

Nb Sub Manna Lal (JC-128030A), 01 July 1988.

Nb Sub Bachittar Singh Mehta (JC-144558A), 01 Jul 1988.

Nb Sub Ram Karan (JC-129440L), 17 July 1988.

Nb Sub Dharam Singh (JC-100823P), 01 Aug 1988.

Nb Sub Om Parkash (JC-127501Y), 01 Aug 1988.

Nb Sub Khuman Singh (JC-127505P), 01 Aug 1988.

Nb Sub Tara Singh (JC-126459Y), 01 Aug 1988.

Nb Sub Iqbal Khan (JC-120106H), 14 Aug 1988.

Nb Sub Tej Bahadur (JC-114191A), 01 Sep 1988.

Nb Sub Bhagwan Singh (JC-103574M), 01 Sep 1988.

Nb Sub Nanak Ram (JC-128082K), 01 Sep 1988.

Nb Sub Bhagwana Ram (JC-151207X), 01 Sep 1988.

Nb Sub Budhi Singh (JC-148339A), 01 June 1988.

Nb Sub Jiwan Singh (JC-148366K), 01 July 1988.

Nb Sub Umed Singh (JC-142924K), 11 Sep 1988.

Nb Sub Umed Singh Poonia (JC-142925M), 11 Sep 1988.

Nb Sub Parshotam Ram (JC-144550X), 01 Oct 1988.

Nb Sub Roshan Lal (JC-117500H), 01 Oct 1988.

Nb Sub Sardar Singh (JC-142926P), 01 Oct 1988.

To be Subedar (Clerk)

Nb Sub (Cik) Lal Dhaka (JC-127521M), 01 Aug 1988.

#### THE MARATHA LI

To be Sub Maj

Sub Ramchandra Deshmukh (JC-82044F), 9th July 1988.

Sub Appasaheb Dhago (JC-82544Y), 1st Aug 1988.

Sub Gunaji Bhosle (JC-77032H), 1st Aug 1988.

Sub Ramchandra Lawate (JC-81195N), 1st Aug 1988.

Sub Gajanan Jadhav (JC-83765X), 1st Aug 1988.

Sub Akaram Gujar (JC-92898P), 1st Aug 1988.

To be Sub Maj (Cik)

Sub Cik Anantrao Shedge (JC-91304H), 1st Aug 1988.

To be Subedar

Nb Sub Tanaji Gawas (JC-127463N), 9th July 1988.

Nb Sub Shankar Gosavi (JC-126560Y), 1st Aug 1988.

Nb Sub Ananda Kale (JC-128978A), 1st Aug 1988.

Nb Sub Govind Vishnu Kerkar (JC-130819F), 1st Aug 1988.

Nb Sub Tukaram Maruti Tibile (JC-142955K), 1st Aug 1988.

Nb Sub Rama Naik (JC-117534W), 1st Aug 1988.

Nb Sub Harry David (JC-126533P), 1st Aug 1988.

Nb Sub Hanuman Ghorpade (JC-135594N), 1st Aug 1988.

Nb Sub Baban Bhoste (JC-126541N), 1st Sep 1988.

Nb Sub Sadashiv Ramu Gurav (JC-126548X), 1st Sep 1988.

To be Sub Cik

Nb Sub Cik Gadigappa Hiremath (JC-106127N), 1st Aug 1988.

Nb Sub Cik Porangada Biddappa Bheemaiah (JC-117569-M), 1st Aug 1988.

#### THE RAJ RIF

To be Sub Maj

Sub Balwan Singh Malik (JC-92912W), 1st July 1987.

Sub Nemi Chand (JC-97440P), 1st June 1988.

Sub Ram Singh (JC-102170X), 1st Aug 1988.

Sub Karan Singh (JC-94467F), 1st Aug 1988.

Sub Randip Singh (JC-100713A), 1st Aug 1988.

Sub Gian Chand (JC-79632K), 1st Aug 1988.

To be Sub Maj (Cik)

Sub Cik Sanwal Ram (JC-87841W), 1st Aug 1988.

To be Subedar

Nb Sub Yashwant Singh (JC-137611F), 1st Apr 1988.

Nb Sub Hargian Singh (JC-126923X), 1st Aug 1988.

Nb Sub Ranjit Singh Rathore, SM (JC-115764L), 12th Sep 1988.

Nb Sub Har Pal Singh (JC-130590N), 1st Oct 1988.

## REGULAR ARMY

## Infantry

## The Rajput Regiment

## To be Sub Maj

- Sub Tara Chand (JC-94845P), 1st Oct 1988.
- Sub Amar Pal (JC-95617Y), 1st Oct 1988.
- Sub Berisal Singh (JC-99106M), 1st Oct 1988.

## To be Sub

- Nb Sub Ram Narain Singh (JC-115768F), 1st Aug 1988.
- Nb Sub Raghubir Singh (JC-128033W), 1st Oct 1988.
- Nb Sub Chat Raj Singh (JC-133698W), 26th July 1987.
- Nb Sub Sardar Khan (JC-128963X), 23rd Oct 1987.
- Nb Sub Harkesh Singh (JC-108606N), 1st Aug 1988.
- Nb Sub Bijai Narain Singh (JC-127443), 1st Aug 1988.

## The Jat Regt

## To be Sub Maj

- Sub Dharam Pal Sangwan (JC-85027M), 1st Sep 1988.
- Sub Pooran Mal (JC-100802Y), 1st Oct 1988.
- Sub Mohander Singh (JC-87369Y), 1st Oct 1988.
- Sub Birahm Singh (JC-91074A), 1st Nov 1988.
- Nb Sub Chand Ram (JC-127908P), 16th June 1988.
- Nb Sub Sehaj Ram (JC-134348W), 7th Aug 1988.
- Nb Sub Ram Chander (JC-135651K), 24th Aug 1988.
- Nb Sub Prithvi Chand (JC-128314M), 26th Aug 1988.
- Nb Sub Jai Narain (JC-135665K), 1st Sep 1988.
- Nb Sub Kunwar Singh Negi (JC-135731F), 1st Sep 1988.
- Nb Sub Jaganath (JC-157831M), 1st Oct 1988.
- Nb Sub Chuni Lal Jat (JC-129630X), 1st Oct 1988.
- Nb Sub Dan Singh (JC-136964P), 1st Oct 1988.
- Nb Sub Mehar Singh (JC-139601W), 2nd Oct 1988.
- Nb Sub Kunwarpal Singh (JC-141832L), 1st Nov 1988.
- Nb Sub Ranbir Singh (JC-135649M), 1st Nov 1988.

## To be Sub (Clk)

- Nb Sub Clk Chhidda Singh (JC-127888M), 1st Oct 1988.
- Nb Sub Clk Mangat Ram Panwar (JC-130601P), 1st Oct 1988.
- Nb Sub Clk Suraj Mal (JC-132882P), 1st Nov 1988.
- Nb Sub Clk Chandra Pal Singh (JC-133688M), 1st Nov 1988.

## THE SIKH REGIMENT

## TO BE SUBEDAR MAJOR

- Sub Shabeg Singh (JC-90848L), 1st Oct 1988.

## TO BE SUBEDAR

- Nb Sub Gurcharan Singh (JC-115789K), 31st July 1987.
- Nb Sub Pritam Singh (JC-115790M), 1st Oct 1987.
- Nb Sub Santokh Singh (JC-117729F), 1st Jan 1988.
- Nb Sub Raghubir Singh (JC-117716K), 1st Feb 1988.

## The Sikh LI

## To be Sub Maj (GD)

- Sub Chhaju Singh (JC-75002M), 1st Oct 1988.
- Sub Harpal Singh (JC-88175H), 1st Oct 1988.

## To be Sub Maj (Clk) (GD)

- Sub (Clk) Ram Asra (JC-80985W), 1st Oct 1988.

- Sub (Clk) Karnail Singh (JC-85128A), 1st Nov 1988.

## To be Sub (GD)

- Nb Sub Tarsem Singh (JC-125191A), 31st Oct 1987.
- Nb Sub Surjit Singh (JC-127349W), 11th Dec 1987.
- Nb Sub Nirmal Singh (JC-124692N), 1st Oct 1988.
- Nb Sub Kaka Singh (JC-127350L), 1st Aug 1988.
- Nb Sub Gulzar Singh (JC-125261N), 1st June 1987.
- Nb Sub Kishan Singh (JC-125262W), 1st Dec 1987.
- Nb Sub Charanjit Singh (JC-125263Y), 1st Jan 1988.
- Nb Sub Sawaran Singh (JC-125265K), 1st Mar 1988.
- Nb Sub Kirpal Singh (JC-125266M), 1st June 1988.
- Nb Sub Darshan Singh (JC-127339M), 1st Sep 1988.
- Nb Sub Iqbal Singh (JC-121905L), 1st Sep 1988.
- Nb Sub Sawaran Singh (JC-106015N), 1st Sep 1988.

## The Dogra Regt

## To be Sub Maj

- Sub Parmodh Singh (JC-88156X), 1st Aug 1988.
- Sub Vijay Kumar (JC-99308N), 1st Aug 1988.
- Sub Chand Ram (JC-96495M), 1st Aug 1988.
- Sub Clk Bodh Raj Sharma (JC-97475L), 1st Aug 1988.

## To be Sub

- Nb Sub Ishwar Singh (JC-115798Y), 1st July 1988.
- Nb Sub Janak Raj (JC-114134Y), 1st Aug 1988.
- Nb Sub Jagdish Chand Thakur (JC-116260K), 1st Aug 1988.
- Nb Sub Ajmer Singh (JC-114061X), 1st Aug 1988.
- Nb Sub Daya Ram (JC-130832L), 1st Aug 1988.
- Nb Sub Dharam Singh (JC-118422H), 1st Sep 1988.
- Nb Sub Kartar Singh (JC-133665L), 1st Dec 1988.

## The Kumaon Regt

## To be Sub

- Nb Sub Ganesh Giri (JC-118772F), 1st Aug 1988.
- Nb Sub Narendar Singh (JC-114020N), 1st Aug 1988.

## To be Sub Maj

- Sub Partap Singh (JC-78468A), 1st Oct 1988.
- Sub Sher Singh (JC-97486X), 1st Oct 1988.
- Sub Sura Singh (JC-78867K), 1st Oct 1988.

## The Assam Regiment

## To be Sub Maj

- Sub Surendra Singh (JC-99644A), 1st Oct 1987.
- Sub Sributso Rajbongshi (JC-91379A), 1st Feb 88.
- Sub Lalengmawia Lushai (JC-91903H), 1st Apr 88.
- Sub Kabita Roy (JC-92805P), 1st Apr 88.
- Sub Kawichhawna Lushai (JC-91907Y), 1st Aug 88.
- Sub Norendra Nath Das (JC-93973A), 1st Aug 88.
- Sub Romal Singh (JC-82818L), 1st Aug 88.

## To be Sub Maj (Clk)

- Sub Clk Gopi Nath Borgohain (JC-102101A), 1st Aug 88.

Sub Ck Kashi Kant Choudhary (JC-103294Y), 1st Aug 88.

To be Sub Maj

Sub Ful Singh Kowar (JC-85610F), 1st Dec 87.

To be Sub

Nb Sub Ran Bahadur Rai (JC-110929P), 13th Nov 87.

Nb Sub Lunkhogan Kuki (JC-109441M), 1st Jul 88.

Nb Sub Lakhinarayan Sharma (JC-135787N), 1st Aug 88.

The Mahar Regiment

To be Sub Maj

Sub Shri Ram (JC-78362N), 01st Apr 1988.

Sub Bhajan Singh (JC-94780M), 01st May 1988.

Sub Chandrabhan Kamble (JC-83946H), 01st May 1988.

Sub Mohd Hasibul Hasan (JC-63828N), 01st Jul 1988.

Sub Eknath Sapkal (JC-83128F), 01st Jul 1988.

Sub Jahar Singh (JC-77672H), 01st Jul 1988.

Sub Mukund Kamble (JC-65747M), 01st Jul 1988.

Sub Ranjit Singh (JC-85270K), 01st Jul 1988.

Sub Resham Singh Sandhu (JC-85277N), 01st Jul 1988.

Sub Raj Pal (JC-83118K), 01st Aug 1988.

Sub Tarlok Singh (JC-86041L), 1st Aug 1988.

Sub Ram Chandra (JC-82099L), 01st Aug 1988.

Sub Bhola Singh (JC-80992M), 01st Aug 1988.

Sub Prem Singh (JC-94781P), 01st Aug 1988.

Sub Ram Singh (JC-96781N), 01st Aug 1988.

Sub Surja Narayan Acharya (JC-83120P), 01st Sep 1988.

Sub Mahendra Lal (JC-83126W), 01st Sep 1988.

Sub Rattan Chand (JC-79420Y), 01st Sep 1988.

To be Sub

Nb Sub Sarjerao Umap (JC-130705W), 01st Apr 1988.

Nb Sub Prakash Chand (JC-117652K), 01st Apr 1988.

Nb Sub Prabhakar Dana Tayade (JC-127394H), 01st Apr 1988.

Nb Sub Indraj Singh (JC-113978H), 01st Apr 1988.

Nb Sub Tukaram Pandhir (JC-113985Y), 25th May 1988.

Nb Sub Raghunath Rajguru (JC-132117F), 25th May 1988.

Nb Sub Waryam Singh (JC-117631N), 25th May 1988.

Nb Sub Narayan Singh (JC-123020P), 25th May 1988.

Nb Sub Johli Ram (JC-123021X), 25th May 1988.

Nb Sub Satyabir Singh (JC-123023H), 01st Jul 1988.

Nb Sub Hawa Singh (JC-123024L), 01st Jul 1988.

Nb Sub Bhanudas Ghadge (JC-128443M), 01st Jul 1988.

Nb Sub Bije Singh (JC-133815A), 01st Jul 1988.

Nb Sub Parshottam Singh (JC-113977A), 01st Jul 1988.

Nb Sub Shyam Singh (JC-126484X), 01st Jul 1988.

Nb Sub Khushi Ram (JC-129564A), 01st Aug 1988.

Nb Sub Harbans Singh (JC-114085F), 01st Aug 1988.

Nb Sub Bhim Singh (JC-123368K), 01st Aug 1988.

Nb Sub Umrao Singh Yadav (JC-123369M), 01st Aug 1988.

Nb Sub Prakash Rangari (JC-109451W), 01st Aug 1988.

Nb Sub Sapkal Shankar Ganapati (JC-1140826), 01st Aug 1988.

Nb Sub Jaidev Ganpat Lokhande (JC-126492W), 01st Sep 1988.

Nb Sub Balkrishna Kamble (JC-126494F), 01st Sep 1988.

Nb Sub Ratan Singh (JC-114086K), 01st Sep 1988.

Nb Sub Rawan Kalvale (JC-122142M), 01st Sep 1988.

Nb Sub Aswini Kumar Bhuiya (JC-132391Y), 01st Sep 1988.

JAK LI

TO BE SUBEDAR MAJOR

Sub Mohd Azam (JC-92017L), wef 01 Jun 88.

Sub Rasool Ganai (JC-91954L), wef 01 Jun 88.

Sub Gulam Nabi (JC-91943K), wef 01 Jul 88.

Sub Rasal Singh (JC-91981A), wef 31 Aug 88.

Sub Joginder Singh (JC-445N), wef 01 Sep 88.

Sub Kuldip Singh (JC-91959P), wef 01 Sep 88.

3 GR

To be Subedars

Nb Sub Purna Magar (JC-114075X), 1st September 1987.

Nb Sub Durga Bahadur Gharti (JC-114076A), 1st December 1987.

Nb Sub Chitra Bahadur Rana (JC-121520N), 1st April 1988.

Nb Sub Bir Bahadur Gurung (JC-126689M), 1st June 1988.

9 GR

To be Sub Maj

Sub Nar Bahadur Thapa (JC-72397L), 1st May 1988.

Nb Sub Yem Bahadur Chhetri (JC-126670N), 1st December 1987.

Nb Sub Bishnu Bahadur Khattri (JC-126662P), 1st December 1987.

Nb Sub Siri Bahadur Chhetri (JC-126671H), 1st December 1987.

Nb Sub Kisan Bahadur Chhetri (JC-126674K), 1st December 1987.

Nb Sub Bhagwan Singh Bist (JC-135952N), 1st December 1987.

Nb Sub Ganesh Bahadur Mall (JC-120332A), 1st December 1987.

Nb Sub Dil Bahadur Thakur (JC-117222A), 1st January 1988.

Nb Sub Bhupal Singh Chhetri (JC-125137M), 1st January 1988.

Nb Sub Bharat Bikram Sahi (JC-135962X), 1st February 1988.

Nb Sub Madan Bahadur Chhetri (JC-133647H), 1st May 1988.

Nb Sub Gajinder Singh Chhetri (JC-126669Y), 1st May 1988.

4 GR

To be Sub Maj

Sub Krishna Bahadur Thapa (JC-92850P), 1st Aug 1988.

Sub Debi Prasad Gurung (JC-95326Y), 1st Aug 1988.

Sub Krishna Bahadur Tamang (JC-81292L), 1st Oct 1988.

Sub Chandra Bahadur Thapa (JC-89503P), 1st Oct 1988.

To be Sub

Sub Ishwar Dev Rana (JC-109154H), 1st April 1988.

Sub Chitra Bahadur Thapa (JC-109155L), 1st July 1988.

Sub Parjang Gurung (JC-125155P), 1st Aug 1988.

## 8 GR

To be Sub Maj (Cik)

Sub (Cik) Gopal Datt Sati (JC-89819K), 1st Jul 1988.

To be Sub Maj

Sub Min Bahadur Ale (JC-93769F), 1st Aug 1988.

To be Sub

Nb Sub Nanda Bahadur Thapa (JC-125218M), 1st Mar 1988.

Nb Sub Prem Bahadur Pun (JC-125212Y), 1st Aug 1988.

## 5 GR (FF)

To be Sub (Cik)

Nb Sub (Cik) Pratap Singh Sontival (JC-129229P), 1st Sep 1988.

To be Sub

Nb Sub Guman Singh Thapa (JC-156971M), 1st Sep 1988.

Nb Sub Teiman Gurung (JC-138600F), 1st Sep 1988.

To be Sub Maj

Sub Kul Bahadur Mall (JC-95332M), 1st Aug 1988.

To be Sub

Nb Sub Sher Bahadur Gurung (JC-134270W), 1st Aug 1988.

Nb Sub Jum Bahadur Gurung (JC-125227N), 1st Aug 1988.

Nb Sub Chhatra Bahadur Gurung (JC-125230N), 1st Aug 1988.

## 8 GR

To be Sub (Cik)

Nb Sub (Cik) Sia Ram (JC-108337M), 1st Jul 1988.

## 5 GR (FF)

To be Sub Maj

Sub Tika Ram Thapa (JC-94370W), 1st Sep 1988.

Sub Hit Kaji Gurung (JC-106804A), 1st Sep 1988.

To be Sub Maj (Cik)

Sub Cik Dil Bahadur Thakuri (JC-87550W), 1st Sep 1988.

## 11 GR

To be Sub

Nb Sub Ganga Singh Rana (JC-123042N), 1st April 1988.

Nb Sub Prem Sing Limbu (JC-125196Y), 1st April 1988.

Nb Sub Dal Bahadur Limbu, SC (JC-125200W), 1st April 1988.

Nb Sub Gobind Mukhia (JC-125386L), 1st April 1988.

Nb Sub Durga Prasad Sunwar (JC-128453W), 1st April 1988.

Nb Sub Kishan Singh Khatri (JC-128454Y), 1st April 1988.

Nb Sub Bom Bahadur Limbu (JC-129553N), 1st April 1988.

Nb Sub Kaji Man Rai (JC-130853F), 1st April 1988.

Nb Sub Lok Nath Rai (JC-130854K), 1st April 1988.

Nb Sub Tara Bahadur Bhutiel (JC-135994A), 1st April 1988.

Nb Sub Mitra Narayan Limbu (JC-135998W), 1st April 1988.

Nb Sub Daman Singh Karki (JC-136928X), 1st April 1988.

## ARMY BRANCH

No. 2170, dated the 28th December 1988.—The President is pleased to make the following promotions:—

## REGULAR ARMY

## Infantry

## LADAKH SCOUTS

To be Subedar Major (GD)

Sub (GD) Padma Chwang (JC-75294A), 1st Aug 1988.

To be Subedar Major Clerk (GD)

Sub (Cik) Fateh Singh Ahluwalia (JC-132788L), 1st Sep 1988.

To be Subedar Clerk (GD)

Nb Sub (Cik) Gian Chand Dhiman (JC-129507Y), 1st Sep 1988.

M. THADANI  
Under Secy.

## (ARMY BRANCH)

No. 2171, dated the 12th December 1988.—The President is pleased to make the following promotions:—

## REGULAR ARMY

## Remount and Veterinary Corps

To be Risaldar Major

Ris (BO) Bakhtawar Singh (RV-7352A), 01 Nov 88.

To be Risaldar

Nb Ris (Cik) Cheruli Janardanan (RV-7420H), 01 Nov 88.

Nb Ris (Cik) Ram Sunder Singh (RV-7426K), 01 Nov 88.

Nb Ris (Dsr) Govind Singh (RV-7457K), 01 Dec 88.

Nb Ris (Dsr) Samundra Singh (RV-7458M), 01 Dec 88.

ANIL KUMAR, Under Secy.

## Corps of Signals

To be Nb Sub (Cik GD)

Hav Kishori Mohan Singh (No. 14205385M now JC-177608K), 01 Mar 88.

Hav Hari Lal Singh Yadav (No. 14278507N now JC-177609M), 21 Apr 88.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 88 without effect on pay and allowances).

Hav Sukh Deo Kore (No. 14278699W now JC-177610F), 01 Mar 88.

Hav Lallan Tiwari (No. 14278710K now JC-177611K), 11 Apr 88.\*\*

\*\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 88 without effect on pay and allowances).

Hav Shambhoo Ram (No. 14278760P now JC-177612M), 06 Apr 88.\*\*\*

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 88 without effect on pay and allowances).

Hav Narottam Singh (No. 14278765N now JC-177613P), Apr 88.\*\*\*\*

\*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 88 without effect on pay and allowances).

Hav Jagphul Singh (No. 14278943L now JC-177614X), 21 Mar 88.\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 88 without effect on pay and allowances).

Hav MRR Raju (No. 14278948K now JC-177615A), 01 Mar 88.

Hav Bhargavan CD (No. 14279014Y now JC-177616H), 08 Apr 88.†

"(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 88 without effect on pay and allowances).  
 Hav Vakeel Pandey (No. 1427900Jb now JC-177617L), 08 Apr 88."  
 "(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 88 without effect on pay and allowances).  
 Hav Oommen KT (Nb. 14278531K now JC-177618N), 29 May 88."  
 "(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 88 without effect on pay and allowances).  
 Hav M Seshapathi (No. 14278613M now JC-177619W), 14 Jun 88."  
 "(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 88 without effect on pay and allowances).  
 Hav Kail Singh (No. 14279075W now JC-177620J), 06 Jun 88."  
 "(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 88 without effect on pay and allowances).  
 Hav Durga Ram (No. 14279078K now JC-177621N), 21 May 88.%  
 % (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 88 without effect on pay and allowances).  
 Hav Rajesh Kumar (No. 14279134X now JC-177622W), 01 May 88.  
 Hav Jagdish Prasad (No. 14279149A now JC-177623Y), 06 Jun 88.%%  
 %% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 88 without effect on pay and allowances).  
 Hav Satish Kumar (No. 14279217H now JC-177624F), 01 May 88.  
 Hav Deshmukh ST (No. 8019334F now JC-177625K), 13 May 88.%%  
 %%% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 88 without effect on pay and allowances).  
 Hav S Kumar Sen (No. 14279130F now JC-177626M), 01 May 88.  
 Hav Malkiat Singh (No. 14205637N now JC-177627P), 01 May 88.  
 Hav M Viswambharam (No. 14205009Y now JC-177628X), 09 Jun 88. %%%  
 %%% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 88 without effect on pay and allowances).

## (ARMY BRANCH)

No. 2172, dated 10th December 1988.—The President is pleased to make the following promotions :—

## REGULAR ARMY

## Corps of Signals

## To be Nb Sub (Op Spec)

Hav K Subburaman (No. 6326848N now JC-177629A), 1st Feb 88.\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Dec 87 without effect on pay and allowances).  
 Hav Roon Chand Bhardwaj (No. 6311560W) now JC-177630P, 17 Jan 88.\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Dec 87 without effect on pay and allowances).  
 Hav Suraj Bhan (No. 6310317M now JC-177631X), 11 Mar 88.\*\*\*  
 \*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Dec 87 without effect on pay and allowances).  
 Hav Ngradhgor Gogol (No. 14202372K now JC-177632A), 12 Jan 88.\*\*\*  
 \*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Dec 87 without effect on pay and allowances).  
 Hav Dara Singh (No. 6311551P now JC-177633H), 21 Jan 88.\*\*\*\*  
 \*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Dec 87 without effect on pay and allowances).

Hav Chander Shekhar (No. 6313852X now JC-177634L), 25 Jan 88."  
 "(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Dec 87 without effect on pay and allowances).  
 Hav K. P. Sinha (No. 6325577P now JC-177635N), 25 Feb 87."  
 "(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Dec 87 without effect on pay and allowances).  
 Hav Hari Narain Singh (No. 14277222P now JC-177636W), 23 Jan 88."  
 "(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Dec 87 without effect on pay and allowances).  
 Hav PM Rao Pokale (No. 6303785K now JC-177637Y), 19 Jan 88."  
 "(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Dec 87 without effect on pay and allowances).  
 Hav Bhopal Singh Sharma (No. 6316607A now JC-177638F), 27 Feb 88."  
 "(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Dec 87 without effect on pay and allowances).  
 Hav Bhopal Singh (No. 6325294N now JC-177639X), 04 Apr 88.%  
 % (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 88 without effect on pay and allowances).  
 Hav Des Rai (No. 6327112N now JC-177640Y), 01 Mar 88.  
 Hav Devan KR (No. 14200582L now JC-177641F), 29 Mar 88.%%  
 %% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 88 without effect on pay and allowances).  
 Hav Tilak Chand (No. 6323329A now JC-177642K), 01 Mar 88.  
 Hav Banta Singh (No. 6326667H now JC-177643M), 04 Apr 88.%%  
 %% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 88 without effect on pay and allowances).  
 Hav NN Pandey (No. 6325403P now JC-177644P), 04 Apr 88.%%  
 %% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 88 without effect on pay and allowances).  
 Hav BK Pradhan (No. 14202503K now JC-177645X), 04 Apr 88.%%  
 %% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 88 without effect on pay and allowances).  
 Hav Prakash Chand (No. 6308319Y now JC-177646A), 02 May 88.@  
 @ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 88 without effect on pay and allowances).  
 Hav Suresh Chandra (No. 6310878F now JC-177647H), 19 Apr 88.@@  
 @@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 88 without effect on pay and allowances).  
 Hav Roshan Singh (No. 6312646F now JC-177648L), 27 Mar 88.@@@  
 @@@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 88 without effect on pay and allowances).  
 Hav Narayanan K (No. 6316688I now JC-177649N), 05 Apr 88.@@@  
 @@@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 88 without effect on pay and allowances).  
 Hav Gopal Singh (No. 14202504M now JC-177650H), 05 Apr 88.@@@@  
 @@@@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 88 without effect on pay and allowances).  
 Hav Ram Parkash (No. 6310977K now JC-177651L), 18 Apr 88.£  
 £ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 88 without effect on pay and allowances).

Hav Ganesh Prasad (No. 6326410X now JC-177652N), 02 Apr 88.£££

£££(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 88 without effect on pay and allowances).

Hav Amar Singh (No. 6313552W now JC-177653W), 02 Apr 88.££££

££££(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 88 without effect on pay and allowances).

Hav Bartaman Rai (No. 6301525A now JC-177654Y), 1st Mar 88.

Hav Pushkar Singh Khatri (No. 6314810X now JC-177655F), 11 Apr 88.£££££

£££££(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 88 without effect on pay and allowances).

Hav Baljeet Singh (No. 6315537A now JC-177656K), 06 May 88.££££££

££££££(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 88 without effect on pay and allowances).

Hav Nand Kumar Singh (No. 6317975F now JC-177657M), 12 May 88.&

&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 88 without effect on pay and allowances).

Hav Babu Lal Napit (No. 14203714Y now JC-177658P), 04 Apr 88.&&

&&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 88 without effect on pay and allowances).

Hav Amrik Singh Heer (No. 6326086L now JC-177659X), 1st Mar 88.

Hav Ram Kumar Sharma (No. 6316571M now JC-177660M), 05 Apr 88.&&&

&&&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 88 without effect on pay and allowances).

Hav Kesar Singh (No. 14200942W now JC-177661P), 29 Mar 88.&&&&

&&&&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 88 without effect on pay and allowances).

Hav GN Singh (No. 14201619N now JC-177662Y), 14 May 88.&&&&&

&&&&&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 88 without effect on pay and allowances).

Hav Munshi Ram (No. 14203387Y now JC-177663A), 02 Apr 88.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 88 without effect on pay and allowances).

Hav Sher Singh (No. 6310586Y now JC-177664H), 06 Jun 88.\*\*

\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Apr 88 without effect on pay and allowances).

Hav Jagmal Singh (No. 6315736N now JC-177665L), 06 Jun 88.\*\*\*

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 88 without effect on pay and allowances).

Hav Ratan Singh (No. 6316415H now JC-177666N), 31 May 88.\*\*\*\*

\*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 88 without effect on pay and allowances).

Hav Suriit Singh (No. 14277247F now JC-177667W), 14 Jun 88.\*.\*.\*.\*

\*.\*.\*.\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 88 without effect on pay and allowances).

Hav Shresh Prasad Singh (No. 14205887P now JC-177668Y), 16 Jun 88."

"(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 88 without effect on pay and allowances).

Hav Sant Ram (No. 6313851P now JC-177669F), 03 Jun 88.""

""(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 88 without effect on pay and allowances).

#### (ARMY BRANCH)

No. 2173 dated the 5th November 1988.—The President is pleased to make the following promotion under the provisions of AI 226/68, amended vide AI 94/71 with effect from the dates mentioned against each :—

#### REGULAR ARMY

##### SHORT SERVICE COMMISSION

Lieutenants to be Captains

S S Jamwal (VS-838) RVC, 8 Sep 1988.

B V Ramchandra (VS-839) RVC, 8 Sep 1988.

#### (ARMY BRANCH)

No. 2174, dated the 28th December 1988.—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

##### Corps of Military Police

To be Subedar Major

Sub Suraj Bhan (JC-109289K), 1st Jul 1988.

Sub Pramod Bihari Mohanty (JC-109290Y), 1st Jul 1988.

Sub Sukh Lal (JC-109293M), 1st Jul 1988.

Sub Rajeshwar Prasad Singh (JC-109296A), 1st Jul 1988.

Sub Jai Singh (JC-109297A), 1st Aug 1988.

To be Subedar

Nb Sub Dhaarm Pal (JC-133744A), 1st Jun 1988.

Nb Sub Kanshi Ram (JC-133745H), 1st Jun 1988.

Nb Sub Satya Narayan Raut (JC-133746L), 1st Jul 1988.

Nb Sub Gurdev Singh (JC-132291N), 1st Jul 1988.

Nb Sub Deep Chand Ramola (JC-135180F), 1st Jul 1988.

Nb Sub Ajit Singh (JC-132292W), 1st Jul 1988.

Nb Sub Babadur Singh (JC-133748W), 1st Jul 1988.

Nb Sub Jagir Singh (JC-133749Y), 1st Jul 1988.

Nb Sub Satyendra Bhushan Chakrabarty (JC-133750N), 1st Jul 1988.

Nb Sub Same Sinighi i(iiiiiiCi-iiiiiii3115rA 1 etaoim eao

Nb Sub Ram Kumar Singh (JC-132032L), 1st Jul 1988.

Nb Sub Gian Chand (JC-135181K), 1st Jul 1988.

Nb Sub Ran Singh (JC-133752P), 1st Aug 1988.

Nb Sub Gurdial (JC-135182M), 1st Aug 1988.

M. THADANI Under Secy.

#### (ARMY BRANCH)

No. 2175 dated —The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

Corps of Electrical and Mechanical Engineers

*Name and Date of promotion*

Hav : to be Nb Sub Clerk (GD)

Sheo Murati (No. 7088771W now JC-176870A), 3 Feb 1988.£.

£Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Jan 1988 without effect on pay and allowances.

Ram Sagar Singh (No. 7089340W now JC-176871H), 9 Feb 1988.@

@Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Feb 1988 without effect on pay and allowances.

Jinder Singh (No. 7089336N now JC-176872L), 1 Feb 1988.

Surjit Singh (No. 7089648K now JC-176873N), 1 Feb 1988.

Daulat Ram (No. 7089701K now JC-176874W), 1 Feb 1988.

Nadi Bijaya Kumar Patro (No. 7089364A now JC-176875Y), 1 Apr 1988.

Ashwini Kumar Sharma (No. 7089637X now JC-176876F), 1 Apr 1988.

P Narayanan Nair (No. 7089639W now JC-176877K), 1 Apr 1988.

Sunder Singh (No. 7089711K now JC-176878M), 1 Apr 1988.

Surinder Kumar (No. 7089391K now JC-176879P), 1 1988.

Jai Singh Kunnar (No. 7089653P now JC-176880K), 1 Apr 1988.

A Xavier Amal Dass (No. 7089823N now JC-176881M), 1 Apr 1988.

Kirpal Singh Chauhan (No. 7089685X now JC-176882P), 1 Apr 1988.

Bharat Bihari Lal (No. 7089674L now JC-176883X), 1 Apr 1988.

Sitaram Sharma (No. 7089833X now JC-176884A), 1 Apr 1988.

N Durai Sami (No. 7089744Y now JC-176885H), 1 Apr 1988.

Om Prakash Tiwari (No. 7089263M now JC-176886L), 1 Apr 1988.

Gopal Rai (No. 7090283M now JC-176887N), 1 Apr 1988.

Vedantam Satyanarayana Sharma (No. 7092905F now JC-176888W), 1 Apr 1988.

Bhagwan Das Agarwal (No. 7093240H now JC-176889Y), 1 Apr 1988.

Kirpal Singh (No. 7093829M now JC-176890N), 1 Apr 1988.

Sivasankaran Nair (No. 7093826Y now JC-176891W), 1 Apr 1988.

Lal Bahadur Singh (No. 7093853H now JC-176892Y), 1 Apr 1988.

Malik Singh (No. 7094058P now JC-176893F), 1 Apr 1988.

Akhand Pratap Singh (No. 7094043M now JC-176894K), 1 Apr 1988.

Kailash Nath Pandey (No. 7094067W now JC-176895M), 1 Apr 1988.

Dewa Ram Bhakar (No. 7094641K now JC-176896P), 1 Apr 1988.

Megh Nath (No. 7094369H now JC-176897X), 3 May 1988.@@

@Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Apr 1988 without effect on pay and allowances.

Ram Dhawan (No. 7094702W now JC-176898A), 1 Apr 1988.

Surendra Singh Negi (No. 7094897M now JC-176899B), 24 May 1988.@@

@@Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Apr 1988 without effect on pay and allowances.

Prithvi Pal Singh (No. 7094926W now JC-176900M), 1 Apr 1988.

John O (No. 7095032M now JC-176901P), 20 Apr 1988.@@

@Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Apr 1988 without effect on pay and allowances.

Baldev Singh Mann (No. 7095556N now JC-176902X), 2 May 1988.@@

@@Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Apr 1988 without effect on pay and allowances.

Rajendra Singh Bhadoria (No. 7095574W now JC-176903A), 1 Apr 1988.

Bachan Singh Badia (No. 7095513Y now JC-176904H), 1 Apr 1988.

Ramesh Singh (No. 7095604H now JC-176905L), 1 Apr 1988.

Amal Krishna Saha (No. 7095732A now JC-176906N), 1 Apr 1988.

Bhim Singh Guleria (No. 7095735N now JC-176907W), 1 Apr 1988.

Om Narain Sharma (No. 7095972X now JC-176908Y), 1 Apr 1988.

Mohan Lal (No. 7095981Y now JC-176909F), 1 Apr 1988.

Amrik Singh (No. 7095980W now JC-176910W), 1 Apr 1988.

Govindraraju Chettiar Annamalai (No. 7095711K now JC-176911Y), 1 Apr 1988.

Daya Shankar Trivedi (No. 7085922Y now JC-176912F), 27 June 1988.£

£Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 1 June 1988 without effect on pay and allowances.

Bhup Singh Dalal (No. 7087215N now JC-176913K), 2 July 1988.£

£Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 1 June 1988 without effect on pay and allowances.

Hav : to be Nb Sub SK Tech

Dungar Singh (No. 7102156M now JC-176914-M), 14 Nov 1987.££

££Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 1987 without effect on pay and allowances.

Ummad Singh (No. 7084474L now JC-176915P), 4 Feb 1988.@

@Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Feb 1988 without effect on pay and allowances.

Mohan Singh Sambyal (No. 7097422N now JC-176916X), 9 Feb 1988.@

@Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Feb 1988 without effect on pay and allowances.

Dharam Pal (No. 7103896L now JC-176917A), 24 Feb 1988.@

@Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Feb 1988 without effect on pay and allowances.

Surendra Kumar Jaiswal (No. 7108167P now JC-176918H), 1 Feb 1988.

Balakrishnan Nair TP (No. 7108134K now JC-176919L), 28 Feb 1988.££

££Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 18 Feb 1988 without effect on pay and allowances.

Mohinder Singh Sambyal (No. 7108316X now JC-176920A), 19 Mar 1988.\$

\$Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Mar 1988 without effect on pay and allowances.



Gorty Surya Subrahmanya Sastry (No. 7108467W now JC-176921H), 1 Apr 1983.\$

\$Gtd seniority in the rank of Nb Sub wcf 17 Mar 1988 without effect on pay and allowances.

Madhub Chandra Gogoi (No. 7108495H now JC-176922 L), 16 May 1988.@

@Gtd seniority in the rank of Nb Sub wcf 1 Apr 1988 without effect on pay and allowances.

Hira Lal (No. 7108796M now JC-176923N), 1 Apr 1988.

Charanjit Singh Rai (No. 7108917H now JC-176924W), 23 Apr 1988.\$

\$Gtd seniority in the rank of Nb Sub wcf 21 Apr 1988 without effect on pay and allowances.

Balbir Singh Pathania (No. 7108754A now JC-176925Y), 8 June 1988.\$

\$Gtd seniority in the rank of Nb Sub wcf 21 Apr 1988 without effect on pay and allowances.

Joseph KM (No. 7109075P now JC-176926M), 21 May 1988.\$

\$Gtd seniority in the rank of Nb Sub wcf 21 Apr 1988 without effect on pay and allowances.

Shamrao Shinde (No. 7107682K now JC-176927K), 25 Mar 1988.@

@Gtd seniority in the rank of Nb Sub wcf 1 Feb 1988 without effect on pay and allowances.

Om Prakash (No. 7107929X now JC-176928M), 18 Apr 1988.@

@Gtd seniority in the rank of Nb Sub wcf 1 Feb 1988 without effect on pay and allowances.

Narayan Chandra Tudu (No. 7107895A now JC-176929P), 15 Feb 1988.@

@Gtd seniority in the rank of Nb Sub wcf 1 Feb 1988 without effect on pay and allowances.

Bhajan Lal (No. 7108285H now JC-176930K), 1 Feb 1988.

Braj Kishore Mishra (No. 7109024F now JC-176931M), 1 Feb 1988.

Hare Ram Peddar (No. 7109057M now JC-176932P), 19 Feb 1988.%

%Gtd seniority in the rank of Nb Sub wcf 18 Feb 1988 without effect on pay and allowances.

Hav : to be Nb Sub Metal Smith

Brahm Dass (No. 7090198K now JC-176933X), 22 Apr 1988.\$

\$Gtd seniority in the rank of Nb Sub wcf 21 Apr 1988 without effect on pay and allowances.

Narain Bahadur Pradhan (No. 7091846N now JC-176934A), 1 June 1988.

Hav : to be Nb Sub Turner

Ganga Ram (No. 1445999H now JC-176935H), 31 Dec 1987.\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wcf 24 Dec 1987 without effect on pay and allowances.

Kailash Chand (No. 7098051H now JC-176936L), 16 Apr 1988.\*\*

\*\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wcf 21 Feb 1988 without effect on pay and allowances.

Ishwar Singh (No. 7108012A now JC-176937N), 21 Feb 1988.

Hav : to be Nb Sub Limb Maker

Jaganath Prasad Mishra (No. 7102624F now JC-176938W), 30 May 1988.\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wcf 29 May 1988 without effect on pay and allowances.

Hav : to be Nb Sub Pir & Dectr

Rawail Singh (No. 7094878F now JC-176939Y), 1 June 1988.  
8—424GI/88

Hav : to be Nb Sub Carp & Jur

Charanjit Lal (No. 7090850K now JC-176940N), 21 Feb 1988.%

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wcf 18 Feb 1988 without effect on pay and allowances).

Kesuhav Kadam (No. 7091549A now JC-176941W), 2 Apr 1988.%

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wcf 18 Feb 1988 without effect on pay and allowances).

Hav : to be Nb Sub OTRP

Sukh Ram Dass (No. 7094518L now JC-176942Y), 14 Apr 1988.%

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wcf 18 Feb 1988 without effect on pay and allowances).

Badan Singh (No. 7097184M now JC-176943F), 18 Feb 1988.

Bikram Chand (No. 7127468N now JC-176944K), 2 May 1988\*\*\*

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wcf 1 May 1988 without effect on pay and allowances).

Rameshwar Lal (No. 7127470L now JC-176945M), 23 June 1988\*\*\*

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wcf 1 May 1988 without effect on pay and allowances).

Dalmir Singh (No. 7127589P now JC-176946P), 1 May 1988.

Kirpa Ram (No. 14502771M now JC-176947X), 1 May 1988.

Durga Prasad Singh (No. 14503310P now JC-176948A), 9 May 1988\*\*\*

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wcf 1 May 1988 without effect on pay and allowances).

Hav : to be Nb Sub Uphol

Soni Lal (No. 7097441Y now JC-176949H), 31 Dec 1987.£

£ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wcf 27 Dec 1987 without effect on pay and allowances).

Chander Bhan Singh (No. 7089989P now JC-176950X), 26 Apr 1988.\$

\$(Granted seniority in the rank of Nb Sub wcf 21 Apr 1988 without effect on pay and allowances).

Badam Singh (No. 7090448A now JC-176951A), 23 Apr 1988.\$

\$(Granted seniority in the rank of Nb Sub wcf 21 Apr 1988 without effect on pay and allowances).

Madan Lal (No. 7100936Y now JC-176952H), 27 Apr 1988.\$

\$(Granted seniority in the rank of Nb Sub wcf 24 Apr 1988 without effect on pay and allowances).

S. K. RAO, Under Secy.

#### (ARMY BRANCH)

No. 2176, dated 22nd December 1988.—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

#### ARMY EDUCATIONAL CORPS

#### To be Nb Sub

Hav Indraj Singh (No. 6326468P now JC-177022N), 11th Jun 1988\*.

Hav Devi Chand (No. 6313256L now JC-177023W), 25th May 1988\*.

Hav Sher Singh Rana (No. 5239068W now JC-177024Y), 24th May 1988\*.

Hav Jawahar Lal Rai (No. 6314097L now JC-177025F), 14th May 1988\*.

Hav Vnbhoot Singh (No. 6314475Y now JC-177026K), 14th Jun 1988\*.

Hav Karan Singh (No. 3962122L now JC-177027M), 24th Jun 1988\*.

Hav Shanker Lal (No. 6316350A now JC-177028P), 28th Jun 1988\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st May 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Swroop Chauhan (No. 2455992F now JC-177029X), 27th Jul 1988\*\*.

Hav Mustaq Ali (No. 2656497Y now JC-177030M), 04th Jul 1988\*\*.

Hav Birkha Ram (No. 2859226W now JC-177031P), 24th Jun 1988\*\*.

Hav Nain Singh (No. 4158637H now JC-177032X), 01st Jul 1988\*\*.

Hav Shiv Lal (No. 13729883K now JC-177033A), 02nd Jul 1988\*\*.

Hav Ram Kunwar (No. 6316895X now JC-177034H), 09th Jun 1988\*\*.

\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jun 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Vindhvachal Misra (No. 7104938F now JC-177035L), 01st Aug 1988\*\*.

Hav Rajendra Prasad Dwivedi (No. 2962696F now JC-177036N), 21st Jul 1988\*\*.

Hav Ikbal Khan (No. 2658294F now JC-177037W), 01st Jul 1988\*\*.

Hav Shiv Rai Singh (No. 9505417A now JC-177038Y), 15th Jun 1988\*\*.

\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jun 1988 without effect on pay and allowances).

#### To be Sub

Nb Sub Om Parkash (JC-112640L), 22nd Nov 1988.

Nb Sub Mukhtiar Singh (JC-113814M), 01st Dec 1988.

Nb Sub Fateh Singh Lathwal (JC-113808Y), 01st Dec 1988.

Nb Sub Kuldip Singh (JC-113838W), 01st Dec 1988.

Nb Sub Ibrahim Khan (JC-113802X), 01st Dec 1988.

#### ARMY BRANCH

No. 2177, dated .—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

##### Defence Security Corps

##### To be Sub Maj

Sub Kampotar Singh Verma (JC-74389N), 01 Apr 1988.

Sub Chander Pal Singh (JC-62764F), 01 July 1988.

Sub Hans Raj (JC-98754H), 01 Sep 1988.

Sub Jhallaram Tripathi (JC-100318M), 01 Oct 1988.

##### To be Sub

Nb Sub Prakash Chand (JC-104937X), 01 July 1988.

Nb Sub Prem Singh (JC-111770F), 01 July 1988.

Nb Sub Hari Shankar (JC-111759H), 01 July 1988.

Nb Sub Shiv Ram Gurung (JC-65325F), 01 July 1988.

Nb Sub Dinkar Sakharan Patil (JC-69880M), 01 July 1988.

Nb Sub Khazan Singh (JC-92749F), 01 Aug 1988.

Nb Sub Pars Ram (JC-78002X), 01 Sep 1988.

Nb Sub Harbhajan Singh (JC-69945P), 01 Sep 1988.

Nb Sub Chabila Ram (JC-11068W), 01 Sep 1988.

Nb Sub Satya Narain (JC-111052I), 01 Oct 1988.

Nb Sub Bishun Singh Thapa (JC-98820A), 01 Oct 1988.

Nb Sub Mehar Singh (JC-111069Y), 01 Oct 1988.

Nb Sub Rajbir Singh (JC-87071P), 01 Oct 1988.

#### Defence Security Corps

##### To be Sub Maj Clk

Sub Clk Mahavir Singh (JC-93960H), 01 Aug 1988.

##### To be Sub Clk

Nb Sub Clk Balbir Singh (JC-107725K), 01 July 1988.

Nb Sub Clk Biswanath Bairagya (JC-132049Y), 01 Aug 1988.

#### Defence Security Corps

##### To be Sub Maj

Sub Mool Chand (JC-98774W), 01 Oct 1988.

##### To be Sub

Nb Sub Sukhchain Singh Atwal (JC-127179X), 18 July 1986.

Nb Sub Rameshwar Dayal (JC-56634H), 01 Mar 1988.

Nb Sub Nand Ram (JC-111056F), 01 Oct 1988.

#### (ARMY BRANCH)

No. 2178.—dated .—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

##### Corps of Signals

##### To be Nb Sub (Op Ciph)

Hav Raj Kishore Singh (No. 14206011H now JC- ), 26 Dec 87\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 87 without effect on pay and allowances).

Hav Jagabandhu Behera (No. 14281573F now JC- ), 18 Feb 88\*\*.

\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 88 without effect on pay and allowances).

Hav Parkash Chand (No. 6327909M now JC- ), 03 Feb 88\*\*\*.

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 88 without effect on pay and allowances).

Hav Babu Lal Yogi (No. 14281024F now JC- ), 03 Mar 88\*\*\*\*.

\*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 88 without effect on pay and allowances).

Hav Thakar Dass (No. 6315839M now JC- ), 08 Feb 88\*\*\*\*\*.

\*\*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 88 without effect on pay and allowances).

Hav Purananand Bahuguna (No. 14280047W now JC- ), 15 Feb 88\*\*\*\*\*.

\*\*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 88 without effect on pay and allowances).

Hav Mohan Singh Bisht (No. 6316040P now JC- ), 01 Mar 88.

Hav Mohinder Lal (No. 14279121A now JC- ), 04 Feb 22".

"(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 88 without effect on pay and allowances).

Hav Mohan Singh Bisht (No. 6316040P now JC- ), 01 Mar 88.

Hav Kishan Singh (No. 14201121N now JC- ), 12 May 88%.

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 88 without effect on pay and allowances).

Hav Jalab Deen Kamal Basha (No. 14280760N now JC- ), 26 May 88%%.

%%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 88 without effect on pay and allowances).

Hav S. Alagappan No. 14282144M now JC- ), 19 Apr 88%%.

%%%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 88 without effect on pay and allowances).

Hav Shiviahchar Umesha (No. 14276839H now JC- ), 14 Apr 88%%.

%%%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 88 without effect on pay and allowances).

Hav Prem Singh (No. 14279563Y now JC- ), 21 Apr 88%%.

%%%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 88 without effect on pay and allowances).

Hav Sare Deo Rai (No. 14207438Y now JC- ), 20 Mar 88@.

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 88 without effect on pay and allowances).

Hav Shiv Pratap (No. 14208409W now JC- ), 27 May 88@@.

@@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 88 without effect on pay and allowances).

Tav Valaivcettill T (No. 14209867Y now JC- ), 01 Mar 88.

Hav Balakrishnan Punthil (No. 14281654F now JC- ), 03 May 88£.

£(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 88 without effect on pay and allowances).

Hav Ganesh Datt Joshi (No. 14209844X now JC- ), 02 Apr 88££.

££(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 88 without effect on pay and allowances).

Hav Nishan Singh (No. 6327985Y now JC- ), 21 Apr 88£££.

£££(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 88 without effect on pay and allowances).

Hav Ramji Kushwaha (No. 14208558K now JC- ), 25 Apr 88££££.

££££(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 88 without effect on pay and allowances).

Hav Kamalcs Kumar Chandra (14277872H), 09 May 88&&&.

&&&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 88 without effect on pay and allowances).

Hav Mustafa Aslam (14279838F), 14 May 88&&&&.

&&&&(Granted seniority in the rank of Nb sub wef 01 Apr 88 without effect on pay and allowances).

Hav Prem Lal (14281593P), 02 May 88&&&&&.

&&&&&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 88 without effect on pay and allowances).

Hav Augustine Joseph (14209454P), 18 Apr 88'.

'(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 88 without effect on pay and allowances).

Hav Tirath Prasad Sharma (14209833L), 06 Jun 88".

"(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 88 without effect on pay and allowances).

Hav Bhagwan Singh (14282869M), 29 Aug 88".

""(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 88 without effect on pay and allowances).

Hav Onkar Singh (14277461K), 08 Jul 88"".

""(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 88 without effect on pay and allowances).

Hav Yogi Ram (14280781K), 23 Jun 88"".

""(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 88 without effect on pay and allowances).

Hav Madan Mohan Lal (14209002M), 20 Jun 88\$.

\$(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 88 without effect on pay and allowances).

Hav Bachan Singh Rawat (1445675W), 28 Jun 88\$\$.

\$(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 88 without effect on pay and allowances).

Hav Nihal Singh (14281584N), 26 May 88\$\$\$.

\$\$\$ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 88 without effect on pay and allowances).

Hav Bachan Singh Rawat (No. 1445675W now JC- ), 28 Jun 88\$\$.

\$(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 88 without effect on pay and allowances).

Hav Nihal Singh (No. 14281584N now JC- ), 26 May 88\$\$\$.

\$\$\$ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 88 without effect on pay and allowances).

T. B. NAIR, Desk Officer

#### ARMY BRANCH

No. 2179, dated 14th October 1988.—The President is pleased to make the following Promotion :—

#### TERRITORIAL ARMY

(Territorial Commission)

2/Lieut to Lieut

Manjit Singh KATARIA (TA-41839) Infantry, 24 October 1986.

Sagar DASGUPTA (TA-41905) Infantry, 05 Apr 1987.

M. ARUCHANY (TA-41919), Infantry, 13 August 1987.

Ramesh Chandra MAHARANA (TA-41836) Infantry, 15th Sep 1986.

Sutinder BHUSHAN (TA-41826) Infantry, 09th Sep 1986.

#### ARMY BRANCH

No. 2180, dated 16th November 1988.—The President is pleased to make the following Promotion :—

#### TERRITORIAL ARMY

(Territorial Commission)

2/Lt to be Lt

NANDKUMAR DAMODAR DEOKULE TA-41809 ASC, 19 September 1986.

KHAZAN SINGH BALODA TA-41798 Engrs, 16 September 1986.

SUBHASH CHANDER VERMA TA-41807 Engrs, 19 September 1986.

BRAHAM DATT YADAV TA-41790 Engrs, 16 September 1986.

H. D. SINHA,  
Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 2181, dated 28th December 1988.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

Infantry

The Parachute Regiment

To be Nb Sub

Hav Prabhati Lal Yadav (No. 13606091H now JC-177771-K), 15th Sep 1988\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Gian Singh (No. 13606860F now JC-177772M), 1st June 1988.

Hav Bijay Bahadur Singh (No. 13608922P now JC-177773-P), 14th Aug 1988\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Nagi Ram (No. 3968972L now JC-177774X), 22th July 1988.

CHM Harish Chandra Singh (No. 13605287K now JC-177767F), 1st Jan 1988.

Hav Ajoy Kumar Malakar (No. 13608730X now JC-177768K), 11th Jan 1988.

CHM Gopal Singh (No. 13608954X now JC-177769M), 14th Mar 1988.

Hav Deb Singh (No. 13606996L now JC-177770F), 1st May 1988.

Hav Sayar Singh (No. 13608063P now JC-177762H), 11th May 1988.

Hav Gurmail Singh (No. 13605356P now JC-177763L), 11th July 1988\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 1988 without effect on pay and allowances).

THM Joginder Singh (No. 13607497H now JC-177764-N), 11th July 1988.

Hav Balbir Rai (No. 13607395M now JC-177765W), 22nd July 1988.

Hav Avtar Singh (No. 13607587K now JC-177766Y), 17 Aug 1988.

Hav Dharam Singh (No. 4454379P now JC-177792A), 28th May 1988.

Hav Harbans Singh (No. 4454503L now JC-177793H), 28th May 1988.

Hav Mohan Singh (3368748F now JC-177787P), 1st Jan 88.

Hav Sowaran Singh (3369000M now JC-177788X), 23rd May 88.

Hav Joga Singh (3366554A now JC-177789A), 4th June 88.

CHM Sucha Singh (3369173A now JC-177790P), 9th June 88%

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 6th Jun 88 without effect on pay and allowances).

Hav Surinjan Singh (3367731F now JC-177791X), 16th July 88.

Hav Clk Durga Prasad (No. 2860679N now JC-177786M), 1st Sep 1988.

Hav Ramji Lal Gurjar (No. 2967469L now JC-177781N), 28th June 1988\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 May 88 without effect on pay and allowances).

Hav Braham Singh (No. 2666579N now JC-177782W), 28th June 1988.

Hav Rajpal Singh (No. 2968447Y now JC-177783Y), 1st July 1988.

Hav Kushal Pal Singh (No. 2967980F now JC-177784F), 25th July 1988.

Hav Raj Bahadur Singh (No. 2967077X now JC-177785K), 25th July 1988.

Hav Gajendra Singh (No. 2964757M now JC-177775A), 1st Jan 1988.

Hav Tasvir Singh (No. 2963972L now JC-177776H), 8th Apr 1988.

Hav Awadh Singh (No. 2969127W now JC-177777L), 1st Aug 1988\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 07 May 88 without effect on pay and allowances).

Hav Malkit Singh (No. 4456271W now JC-177778N), 1st June 1988.

Hav Paras Nath Singh (No. 2964868K now JC-177779W), 25th Jun 1988.

Hav Ranvir Singh (No. 2960782N now JC-177780L), 18th July 1988.

Hav (Clk) Dhan Singh (5239181L now JC-177817F), 1st Aug 1988.

Rfn Bharat Vir Bushan (No. 9079515M now JC-177816Y), wef 21 Dec 81.

Hav Havaldar Pandit (No. 4246997F now JC-177804K), 24th Jun 1988\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 88 without effect on pay and allowances).

CHM Rup Narain Singh (No. 4250028Y now JC-177805-M), 2nd Aug 1988\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 21 May 88 without effect on pay and allowances).

Hav Jitan Kumar Deogam (No. 4249924A now JC-177806-P) 26th Jun 1988.

Hav Raghu Nath Munda (No. 4252691P now JC-177807-X) 26th Jun 1988.

CHM Baban Prasad Singh (No. 4249268K now JC-177808-A), 2nd July 1988.

Hav Sachida Nand Singh (No. 4248040F now JC-177809-H), 31st Aug 1988.

Hav Ashok Kumar Jha (No. 4249452P now JC-177810X), 31st Aug 1988.

Hav Praduman Prasad Singh (No. 4248441W now JC-177811A), 31st Aug 1988.

Hav Mithila Kant Mishra (No. 4249130P now JC-177812-H), 31st Aug 1988.

Hav Gabar Singh Sajwan (No. 4050611K now JC-177813-L), 1st Sep 1988.

CHM Bashisht Singh (No. 4247673H now JC-177814N), 10th Sep 1988.

Hav Kalyani Prasad Shahdeo (No. 4252525F now JC-177815W), 18th Sep 1988.

REGULAR ARMY

The Assam Regiment

To be Nb Sub

Hav Manliana (4346549K now JC-177798F) 1st Apr 88.

Hav Romesh Anal (4346813M now JC-177799K) 11th May 88.

Hav Kalachand Sinha (4347407Y now JC-177800N) 16th May 88.\*

Hav Khagen Chandra Borah (4347468W now JC-177801-W) 24th Aug 88.%

Hav Ramindra Sinha (4347228Y now JC-177802Y) 13th Sep 88.@

Hav Kishor Bahadur Pradhan (4345949K now JC-177803 F) 1st Sep 88.

\*(Granted ante-date of seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 14 May 88)

%(Granted ante-date of seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 09 Jun 88).

@(Granted ante-date of seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 05 Jul 88).

Hav Nain Singh (No 4161502M now JC-177795N) 18th Aug 1988.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 88 without effect on pay and allowances).

Hav Nandan Singh (No 4158911P now JC-177796W) 13th Sep 1988.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 88 without effect on pay and allowances).

Hav Brij Lal (No 4160641K now JC-177797Y) 1st Sep 1988.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 11 Aug 88 without effect on pay and allowances).

Hav Mukhtiar Singh (No 4450501H now JC-177794L) 1st Sep 1988.

Hav Man Bahadur Chhetri (No 5340376X now JC-177818 K) 1st Jan 1988.

Hav Prem Kumar Tamang (No 5340479W now JC-177819M) 1st Feb 1988.

Hav Tek Bahadur Gurung (No 5340435Y now JC-177820 F) 1st Mar 1988.

Hav Narain Bahadur Thapa (No 5340948N now JC-177821K) 1st Apr 1988.

Hav Deb Bahadur Thapa (No 5340092N now JC-177822 M) 24th Apr 1988.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances with effect from 01 Mar 1988)

Hav Ramesh Kumar Gurung (No 5341168P now JC-177823P) 19th Jul 1988.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances with effect from 28 Jun 1988)

Hav Vinod Kumar Gurung (No 5339797N now JC-177824 X) 1st Aug 1988.

Hav Dil Bahadur Rana (No 5339861A now JC-177825 A) 22nd Aug 1988.

Hav Dirgha Bahadur Gurung (5339998M now JC-177826 H) 01 Aug 1988.

Hav Om Bahadur Chhetri (4162243F now JC-177828N) 23rd Mar 1988.

Hav Krishna Bahadur Kanwar (5842057M now JC-177829W) 9th July 1988.

Hav Guban Singh Singh Mall (5840933N now JC-177830 L) 1st Aug 1988.

Hav (Clk) Darshan Ram (5839218Y now JC-177827L) 1st May 1988.

M. THADANI, Under Secy.

#### (ARMY BRANCH)

No. 2182, dated 7th December, 1988.—The undermentioned Ex JCOs are re-employed on the active list in the rank and from the dates specified :—

#### REGULAR ARMY

#### DEFENCE SECURITY CORPS

In the rank of Subedar Major

Subedar Major Palak Dhari Upadhyay (JC-58619M) Formerly The Guards 04 Jan 1988.

In the rank of Subedar Clerk

Subedar Clerk Vishambar Singh (JC-85736F) Formerly Artillery 25 Jan 1988.

In the rank of Subedar

Subedar Bhajan Singh (JC-100533X) Formerly Int Corps 05 Jan 1988.

In the rank of Naib Subedar

Nai Subedar Manohar Pathak (JC-124915A) Formerly Int Corps 03 Sep 1987.

T. B. NAIR, Desk Officer

No. 2183, dated 1st December, 1988.—The President is pleased to retire Shri A Mukhopadhyay, Director Grade-I, DGQA HQ New Delhi on attaining the age of superannuation on 30-11-1988 (A/N).

VN AWATI, Under Secy.

#### (ARMY BRANCH)

No. 2184, dated —In M of D Notification No. 826 dated 25th April 1988, published in the Gazette of India dated 04 June 1988, under heading 'REGULAR ARMY' sub-heading 'Corps of Electrical and Mechanical Engineers'

"On Page 844" :—

for : 'To be Sub Maj Tech & Artz (EC)'

read : 'To be Sub Tech & Artz (EC)' below "To be Sub Tech & Artz (EC)"

for : 'Naib Sub Jagdev Singh Sandhu (JC-121564L), 1st January 1987'

read : 'Naib Sub Jagdev Singh Sandhu (JC-121564L), 1st January 1988'.

A. S. RAO, Under Secy.

#### (ORDINARY)

#### (ARMY BRANCH)

#### (CORRIGENDUM)

New Delhi, the 8th December 1988

The Gazettes of INDIA (Extraordinary) Notification No. 1-E, 2-E and 3-E dated 22 Jan 88, notifying the grant of honorary commissions/ranks to JCOs and NCOs on the occasion of Republic Day 88, are amended as under —

Gazette of INDIA (Extraordinary) No. 1-E dated 22 Jan 88 UNDER HEADING : TO BE HONARARY CAPTAINS

UNDER GROUP : THE MARATHA LIGHT INFANTRY

Against serial No. 108 :

For ORABHAKAR MOHITE

Read PRABHAKAR MOHITE

Against serial No. 109 :

For SHANKARARAO BOMBADE

Read SHANKARARAO BOBADE

UNDER GROUP : ARMY ORDNANCE CORPS

Add srl 214A JC 66513P SUB MAJ & HONY LT ANAND SINGH RAWAT.

UNDER GROUP : DEFENCE SECURITY CORPS

Against serial 249 :

For JC 75247X

Read JC 75245X

## UNDER HEADING : TO BE HONORARY LIEUTENANTS

## UNDER GROUP : THE REGIMENT OF ARTILLERY

Against serial No. 39 :

*For* BAJRANG SURYAWANSHI*Read* BAJARANG SURYAWANSHI

Against serial No. 41 :

*For* BALVINDER SINGH SHARMA*Read* BALVINDER KUMAR SHARMA

Against serial No. 147 :

*For* JC 11957N*Read* JC 111957N

Against serial 158 :

*For* SHAIK KHADAR BASHA*Read* SHEIK KHADAR BASHA

Add serial 168A JC 132528A SUB VK ACHUTHAN KUTTY

## UNDER GROUP : THE MADRAS ENGINEER GROUP

Against serial 178 :

*For* JC 64142X*Read* JC 66142X

## UNDER GROUP : THE BENGAL ENGINEER GROUP

Against serial 228 :

*For* SHIV KARAN*Read* SHIV KARAN TRIPATHI

Against serial 242 :

*For* RAM BABU SINGH*Read* RAM BABOO SINGH

## UNDER GROUP : THE CORPS OF SIGNALS

Against serial 290 :

*For* JC 60649N*Read* JC 60649H

Against serial 320 :

*For* JC 113428*Read* 113428A

## UNDER GROUP : THE GRENADIERS

Against serial 426 :

*For* BHALKU RAM KAUNDAL*Read* BHALKHU RAM KAUNDAL

Against serial 437 :

*For* PRITHI SINGH DHULL*Read* PIRTHI SINGH DHULL

## UNDER GROUP : THE MARATHA LIGHT INFANTRY

Against serial 453 :

*For* JC 716221H*Read* JC 71621H

Against serial 455 :

*For* PK PADMADALAM*Read* PK PADMADALAN

Against serial 456 :

*For* JC 116468L*Read* JC 116168L

## UNDER GROUP : THE JAT REGIMENT

Against serial 504 :

*For* PYARE LAI DANG*Read* PYARE LAL DANGI

## UNDER GROUP : THE ASSAM REGIMENT

Against serial 590 :

*For* SUB MAJ*Read* SUB

## UNDER GROUP : THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

Against serial 628 :

*For* GULCHARAN SINGH*Read* GULCHARN SINGH

## UNDER GROUP : 9 GORKHA RIFLES

Delete serial 690 and connected entries.

Against serial 691 :

*For* JC 218573P*Read* JC 128573P

## UNDER GROUP : 11 GORKHA RIFLES

Add serial 699A JC 92788A SUB DHARMA RAJ GURUNG

## UNDER GROUP : ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

Against serial 726 :

*For* JC 75220Y*Read* JC 85220Y

## UNDER GROUP : ARMY MEDICAL CORPS

Against serial 819 :

*For* THOMAS KINAKAZHALKTHILKETHIL VARGHESE*Read* THOMAS KINARUVILAKIZHAKETHIL VARGHESE

## UNDER GROUP : ARMY ORDNANCE CORPS

Delete serial 822 and connected entries.

Against serial 823 :

*Add* SUB MAJ

## UNDER GROUP : CORPS OF MILITARY POLICE

Against serial 981 :

*For* RAJAMANICHAK*Read* RAJAMANICKAM*Gazette of INDIA (Extraordinary) No. 2-E dated 22 Jan 88*

## UNDER HEADING : TO BE HONORARY CAPTAINS

## UNDER GROUP : THE REGIMENT OF ARTILLERY

Against serial 44 :

*For* RAM RAJ*Read* MAM RAJ

Against serial 46 :

*For* 01-08-87*Read* 01-09-87

Against serial 48 :

*For* VR NARAYANA PILLAI*Read* VR NARAYANAN PILLAI

## UNDER GROUP : THE MADRAS ENGINEER GROUP

Against serial 55 :

*For* NARAYANA CP*Read* NARAYANAN CP

Against serial 59 :

*For* M BALAKRISHAN*Read* M BALAKRISHNAN

## UNDER GROUP : THE BENGAL ENGINEER GROUP

Against serial 63 :

*For* CHALAMANA KUCHUVARKEY POULOSE*Read* CHALAMANA KUCHIVARKEY POULOSE

Against serial 79 :

*For* SHEIKH AHAMAD*Read* SHEIK AHAMAD

Against serial 90 :  
*For* JC 101828N  
*Read* JC 100828N  
 UNDER GROUP : THE MARATHA INFANTRY  
 Against serial 216 :  
*For* JC 82543K  
*Read* JC 82543W  
 UNDER GROUP : THE SIKH REGIMENT  
 Against serial 244 :  
*For* JC 104542X  
*Read* JC 104245X  
 UNDER GROUP : THE KUMAON REGIMENT  
 Against serial 260 :  
*For* 01-10-87  
*Read* 01-01-88  
 Against serial 265 :  
*For* 01-01-87  
*Read* 01-01-88  
 UNDER GROUP : THE JAMMU & KASHMIR RIFLES  
 Against serial 279 :  
*For* BALDEV SINGH CHOUDHARY  
*Read* BALDEV SINGH CHAUDHRY  
 Against serial 286 :  
*For* SUB & HONY LT  
*Read* SUB MAJ & HONY LT  
 UNDER GROUP : 9 GORKHA RIFLES  
 Against serial 329 :  
*For* BHIM BAHADUR KHANDKA  
*Read* BHIM SINGH KHANDKA  
 Against serial 330 :  
*For* HARKA BAHADUR KHATRI  
*Read* HARKA BAHADUR KHATTRI  
 UNDER GROUP : CORPS OF ELECTRICAL AND  
 MECHANICAL ENGINEERS  
 Against serial 498 :  
*For* JC 61086X  
*Read* JC 61086A  
 Against serial 496 :  
*For* 01-10-87  
*Read* 01-11-87  
 Against serial 504 :  
*For* JC 109270Y  
*Read* 119270Y  
 Against serial 507 :  
*For* JC 98919W  
*Read* JC 87919W  
 Against serial 528 :  
*For* JC 97948L  
*Read* JC 87948L  
 Against serial 539 :  
*For* MAHENDRA SINGH SARANGI  
*Read* MAHENDRA NATH SARANGI  
 Against serial 549 :  
*For* 01-06-87  
*Read* 01-01-88

Against serial 555 :  
*For* 01-12-87  
*Read* 01-01-87  
 UNDER GROUP : CORPS OF MILITARY POLICE  
 Against serial 610 :  
*For* OM PARKASH SINGH  
*Read* OM PRAKASH SINGH  
 UNDER HEADING : TO BE HONORARY LIEUTENANTS  
 UNDER GROUP : THE BENGAL ENGINEER GROUP  
 Against serial 1 :  
*For* JC 51764X  
*Read* JC 51768X  
 UNDER HEADING : TO BE HONORARY SUBEDAR  
 MAJORS  
 UNDER GROUP : 11 GORKHA RIFLES  
 Against serial No. 2  
*For* JC 876107H  
*Read* JC 76107H  
 UNDER HEADING : TO BE HONORARY RISALDAR/  
 SUBEDAR  
 UNDER GROUP : THE REGIMENT OF ARTILLERY  
 Against serial No. 37 :  
*For* BALABIR SINGH  
*Read* BALBIR SINGH  
 UNDER GROUP : THE MECHANISED INFANTRY  
 REGIMENT  
 Against serial No. 57 :  
*For* KIARAKA BAHADUR GURUNG  
*Read* KHARKA BAHADUR GURUNG  
 Against serial No. 58 :  
*For* JC 143323F  
*Read* JC 143523F  
 UNDER GROUP : THE KUMAON REGIMENT  
 Delete serial No. 92 and connected entries.  
 Against serial No. 103 :  
*For* KISHORI LAL  
*Read* KIRORI LAL  
 Against serial No. 96 :  
*For* BHAGAWAN SINGH  
*Read* BHAGWAN SINGH  
 UNDER GROUP : ARMY ORDNANCE CORPS  
 Against serial No. 133 :  
*For* NARAIN SINGH  
*Read* NARAYAN  
*Gazette of INDIA (Extraordinary) No. 3-E dated 22 January 1988*  
 UNDER GROUP : THE REGIMENT OF ARTILLERY  
 Against serial No. 73 :  
*For* CHANDDEO SABLE  
*Read* CHANGDEO SABLE  
 Against serial No. 151 :  
*For* 01-11-87  
*Read* 01-01-88  
 UNDER GROUP : THE MADRAS ENGINEER GROUP  
 Against serial No. 341 :  
*For* MUTHUSWAMI  
*Read* MUTHUSWAMY

**UNDER GROUP : THE BENGAL ENGINEER GROUP**

Against serial No. 375 :

*For* 144325A*Read* 1440325A**UNDER GROUP : THE CORPS OF SIGNALS**

Against serial No. 606 :

*For* RAMJIT MOHAN BAI.*Read* RANJIT MOHAN BAL

Against serial No. 626 :

*For* SADALAI MUTHU PANDARAM*Read* SUDALAI MUTHU PANDARAM**UNDER GROUP : THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT**

Against serial No. 719 :

*For* 13602473N*Read* 13602478N**UNDER GROUP : THE RAJPUTANA RIFLES**

Against serial No. 846 :

*For* 2855762W*Read* 2855726W**UNDER GROUP : THE RAJPUT REGIMENT**

Against serial No. 866 :

*For* 2857001K*Read* 2957001K**UNDER GROUP : THE JAT REGIMENT**

Against serial No. 909 :

*For* 6639516A*Read* 6639510A**UNDER GROUP : THE SIKH REGIMENT**

Against serial No. 944 :

*For* SINDHER SINGH*Read* SHINDHER SINGH**UNDER GROUP : THE DOGRA REGIMENT**

Against serial No. 1017 :

*For* 3958818L*Read* 3959818L**UNDER GROUP : THE KUMAON REGIMENT**

Against serial No. 1057 :

*For* 4254695P*Read* 4154695P**UNDER GROUP : ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)**

Against serial No. 1320 :

*For* JAGDISH RAI*Read* JAGDISH RAI

Against serial No. 1680 :

*For* SOM PAL*Read* SOM RAI

Against serial No. 1682 :

*For* 6838140Y*Read* 6888140Y**UNDER GROUP : CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS**

Against serial No. 1915 :

*For* 7079862N*Read* 7079826N**UNDER GROUP : REMOUNT VETERINARY CORPS**Add serial No. 2096A 7235065X HAV OM PARKASH  
01-09-87.**UNDER GROUP : THE CORPS OF MILITARY POLICE**

Against serial 2132 :

*For* NIRMAL KRISHNA DASS*Read* NIRMAL KRISHNA DAS

Delete serial No. 2137 and connected entries.

MALINI THADANI, Under Secy.

The Gazette of INDIA (Extraordinary) Notification Nos. 7-E, 8-E and 9-E all dated 12 Aug 88, notifying the grant of honorary commissions and ranks to JCOs and NCOs on the occasion of Independence Day 88 are amended as under :—

Gazette Notification No. 7-E dated 12 Aug 88.

**UNDER HEADING : TO BE HONORARY CAPTAINS****UNDER GROUP : THE MADRAS ENGINEER GROUP**

Against serial 37 :

*For* YR SAMBASIVAN*Read* YENGAR REDDY SAMBASIVAN**UNDER GROUP : THE BENGAL ENGINEER GROUP**

Delete serial 39 and connected entries.

**UNDER HEADING : TO BE HONORARY LIEUTENANTS****UNDER GROUP : 68 ARMoured REGIMENT**

Delete serial 14 and connected entries.

**UNDER GROUP : THE REGIMENT OF ARTILLERY**

Against serial 98 :

*For* BAHADUR SINGH*Read* RAJ BAHADUR SINGH

Add serial 113A JC 107673M SUB ANGAD SINGH.

Add serial 114A JC 109071X SUB BALBIR SINGH.

Delete serial 118 and connected entries.

Delete serial 119 and connected entries.

Add serial 123A JC 93011W SUB GURBACHAN SINGH.

Delete serial 132 and connected entries.

Delete serial 136 and connected entries.

Add serial 153A JC 112224F SUB TIRLOCHAN SINGH.

**UNDER GROUP : THE MADRAS ENGINEER GROUP**

Against serial 166 :

*For* SUB MAJ*Read* SUB

Against serial 167 :

*For* SUB*Read* SUB MAJ

Against serial 169 :

*For* JC 61582Y*Read* JC 61581Y

Add serial 179A JC 87076N SUB MALLOLU MANI-KAYA RAO.

**UNDER GROUP : THE BENGAL ENGINEER GROUP**

Against serial 222 :

*For* BHISHMA PRATAP SINGH*Read* BISHAM PRATAP SINGH

Against serial 229 :

*For* INDRA PAL SINGH*Read* INDER PAL SINGH

Delete serial 237 and connected entries.

**UNDER GROUP : THE BOMBAY ENGINEER GROUP**

Delete serial 273 and connected entries.

Add serial 281A JC 92476K SUB UJAGAR SINGH.



## UNDER GROUP : THE CORPS OF SIGNALS

Against serial 283 :

*For* SUB MAJ*Read* SUB

Against serial 285

*For* SUB*Read* SUB MAJ

Add serial 296A JC 75999M SUB HIT NARAYAN SINGH.

## UNDER GROUP : THE BRIGADE OF THE GUARDS

Delete serial 358 and connected entries.

Delete serial 359 and connected entries.

Delete serial 362 and connected entries.

Delete serial 368 and connected entries.

Delete serial 375 and connected entries.

Delete serial 377 and connected entries.

Add serial 385A JC 95565N SUB TOOKI RAM SHARMA.

## UNDER GROUP : 3 GORKHA RIFLES

Add serial 698A JC 110966H SUB CHITRA BAHADUR GURUNG.

## UNDER GROUP : 4 GORKHA RIFLES

Add serial 711A JC 121517N SUB DEV SINGH RANA.

## UNDER GROUP : ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

Delete serial 758 and connected entries.

Delete serial 776 and connected entries.

## UNDER GROUP : ARMY MEDICAL CORPS

Against serial 806 :

*For* JC 85575A*Read* JC 85775A

Add serial 835A JC 58576H SUB MAJ VUDDANTI ESWARIAH.

Delete serial 845 and connected entries.

## UNDER GROUP : ARMY ORDNANCE CORPS

Add serial 876A JC 66817N SUB RAVEENDRAN N.

## UNDER GROUP : CORPS OF ELECTRICAL &amp; MECHANICAL ENGINEERS

Add serial 905A JC 59944Y SUB RANPAT SINGH.

Against serial 923 :

*For* DIGAMBAR WAGH*Read* DIGAMBER WAGH

Against serial 927 :

*For* GURBAX SINGH*Read* GURBUX SINGH

Delete serial 948 and connected entries.

Add serial 955A JC 87907F SUB SHEORAJ SINGH.

Against serial 930 :

*For* JC 117009M*Read* JC 117009A

Add serial 958A JC 90621X SUB TIRATHI RAM MANDIAL.

## UNDER GROUP : ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

Against serial 998 :

*For* SUB MAJ*Read* SUB

Gazette Notification No. 8-E dated 12 Aug 88

## UNDER HEADING : TO BE HONORARY CAPTAINS

## UNDER GROUP : THE REGIMENT OF ARTILLERY

Against serial 35 :

*For* BAJRANG SURYAWANSHI*Read* BAJARANG SURYAWANSHI

Against serial 39 :

9-424 GI/88

*For* RHOORA RAM BISHNOI*Read* RHOORA RAM BISHNOI

Against serial 55 :

*For* KANWAR SINGH*Read* BHANWAR SINGH

Against serial 58 :

*For* 01-08-88*Read* 01-03-88

Against serial 60 :

*For* JC 50384M*Read* JC 50384M

Against serial 66 :

*For* MS YADAV*Read* MARKANDE SINGH YADAV

Against serial 76 :

*For* ROOP CHAND*Read* RUP CHAND

Against serial 82 :

*For* SP VASIST*Read* SAT PAUL VASIST

Against serial 111 :

*For* SUB & HONY LT*Read* SUB MAJ & HONY LT

Against serial 112 :

*For* SUB MAJ & HONY LT*Read* SUB & HONY LT

Against serial 116 :

*For* GOWRY SAVARIMUTHU AROKIAN*Read* GOWRY SAVARIMUTHU AROKIAN

Against serial 119 :

*For* GURPRASHAD SHARMA*Read* GURPARSHAD SHARMA

Against serial 128 :

*For* KARAM SINGH*Read* KARM SINGH

Against serial 133 :

*For* JC 103589A*Read* JC 106589A

Against serial 140 :

*For* PARGAT SINGH*Read* PARGET SINGH

Against serial 143 :

*For* JC 100641H*Read* JC 109641H

Against serial 147 :

*For* JC 102056N*Read* JC 112056N

Against serial 152 :

*For* SHEIKH KHADAR BASHA*Read* SHEIK KHADAR BASHA

Against serial 165 :

*For* SUB & HONY LT*Read* SUB MAJ & HONY LT

Against serial 166 :

*For* SUB MAJ & HONY LT*Read* SUB & HONY LT

**UNDER GROUP : THE MADRAS ENGINEER GROUP**

Against serial 173 :

*For* JC 65856A*Read* JC 65865A**UNDER GROUP : THE BENGAL ENGINEER GROUP**

Against serial 210 :

*For* SHIV KARAN*Read* SHIV KARAN TRIPATHI

Against serial 233 :

*For* SHOBAN SINGH*Read* SOBAN SINGH**UNDER GROUP : THE BOMBAY ENGINEER GROUP**

Against serial 240 :

*For* DATTATRYA MULE*Read* DATTATRAYA MULE

Against serial 244 :

*For* JC 69128L*Read* JC 69128W**UNDER GROUP : THE BRIGADE OF THE GUARDS**

Against serial 309 :

*For* JC 83392H*Read* JC 93392H**UNDER GROUP : THE PARACHUTE REGIMENT**

Against serial 319 :

*For* BALLAPPA HUNUMANTHA YADAV*Read* BALLAPPA HUNUMANTH YADAV**UNDER GROUP : THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT**

Against serial 329 :

*For* JC 84519Y*Read* JC 84519L

Delete serial 330 and connected entries .

Against serial 341 :

*For* SHIVRAM POWAR*Read* SIVARAM POWAR

Against serial 343 :

*For* JC 66052H*Read* JC 86052H**UNDER GROUP : THE PUNJAB REGIMENT**

Against serial 358 :

*For* JC 71489Y*Read* JC 71480Y**UNDER GROUP : THE GRENADIERS**

Against serial 395 :

*For* JC 42601P*Read* JC 82601P

Against serial 400 :

*For* JC 96660L*Read* JC 98660L**UNDER GROUP : THE MARATHA LIGHT INFANTRY**

Against serial 408 :

*For* BASANT NALAWADE*Read* VASANT NALAWADE

Against serial 409 :

*For* VASANT GHADGE*Read* VASANT GHATGE**UNDER GROUP : THE JAT REGIMENT**

Against serial 465 :

*For* SHIV RAM SANGWAN*Read* SHIV RAI SANGWAN**UNDER GROUP : THE DOGRA REGIMENT**

Against serial 506 :

*For* JAGDISH SINGH 01-02-88*Read* JAGDISH CHAND 01-07-88

Against serial 507 :

*For* JAGDISH CHAND 01-07-88*Read* JAGDISH SINGH 01-02-88**UNDER GROUP : THE GARHWAL RIFLES**

Against serial 518 :

*For* GANGA SINGH GOSAIN*Read* GOVIND SINGH GOSAIN

Against serial 524 :

*For* JC 117788A*Read* JC 107788A**UNDER GROUP : THE KUMAON REGIMENT**

Against serial 568 :

*For* MAHABIR PARSAD*Read* MAHABIR PARASAD**UNDER GROUP : THE BIHAR REGIMENT**

Add. serial 594A :

JC 63763L SUB MAJ &amp; HONY LT RAM BAHADUR

SINGH 01-04-88

**UNDER GROUP : 1 GORKHA RIFLES**

Against serial 643 :

*For* JOGINDER SINGH GURUNG*Read* JOGINDAR SINGH GURUNG**UNDER GROUP : 3 GORKHA RIFLES**

Against serial 655 :

*For* JC 75111A*Read* JC 75411A**UNDER GROUP : ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)**

Against serial 737 :

*For* 01-07-88*Read* 01-08-88

Against serial 740 :

*For* JC 85903W*Read* JC 85930W**UNDER GROUP : ARMY MEDICAL CORPS**

Against serial 813 :

*For* UMED SINGH*Read* UMED RAM**UNDER GROUP : ARMY ORDNANCE CORPS**

Against serial 856 :

*For* JC 54876F*Read* JC 84876F

Against serial 857 :

*For* 01-03-88*Read* 01-04-88**UNDER GROUP : CORPS OF ELECTRICAL MECHANICAL ENGINEERS**

Against serial 884 :

*For* JC 113111M*Read* JC 113117M

**UNDER GROUP : ARMY EDUCATION CORPS**

Against serial 933 :

*For* JC 96340K*Read* JC 96340X**UNDER GROUP : CORPS OF MILITARY POLICE**

Against serial 946 :

*For* BRAHMA BHOJ CHHETRI*Read* BRAHMA DHOJ CHHETRI

Against serial 951 :

*For* RAMANUJ SINGH*Read* RAMA NUJ SINGH

Against serial 957 :

*For* SUB MAJ & HONY LT*Read* SUB & HONY LT**UNDER HEADING : TO BE HONORARY LIEUTENANTS****UNDER GROUP : THE REGIMENT OF ARTILLERY**

Against serial 11 :

*For* KNS KURUP*Read* KN SREEDHARA KURUP

Against serial 19 :

*For* MALIKARJUN TORGAL*Read* MALLIKARJUN TORGAL

Against serial 20 :

*For* FB SINGH*Read* FATEH BAHADUR SINGH**UNDER GROUP : THE MADRAS ENGINEERS GROUP**

Against serial 25 :

*For* VA KRISHNAMURTHY*Read* VENKETARAMA AYYAR KRISHNAMURTHI

Against serial 26 :

*For* MM MUTTY*Read* MATHEW MATHU KUTTY**UNDER GROUP : THE BENGAL ENGINEERS GROUP**

Against serial 47 :

*For* AUTAR SINGH AZAD*Read* AVTAR SINGH AZAD**UNDER GROUP : THE CORPS OF SIGNALS**

Against serial 53 :

*For* JC 60665N*Read* JC 60685N**UNDER GROUP : ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS**

Delete serial 142 and connected entries

**UNDER HEADING : TO BE HONORARY RIS/SUB MAJORS****UNDER GROUP : THE REGIMENT OF ARTILLERY**

Against serial 22 :

*For* DELJIT SINGH*Read* DALJIT SINGH

Against serial 24 :

*For* JC 1105448Y*Read* IC 105448Y

Against serial 25 :

*For* GIAN SINGH*Read* GIAN CHAND

Against serial 42 :

*For* JC 99795W*Read* JC 99794W

Against serial 52 :

*For* 01-08-88*Read* 01-03-88

Against serial 55 :

*For* YS RATHORE*Read* YADU NATH SINGH RATHORE

Against serial 60 :

*Read* RAGHU NATH YADAV*Read* RAM KUMAR YADAVA

Against serial 60 :

*For* RK YADAVA*Read* RAM KUMAR YADAVA

Against serial 64 :

*For* MS YADAV*Read* MUKHTYAR SINGH YADAV

Against serial 66 :

*For* KS NADAR*Read* KUMARAVELU SUNDARAM NADAR

Against serial 70 :

*For* DP RAO CHITTAJALLU*Read* DURGA PRASAD RAO CHITTAJALLU

Against serial 81 :

*For* 01-08-88*Read* 01-03-88

Against serial 85 :

*For* GULZARI LAL YADAV*Read* GULZARI LAL YADAVA

Against serial 99 :

*For* KARWAIL SINGH*Read* KARNAIL SINGH

Against serial 101 :

*For* KANNAN KOTTU KIZHAKKETHIL ARAVINDAKASAN*Read* KANAN KOTTU KIZHAKKETHIL ARAVINDKSHAN

Against serial 108 :

*For* NARENDAR DEV SHARMA*Read* NARENDER DEV SHARMA

Against serial 112 :

*For* 01-08-88*Read* 01-06-88

Against serial 146 :

*For* RS SINGH*Read* RAM SEWAK SINGH

Against serial 147 :

*For* RS YADAV*Read* RAM PARSHAD YADAV

Against serial 148 :

*For* AS YADAVA*Read* AMAR SINGH YADAVA

- Against serial 155 :  
*For* LS YADAV  
*Read* LAL SINGH YADAV
- Against serial 156 :  
*For* DEVI LASAC  
*Read* DEVI IASAC
- Against serial 157 :  
*For* GN RAO  
*Read* GOPISETTY NAGESWARA RAO
- Against serial 159 :  
*For* JS GREWAL  
*Read* JAMIYAT SINGH GREWAL
- Against serial 161 :  
*For* JC 91422W  
*Read* JC 115621L
- Against serial 162 :  
*For* KS PATHANIA  
*Read* KRISHAN SINGH PATHANIA
- Against serial 163 :  
*For* KA MADIVALA  
*Read* KAVATHAR ANANDA MADIVALA
- Against serial 165 :  
*For* SN PANDEY  
*Read* SIDHYA NATH PANDEY
- Against serial 167 :  
*For* WS DARDI  
*Read* WARYAM SINGH DARDI
- Against serial 168 :  
*For* RS GILL  
*Read* RAJ SINGH GILL
- Against serial 170 :  
*For* DRS TOMAR  
*Read* DATA RAM SINGH TOMAR
- UNDER GROUP : THE BENGAL ENGINEER GROUP
- Against serial 207 :  
*For* SHED KUMAR SINGH  
*Read* SHIO KUMAR SINGH
- Against serial 234 :  
*For* MS PANCHHI  
*Read* MAJOR SINGH PANCHHI
- UNDER GROUP : THE MADRAS ENGINEER GROUP
- Against serial 238 :  
*For* P NEERATHILINGAM  
*Read* PONNOCHAMY NEFRATHILINGAM
- Against serial 242 :  
*For* SN ARUNGAM  
*Read* SADUPERRI NARAYANAN ARUNUGAM
- Against serial 244 :  
*For* MOHINDED ALI  
*Read* MOHAMED ALI
- Against serial 248 :  
*For* VEERAJU KANCHERLA  
*Read* VEERRAJU KANCHERLA
- Against serial 245 :  
*For* JC 109373Y  
*Read* JC 109337Y
- UNDER GROUP : THE BOMBAY ENGINEER GROUP
- Against serial 273 :  
*For* JC 112882Y  
*Read* JC 112982Y
- UNDER GROUP : THE CORPS OF SIGNALS
- Delete serial 304 and connected entries.  
Delete serial 324 and connected entries.
- UNDER GROUP : THE PARACHUTE REGIMENT
- Against serial 332 :  
*For* BAJA SINGH  
*Read* BAJA RAM
- UNDER GROUP : THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT
- Delete serial 334 and connected entries.
- UNDER GROUP : THE MARATHA LIGHT INFANTRY
- Against serial 352 :  
*For* PB CHHETRI  
*Read* PADAM BAHADUR CHHETRI
- UNDER GROUP : THE RAJPUTANA RIFLES
- Against serial 354 :  
*For* GULAM HUSSIN  
*Read* GULAM HUSAIN
- UNDER GROUP : THE JAT REGIMENT
- Against serial 359 :  
*For* JC 11319L  
*Read* JC 115139I
- UNDER GROUP : THE BIHAR REGIMENT
- Add serial 381A JC 100622W SUB LINUS KUJUR 01-04-88
- UNDER GROUP : 5 GORKHA RIFLES
- Against serial 386 :  
*For* JC 103615X  
*Read* JC 103515X
- UNDER GROUP : ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)
- Against serial 441 :  
*For* JC 101622W  
*Read* JC 101612W
- UNDER GROUP : ARMY MEDICAL CORPS
- Delete serial 514 and connected entries.
- UNDER GROUP : ARMY ORDNANCE CORPS
- Against serial 548  
*For* JC 103663F  
*Read* JC 103653F
- Against serial 573 :  
*For* JC 84336M  
*Read* JC 84346M
- UNDER GROUP : THE CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS
- Delete serial 735 and connected entries.
- Against serial 737 :  
*For* DSWARA RAO SINDHYA  
*Read* ESWARA RAO SINDHYA
- Against serial 747 :  
*For* PRATAP SINGH GARIYA  
*Read* PARTAP SINGH GARIYA

Against serial 798 :  
*For* JC 80320K  
*Read* JC 80330K  
 Against serial 831 :  
*For* HARBANS LAL CHAND  
*Read* HARBANS LAL KANGO  
 Against serial 836 :  
*For* 01-08-88  
*Read* 01-07-88  
 Against serial 870 :  
*For* JC 90576N  
*Read* JC 90575N  
 Against serial 874 :  
*For* JC 86003H  
*Read* JC 96003H  
 Against serial 885 :  
*For* JC 116762N  
*Read* JC 116762M  
 UNDER GROUP : REMOUNT VETERINARY CORPS  
 Against serial 924 :  
*For* RV 7337P  
*Read* RV 7437P  
 UNDER GROUP : ARMY EDUCATION CORPS  
 Against serial 928 :  
*For* JC 112635  
*Read* JC 112635A  
 Against serial 936 :  
*For* PRABHU DAYAL GAUTAM  
*Read* PRABHU DYAL GAUTAM  
 UNDER GROUP : INTELLIGENCE CORPS  
 Add serial 953A JC 107878F SUB KARAN SINGH  
 01-07-88.  
 UNDER GROUP : CORPS OF MILITARY POLICE  
 Against serial 965 :  
*For* JATA SHANKAR SINGH  
*Read* JATA SHANKER SINGH  
 UNDER GROUP : ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS  
 Add serial 976A JC 124245K SUB HARBANS SINGH  
 01-06-88.  
 UNDER HEADING : TO BE HONORARY RISALDAR/  
 SUBEDAR  
 UNDER GROUP : THE REGIMENT OF ARTILLERY  
 Against serial 13 :  
*For* 01-03-88  
*Read* 01-01-88  
 Against serial 32 :  
*For* HS GILL  
*Read* HARNEK SINGH GILL  
 Against serial 37 :  
*For* AP TRIPATHI  
*Read* AMBIKA PRASAD TRIPATHI  
 UNDER GROUP : THE CORPS OF SIGNALS  
 Against serial 54 :  
*For* JC 158659A  
*Read* IC 158689A

UNDER GROUP : THE DOGRA REGIMENT  
 Against serial 100 :  
*For* BUDH RAJ  
*Read* BODH RAJ  
 UNDER GROUP : JAMMU & KASHMIR RIFLES  
 Against serial 128 :  
*For* SURESH DESHMUKH  
*Read* SURESH DESMUKH  
 UNDER GROUP : ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)  
 Against serial 137 :  
*For* JC 150572A  
*Read* JC 160572A  
 UNDER GROUP : ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)  
 Against serial 156 :  
*For* DIAN NATH SINGH  
*Read* DINA NATH SINGH  
 UNDER GROUP : ARMY ORDNANCE CORPS  
 Against serial 179  
*For* KS PUTTAPPAN  
*Read* KS KUTTAPPAN  
 UNDER GROUP : CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS  
 Against serial 228 :  
*For* RAM NARESH MAL SRIVASTAVA  
*Read* RAM NARESH LAL SRIVASTVA  
 Against serial 248 :  
*For* JC 160757L  
*Read* JC 160753L  
 Against serial 251 :  
*For* RK BHATANA  
*Read* RK KHATNA  
 UNDER GROUP : INTELLIGENCE CORPS  
 Delete serial 272 and connected entries.  
 UNDER GROUP : CORPS OF MILITARY POLICE  
 Against serial 284 :  
*For* SHOE DUTT TIWARI  
*Read* SHEO DUTT TIWARI  
 Gazette Notification No. 9-E dated 12 August 1988  
 UNDER GROUP : THE REGIMENT OF ARTILLERY  
 Against serial 29 :  
*For* 1209361F  
*Read* 1229361F  
 Against serial 159 :  
*For* 1232280N  
*Read* 1232280M  
 Against serial 190 :  
*For* 1273784F  
*Read* 1273784P  
 Delete serial 249 and connected entries.  
 UNDER GROUP : THE BENGAL ENGINEER GROUP  
 Against serial 293 :  
*For* PRITTAM CHAND  
*Read* PRITAM CHAND

Against serial 294 :

For RAM AVTAR

Read RAM AUTAR

UNDER GROUP : THE BOMBAY ENGINEER GROUP

Against serial 305 :

For MACHINDER NATH SHEWALE

Read MACHINDRA NATH SHEWALE

UNDER GROUP : THE CORPS OF SIGNALS

Against serial 453 :

For 6311011H

Read 6323011H

Against serial 578 :

For 6223137H

Read 6323137H

Against serial 580 :

For SURYA NATH MISHRA

Read SURYA NATH MISHARA

UNDER GROUP : THE PUNJAB REGIMENT

Against serial 647 :

For SARWAN LAL

Read SARMAN LAL

UNDER GROUP : THE MARATHA LIGHT INFANTRY

Against serial 678 :

For 2757687K

Read 2757686K

UNDER GROUP : THE RAJPUTANA RIFLES

Delete serial 681 and connected entries.

UNDER GROUP : THE DOGRA REGIMENT

Add serial 722A 3955000Y HAV CHANNA 01-04-88

UNDER GROUP : 9 GORKHA RIFLES

Against serial 880 :

For HARI BAHADUR CHHETRI

Read HARI BAHADUR THAPA

UNDER GROUP : ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

Against serial 932 :

For 6642233K

Read 6644233K

UNDER GROUP : ARMY MEDICAL CORPS

Against serial 977 :

For ANAI GOUNDER MURUGESAN

Read ANAI GOUNDER MURUGESAN

Against serial 1036 :

For 01-12-88

Read 01-12-87

Against serial 1065 :

For LAL BIHARI IWARI

Read LAL BIHARI TIWARI

Against serial 1169 :

For 01-02-8

Read 01-02-88

UNDER HEADING : ARMY ORDNANCE CORPS

Delete serial 1192 and connected entries.

Against serial 1208 :

For DALAL CHAKRABORTY

Read DULAL CHAKRABORTY

Against serial 1221 :

For 6991971A

Read 6891971A

Against serial 1444 :

For GORKH NATH RAI

Read GORAKH NATH RAI

Against serial 1503 :

For 7088249M

Read 7088249N

Against serial 1556 :

For MARUTI MASULKAR

Read MARUTI HASULKAR

Against serial 1683 :

For 01-09-88

Read 01-08-88

Against serial 1756 :

For SWAMI SINGH

Read SWAI SINGH

Against serial 1775 :

For 01-03-88

Read 01-04-88

UNDER GROUP : DEFENCE SECURITY CORPS

Delete serial 1878 and connected entries.

Add serial 1879 1313534Y HAV S MUNISWAMY 01-07-88

MALINI THADANI, Under Secy.

#### CORRIGENDUM

No. 2185, dated 6th December, 1988.—In the Ministry of Defence Notification No. 1660 dated 18 Jul 88, published in the Gazette of India dated 30 Jul 88 under the heading "Regular Army Permanent Commission".

For Deshmukh Vijay Ramchandra (IC-43998W), EME.

Read Vijay Ramchandra DESHMUKH (IC-43998W), EME.

V. C. GUPTA, Lt Col AMS 88

(ARMY BRANCH)

#### CORRIGENDUM

No. 2186, dated 30th November, 1988.—In the Gazette of India, Gazette No. 2343/86 under the heading (REGULAR ARMY) 'Permanent Commission' and sub heading 'Majors to be substantive Lt Cols (By Time-Scale)' after the name of C. Ramalingeswara Rao (IC 17962M) EME, 28th Jun 1986 :—

Delete Ram Randhir Singh (IC 17963H) ENGRS, 28th Jun 1986.

LT COL S. B. ATRI

Asstt. Military Secy.

DEPARTMENT OF DEFENCE RESEARCH &  
DEVELOPMENT  
(DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT  
(ORGANISATION)  
CORRIGENDUM

No. 2187, dated 23rd December, 1988.—In the Gazette of India Ministry of Defence, Notification No. published in the Government of India Gazette dated 03-12-88 under the heading *Wg Cdr to be Gp Capt*

For MLN Rao (6285) AE(M)

Read MLN Rao (6286) AE(M)

M. L. ARORA, Asstt. Director Pers

(AIR BRANCH)

No. 2188, dated 14th December, 1988.—The President is pleased to transfer the undermentioned officer from Flying (pilots) Branch to Logistics Branch, in Permanent low medical category, with effect from the date indicated against his name; but with adjusted seniority in that branch as if he was originally commissioned in Logistics Branch vide Government of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/21901/14297/PO3(D)/851/US/D(Air-III) dated 10 Apr 87.

INDIAN AIR FORCE

F(P) BRANCH)

Flt Lt PV Pimpalkhane (14297) 21 Jul 86.

The President is pleased to release the undermentioned officer from Service on grounds of ill health with effect from the date indicated against his name.

INDIAN AIR FORCE

F(N) BRANCH

Sqn Ldr PK Ghosh (11390) 14 Jun 88 (F/N).

Sqn Ldr JS Jathaul (11842) 10 Aug 88 (F/N).

V. BALAGOPALAN, Sqn Ldr.

No. 2189, dated 12th December, 1988.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire voluntarily from the service with effect from date shown against his/their name.

INDIAN AIR FORCE

AE(M) BRANCH

Wg Cdr MK Mukherjee (7849) 31 Dec 87 (AD).

Wg Cdr NP Singh (8229) 29 Feb 88 (AD).

Wg Cdr SK Niyogi (7881) 29 Feb 88 (AD).

S/L M Sharma (13527) 31 Jan 88 (AD).

I(N) BRANCH)

Wg Cdr DK Chatterjee (9864) 29 Feb 88 (AD).

Wg Cdr KL Chopra (7825) 31 Mar 88 (AD).

Wg Cdr P Vijayan (7470) 29 Feb 88 (AD).

Wg Cdr KV George (7466) 31 Mar 88 (AD).

Wg Cdr Gurmit Singh (10242) 29 Feb 88 (AD).

AE(M) BRANCH

Wg Capt PB HariKrishnan (6226) 29 Feb 88 (AD).

Wg Cdr NG Ratnakar (6418) 31 Mar 88 (AD).

Wg Capt AN Panchamawagh (6225) 31 Mar 88 (AD).

Wg Cdr HK Sharma (8276) 31 Mar 88 (AD).

Wg Cdr CS Krishnamoorthy (18850) 31 Mar 88 (AD).

Wg Cdr RS Shilllon (6667) 31 May 88 (AD).

B. U. PILLAY, Sq Ldr.  
ADPO 3(F)

No. 2190, dated —The President is pleased to make the following substantive promotion :—

INDIAN AIR FORCE

Sqn Ldr to be substantive Wg Cdr (time scale)

Flying Branch

RS Wahi Vre (9830) F(P) 16-10-88.

K. M. DAMODARAN  
Asstt. Dir of Pers (Officers)-2(A)

INDIAN AIR FORCE

F(P) BRANCH

FLT LT TO BE SUBS SQN LDR

NS Kadian (15025) 10th March 1988.

AE(M) BRANCH

FLT LT TO BE SUBS SQN LDR

SR Ashok (15473) 25th June 1988.

AE(L) BRANCH

FLT LT TO BE SUBS SQN LDR

MS Ramaswamy (15456) 25th June 1988.

V. BALAGOPALAN Sqn Ldr  
ADPO 3(D)

NAVAL HEADQUARTERS

(NAVY BRANCH)

No. 2191, dated 26th December, 1988.—The President is pleased to appoint the following officers as Civilian Staff Officers on ad hoc basis from the dates shown against their

names to 5-4-89 or till officers concerned retire or till regular incumbents become available whichever is the earliest :—

B. Sateesh Kumar—6-10-88

Bhagwan Singh—6-10-88

Behari Lal—6-10-88

Ram Chander—6-10-88

Mul Chand—6-10-88

Komal Singh—12-10-88

JA Ramamoorthy—6-10-88

GK Pandey—6-10-88

RB Chopra—6-10-88

DV Singh—6-10-88

AK Ghoshal—6-10-88

MJ Mathew—6-10-88

AK Laroia—6-10-88

Janki Pershad—6-10-88

Mukandi Lal—6-10-88

Moti Lal—6-10-88

Ram Swarup—10-10-88

Jage Ram—10-10-88

KC Raghavan—6-10-88

RS Anand—6-10-88

P. ANANTHAN KRISHNAN  
Up Mukhya Prashasan Adhikari

(NAVY BRANCH)

No. 2192, dated 13th December, 1988.—The President is pleased to appoint the following officers as temporary Dredging Masters on re-employment basis for the period shown against their names:—

(a) Lieut. (Retd.) Commander Trilok Singh—16 September 1988 (Fore-noon) to 30 June, 1993 (After-noon).

(b) Lieut. (Retd.) Commander Pratap Singh—16 September 1988 (Fore-noon) to 31 December 1995 (After-noon).

(c) Lieut. (Retd.) Commander P. N. Khanuja—16 September 1988 (Forenoon) to 30 September 1991 (After-noon).

2. They will be on probation for a period of tow years.

V. K. THAKUR, Dy. Dir. of Pers.